



श्रीमद् बुद्धिसागरसुरिजी ग्रंथमाला ग्रंथांक ५७-५८

~~प्रसफुटित श्री देवतंमजीकृत~~

भागसप्तसेद्धार.

तथा

अध्यात्मगीता.

श्री कुवरविजयजी (अमीकुवर) कृत ट्वासह.

शा. छगनलाल लक्ष्मीचंद-बडुना.

शा. प्रेमचंद दलसुख ~~अव~~ पादरत्ना

एमनी ~~द्रव्य~~ हायथी

छपा ~~की~~ प्रसिद्ध करनार

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारकेंद्र, ~~मंडळ.~~

हा. वकील ~~मी~~हनलाल हीमचंद-पादरा

सं. १९७८

सं. २९२२

किमत ०-६-०

पुस्तक मळवानुं ठेकारुणुः—

वकील मोहनलाल हीमचंद

मु. पादरा (गुजरात).

वडोदरा—शियापुरामां लुहाणामित्र स्टीम प्रेसमां विठ्ठलभाई
भाशाराम ठकरे प्रकाशकने माटे ता. २६-५-२२ ना रोज
छापी प्रसिद्ध कर्युं.

प्रस्तावना

अध्यात्मज्ञानरसिक द्रव्यानुयोगना समर्थ
 ज्ञाता श्रीमद् देवचंद्रजी महाराजनुं नाम भाग्येज
 कोइ जैनथी अजाण्युं हशे, आगम ज्ञाननी
 कुंचीरुप आगमसार नामनो ग्रंथ तेओश्रीए
 संवत १७७६ ना फागण मासमां मोटाकोट-
 मरोट-मां चोमासुं रहीने बनावेल छे. आ
 ग्रंथनी उत्तमता ग्रंथ पोतेज सिद्ध करे छे तेनी
 प्रसंशा करवी ते सोनाने गील्ट करवा जेवुं छे
 जे ग्रंथ वांचवाथी जणाइ आवशे. आ ग्रंथ
 अध्यात्मज्ञानरसिक श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिजी
 महाराजना सदुपदेशथी वडु तालुके पादराना
 शा. छगनलाल लक्ष्मीचंद ता. पादराना शा.

४

प्रेमचंद दलसुखभाइए सं. १९६७ नी सालमां छपावी तेनी १०००) नकल भेट तरीके आपी हती तमाम नकल खपी जवाथी अने तेनी घर्णी मागणी चालु रहेवाथी उक्त सूरिजी महाराजना सदुपदेशथी तेनी आ बीजी आवृती पोतानाज खर्चे छपाववा सदर बंने ग्रहस्थोनी इच्छा थवाथी मंडळे आ अती उपयोगी ग्रंथनी बीजी आवृती बहार पाडी छे ते माटे ते बंने ग्रहस्थोने धन्यवाद घटे छे.

आ ग्रंथ प्रकरण रत्नाकरपहेला भागमां छपायलो छे तेमां तथा पहेली आवृतीमां प्रतिमापूजा तथा गुणस्थानक विचार नामना अगत्यना विषयो छपायला नहोता पण ते पछी श्रीमद् देवचंद्रजी महाराजना बनावेला

५

तमाम ग्रंथो छपाववानी प्रवृत्ती करतां आगम-
 सार ग्रंथनी घणी प्रतो भेगी करी जेमां
 सुरतना श्री मोहनलालजी महाराजना भंडार-
 मांथी बे प्रतो नं. ४०९-५६३ नी मळी तथा
 पं० श्री लाभविजयजी पासेथी एक प्रत तेमज
 पादराना भंडारमांथी एक प्रत मळी ते चारे
 प्रतोमां आ ग्रंथना पृष्ठ ५५ नी पहेली लीटीथी
 शरु थतो प्रतिमापूजानो तथा पृष्ठ २०४ थी
 शरु थतो गुणस्थानक विचार ए वंने विषयो
 दाखल हता तेथी आ ग्रंथमां ते जे ते स्थळे
 दाखल करी लेवामां आवेला छे पादराना
 भंडारनी प्रत तथा पं. लाभविजयजी वाळी
 प्रत तेओश्रीना पादराना संग्रहमां मोजुद छे.

हालनी मोघवारीना लीधे आ ग्रंथनी

६

पढतर किंमत ०-१०-० आवेल छतां तेनो विशेष लाभ लेवाय तेटला माटे मंडळना नियम मुजब पढतरथी ओछी मात्र रु. ०-६-० किंमत राखवामां आवी छे आत्मार्थी जनो तेनो सारी रीते लाभ लेशे एवी आशा छे.

आगमसारनी पहेली आवृतीमां श्रीमद् देवचंद्रजी महाराजनो बनावेल अध्यात्मगीता ग्रंथ टबा सह दाखल कर्यो हतो पण हालमां सदर ग्रंथ उपर श्री कुवरविजयजी अपर नाम अमीकुवरजी महाराजनो बनावेलो टबो मळा आववाथी ने ते बिस्तारपुर्वक उत्तम रीते लखायलो होवाथी तेटबो आ ग्रंथमां दाखल करवा अमारा परोपकारी गुरुमहाराज श्रीमद् बुद्धिसागर सूरिजी महाराजे प्रेरणा करवाथी

७

ते दाखल करेल छे ते ते एक वखत अवश्य
वांची जवा आग्रहपुर्वक भलामण छे.

आ ग्रंथ छपाववामां उमेटाना शेट
फुलभाइ मानभाइ जेओ आत्मज्ञाननी रुची
वाळा छे तेओए रु. १००) आपेला छे तेमनो
तेमज गाम उछदनी बाइ माणेक ते शा.
नेमचंद मोतीचंदनी दीकरीए रु. ५०)
आपेला छे तेमनो आभार मानवामां आवे छे.

छेवटे आ उपयोगी ग्रंथ बहार पाडवा
माटे प्रेरणा करनार परम पुज्य गुरु श्री
बुद्धिसागरसूरिजी माहाराजनो उपकार मानी
आ प्रस्तावना पुर्ण करवामां आवे छे.

पादरा-अक्षय } वकील मोहनलाल
तृतिया १९७८. } हीमचंद.

अनुक्रमणिका.

१ आगमसार				पृष्ठ
त्रणकरण	१
ज्ञानस्वरूप	६
छ द्रव्यनु स्वरूप	७
आठ पक्ष	”	१७
सात नय	”	३६
चार निक्षेप	”	५०
प्रतिमा पूजा	५५
चार प्रमाण	”	१०७
सप्तभंगी	”	१०९
निगोद	”	११८
बार व्रत चारित्र	”	१३४
चार ध्यान	”	१४६
भावना	”	१६२
समकित	”	१६८
पंचसमवाय	”	१९५
गुणस्थानक विचार	२०४
२ अध्यात्मगीता				

शुद्धिपत्रक.

पृष्ठ	लींटी	अशुद्ध	शुद्ध
१८	१३	गुण अनंता छे	गुण एक छे गुण अनंता छे
१९	९	पर्याय छे	पर्याय छे ते अनेक-पणुं छे
२३	९	नथी	नथी, एमज आकाशास्तिकायने विषे आकाशनाज स्व द्रव्यादिक चार छे पण बीजामां पांच द्रव्यना नथी
३०	१४	द्रव्यक्षेत्र	स्वक्षेत्र

१०

३१	८ अलोकाश	अलोकाकाश
३३	१४ विच्छेदशे	विच्छेदशे
३६	११ द्रव्यार्थिक	ते नित्य द्रव्यार्थिक
३७	२ द्रव्ययम्	द्रव्यं
३७	११ द्रव्य ते	द्रव्य एक छे
३४	४ भव्यपणुं	भव्यपणुं सिद्धपणुं
४४	२ एक विरति	एक सर्व विरति
५०	५ द्रव्य	द्रव्य वचनथी ग्रह्या जाय नहीं पण
५१	१२ घोडा	घोडा
५४	२ पण	पण नाम
५४	८ पाखे	साखे
६८	१४ भमवती	भगवती
८९	९ खास	साख

११

९१	६ एग	एम
९७	१४ (छेडे उमेखुं)	एम नयचक्रसारमां कहुं छे
९८	११ नैगमें	शुद्ध नैगमे
१०३	१० निर्गुणगो	निर्गुणनो
१०६	२ माटे	माटे
११०	२ परद्रव्यना	परद्रव्यना
११२	११ युगगत	युगपत
११५	१२ रह्यो छे	रह्यो छे तथा अध- र्मास्तिकायनो एक प्रदेश रह्यो छे
११५	१४ कोइ द्रव्य	कोइ द्रव्य कोइ द्रव्य
११६	७ धर्मास्तिकाय	धर्मास्तिकाय
१२४	९ सागरोपमना	सागरोपमनुं छे तेना

१२

१४३	११	पोषाने	पोषीने
१४५	३	उत्सर्ग	उत्सर्ग अने ते
१६४	८	तेना	तेवा
१६७	७	चारित्रजुं	चारित्र ते मोक्षनुं
१७१	१३	५ दे	५ गणिविजय ६ दे
२११	८	एहवी	एहनी
२१२	१३	तेडनो	तेहनो
२२१	११	अव्याक	अव्यापक
२५४	७	धन्य	स्कंध
२६१	७	पूर्ण	पूर्व



श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडल तरङ्गिणी

श्रीमद् पृथ्वीसागरसूरिण्य ग्रन्थभाषाणां
प्रगट्थयेत्ता ग्रन्थो.

ग्रंथांक	पृष्ठ	किंमत
१. क लज्जन संग्रह भाग १ दो.	२००	०-८-०
x १. अध्यात्म व्याख्यानभाषा.	२०६	०-४-०
x २. लज्जनसंग्रह भाग २ जे.	३३६	०-८-०
x ३. लज्जनसंग्रह भाग ३ जे.	२१५	०-८-०
x ४. समाधि शतकम्	३४०	०-८-०
x ५. अनुभव परिचयशी,	२४८	०-८-०
६. आत्मप्रदीप.	७१५	०-८-०
x ७. लज्जनसंग्रह भाग ४ थे।	३०८	०-८-०
८. परमात्मदर्शन.	४३२	०-१२-०
x ९. परमात्मज्योति.	५००	०-१२-०
x १०. तत्त्वत्रिंशु.	२३०	०-४-०
x ११. गुणानुराग. (आवृत्ति पीठ)	२४	०-१-०
x १२-१३. लज्जनसंग्रह भाग ५ मे। तथा ज्ञानहीपिका.	१६०	०-६-०

૨

- X ૧૪. તીર્થયાત્રાનું વિમાન (આ.ખીજી) ૬૪ ૦-૧-૦
 X ૧૫. અધ્યાત્મ ભજનસંગ્રહ ૧૯૦ ૦-૬-૦
 X ૧૬. ગુરુમોક્ષ. ૧૭૨ ૦-૪-૦
 X ૧૭. તત્ત્વજ્ઞાનદીપિકા ૧૨૪ ૦-૬-૦
 ૧૮. ગહુલીસંગ્રહ ભા. ૧ ૧૧૨ ૦-૩-૦
 X ૧૯-૨૦ શ્રાવધર્મસ્વરૂપ ભાગ ૧-૨
 (આવૃત્તિ ત્રીજી) ૪૦-૪૦-૧-૦
 X ૨૧. ભજન પદ સંગ્રહ ભાગ ૬ ક્રો. ૨૦૮ ૦-૧૨-૦
 ૨૨. વચનામૃત. ૩૦૮ ૦-૧૪-૦
 ૨૩. યોગદીપક. ૨૬૮ ૦-૧૪-૦
 ૨૪. જૈન ઐતિહાસિક રાસમાળા. ૪૦૮ ૧-૦-૦
 X ૨૫. આનન્દધન પદસંગ્રહ ભાવાર્થ
 સહિત. ૮૦૮ ૨-૦-૦
 X ૨૬. અધ્યાત્મ શાન્તિ (આવૃત્તિખીજી) ૩૩૨ ૦-૩-૦
 ૨૭. કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૭ મો. ૧૫૬ ૦-૮-૦
 X ૨૮. જૈનધર્મની પ્રાચીન અને અર્વા-
 ચીન સ્થિતિ. ૯૬ ૦-૨-૦

३

x २६. कुमारपाल चरित्र (हिंदी)	२८७	०--६-००
३०. थी ३४. सुभसागर	गुरुगीता.	३०० ०-४-०
३५. पद्मद्रव्य चिन्ता.		२४० ०-४-०
x ३६. विष्णुपुर वृतांत.		६० ०-४-०
३७. सागरमती काव्य		१६६ ०-६-०
३८. प्रतिज्ञा पावन.		११० ०-५-०
३९-४०-४१. जैनगुरुमत प्रबंध.		
संघप्रगति. जैनगीता.		१-०-०
४२. जैन धातुप्रतिमा लेख संग्रह.		१-०-०
४३. मित्रमैत्री.		०-८-०
x ४४. शिष्योपनिषद्.		०-२-०
४५. जैनोपनिषद्.	४८	०--२--०
४६-४७. धार्मिक गद्यसंग्रह तथा पत्र		
सद्गुरुपदेश. भाग १ को.	६७६	३-०-०
४८. भजन संग्रह भा. ८	६०४	३-०-०
४९. श्रीमद् देवयद्र भा. १	१०२८	२-०-०
५०. कर्म योग	१०१२	३-०-०

૪

૫૧. આત્મતત્વ દર્શન	૧૧૨	૦-૧૦-૦
૫૨. ભારત સહકાર શિક્ષણ	૧૬૮	૦-૧૦-૦
૫૩. શ્રીમદ્દેવચંદ્ર ભા. ૨	૧૨૦૦	૩-૮-૦
૫૪. ગહુલી સંગ્રહ ભા ૨	૧૩૦	૦-૪-૦
૫૫. કર્મપ્રકૃતિત્રીકાભાષાંતર	૮૦૦	૩-૦-૦
૫૬. ગુરૂગીત ગુહલીસંગ્રહ	૧૯૦	૦-૧૨-૦
૫૭-૫૮. આગમસાર અને અધ્યાત્મ- ગીતા.	૪૭૦	૦-૬-૦

x આ નીચાની વાળા ગ્રંથો સીઝકમાં નથી

ઉપરનાં પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું

વકીલ મોહનલાલ હીમચંદ
(ગુજરાત) પાદરા

ॐ

॥ श्रीसर्वज्ञाय नमः ॥

॥ अथ ॥

॥ श्रीमत्पंडितश्रीदेवचंद्रजीकृत ॥

आगमसार.



भव्यजीवने प्रतिबोधवा निमित्ते मोक्ष-
मार्गनी वचनिका कहे छे. तिहां प्रथम जीव
अनादिकालनो मिथ्यात्वी हतो ते काललब्धि
पामीने त्रण करण करे छे. तेनां नाम-पहेलुं
यथाप्रवृत्ति करण, बीजुं अपूर्व करण, अने
त्रीजुं अनिवृत्ति करण.

२

आगमसार.

तेमां पहेलुं यथाप्रवृत्ति करण कहे छे. १
 ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय,
 ४ अंतराय, ए चार कर्मनी त्रिस कोडाकोडी
 सागरोपमनी स्थिति छे, तेमांथी ओगणत्रीस
 कोडाकोडी खपावे अने एक कोडाकोडी बाकी
 राखे, तथा १ नामकर्म, २ गोत्रकर्म, ए बे
 कर्मनी वीस कोडाकोडी सागरोपमनी स्थिति
 छे, तेमांथी ओगणीस खपावे अने एक को-
 डाकोडी राखे, अने मोहनीयकर्मनी सित्तेर
 कोडाकोडी सागरोपमनी स्थिति छे. तेमांथी
 अगणोतेर खपावे, बाकी एक कोडाकोडी
 शेष राखे । एवी रीते एक आयुकर्म वर्जिने
 बाकी साते कर्मनी एकपल्योपमना असंख्या-
 तमा भागेन्यून एक कोडाकोडी सागरोपमनी

आगमसार.

३

स्थिति राखे, एवो जे वैराग्यरूप उदासी परिणाम तेने यथाप्रवृत्तिकरण कहिये. ए पहेलुं करण, सर्वसंज्ञी पंचेद्रीजीव अनन्तीवार करे छे.

हवे बीजुं अपूर्वकरण कहे छे. ते एक कोडाकोडी सागरोपमनी स्थितिमांहेथी एक मुहूर्त्त अने अनादि मिथ्यात्व जे अनंतानुबंधीआनी चोकडी ते खपाववाने अज्ञान हेय ते छांडवुं, अने ज्ञान उपादेय एटले आदरवुं, ए वांछारूप अपूर्व कहेतां पहेलां क्यारे न आव्यो एवो जे परिणाम ते अपूर्व करण कहीये, ए बीजुं करण ते समकितयोग्य जीवने थाय.

हवे त्रीजुं अनिवृत्ति करण कहे छे. ते मुहूर्त्तरूप स्थिति खपावाने निर्मल शुद्ध सम-

४

आगमसार.

कित पामे मिथ्यात्वनो उदय मटे त्यारे जीव
 उपशम समकित पामे, एवो जे परिणाम ते
 अनिवृत्ति करण कहिये. ए करण कीधाथी
 गंठीभेद थयो कहीये. उक्तंश्च आवश्यकनि-
 र्युक्तौ “ जा गंठी ता पढमं । गंठीसमय छेओ
 भवेवीओ ॥ अनिअट्टिकरणं पुण । समत्तपु-
 रक्खडेजीवे ॥ १ ॥ ऊसर देसं दहुलियं च ।
 विज्जाइ वणदवो पप्प इय ॥ मिच्छत्तस्साणुदए ।
 उवसमसम्मं लहइ जीवो ॥ २ ॥ एम मिथ्या-
 त्वनो उदय मट्याथी जीव समकित पामे, ते
 समकितनी सदहणाना वे भेद छे, एक व्य-
 वहार समकित सदहणा, बीजी निश्चय सम-
 कित सदहणा.

देवश्रीअरिहंत देवाधिदेव, अने गुरु

आगमसार.

६

मुसाधु जे सूधो अर्थ कहे ते, तथा धर्म केव-
लीनो प्ररुप्यो जे आगमसां सातनय तथा एक
प्रत्यक्ष बीजुं परोक्ष ए वे प्रमाण अने चार
निक्षेपे करी सहहे, एवी सहहणा ते व्यवहार
समकित कहिये. ए पुण्यनुं कारण तथा धर्म
प्रगट करवानुं कारण छे एवी रुचि ज्ञानविना
पण घणा जीवोने उपजे.

बीजुं निश्चयसमकित ते आवी रीते जे
निश्चय देव ते आपणोज आत्मा जीव निष्पन्न-
स्वरूपी सिद्ध ते संग्रहनयनीसत्तागवेपतां, तथा
निश्चयगुरु ते पण आपणो आत्माज तत्त्वरमणी,
अने निश्चयधर्म ते आपणा जीवनी स्वभावज
छे एवी सहहणा ते मोक्षनुं कारण छे केमके
जीव स्वरूप ओलख्या विना कर्म स्वप्ने नहीं

६

आगमसार.

एवी शुद्ध सदृहणा ते निश्चयसमकित.

हवे ज्ञाननुं स्वरूप कहे छे ते ज्ञानना वे भेद छे. एक व्यवहारज्ञान, बीजुं निश्चयज्ञान, तेमां अन्यमतिनां सर्वशास्त्र जाणवां. अथवा जैनागममध्ये कहा जे एकगणितानुयोग ते क्षेत्रमान, बीजो चरणकरणानुयोग ते क्रिया-विधि, त्रीजो धर्मकथानुयोग ए त्रण अनुयोगनुं जाणवापणुं ते सर्व व्यवहारज्ञान छे अथवा अन्तरउपयोगविना जे सूत्रना अर्थ करवा ते पण व्यवहारज्ञान कहियें.

हवे निश्चयज्ञान ते छ द्रव्य तथा तेना गुण अने पर्याय सर्वने जाणे तेमां पांच अजीव द्रव्य छे ते हेय-कहेतां छांडवायोग्य जाणी छांडवा, अने एक जीवद्रव्य ते निश्चयेंकरी

आगमसार.



सिद्धसमान मोक्षमयी मोक्षनो जाणनार मोक्षनुं
कारण मोक्षनो जावावालो मोक्षमांज रहे छे
एहवो आपणो जीव अनंतगुणी अरूपी छे
तेनेज ध्यावे ते निश्चयज्ञान कहियें.

हवे एक धर्मास्तिकाय बीजो अधर्मास्ति-
काय, त्रीजो आकाशास्तिकाय, चोथो पुद्गला-
स्तिकाय, पांचमो जीवास्तिकाय, अने छट्टो
काल ए छ द्रव्य शाश्वता छे. तेनुं ज्ञान कहे
छे. ए छ द्रव्य मध्ये पांच अजीव द्रव्य छे
अने एक जीव द्रव्य ते चेतनालक्षणवंत छे.
उपादेय छे.

हवे ए छ द्रव्यना गुण कहे छे. पहेलो
धर्मास्तिकायना चार गुण एक अरूपी, बीजो

८

आगमसार.

अचेतन, त्रीजो अक्रिय, चोथो गतिसहायगुण.
 बीजा अधर्मास्तिकायना षण चार गुण छे.
 एक अरूपी, बीजो अचेतन त्रीजो अक्रिय,
 अने चोथो स्थितिसहायगुण. त्रीजा आका-
 शास्तिकायद्रव्यना चार गुण छे. एक अरूपी,
 बीजो अचेतन, त्रीजो अक्रिय, चोथो अवगा-
 हना दानगुण. हवे कालद्रव्यना चार गुण
 कहे छे. एक अरूपी, बीजो अचेतन, त्रीजो
 अक्रिय, चोथो नत्रापुराणवर्तनालक्षण. हवे
 पुद्गलद्रव्यना चार गुण कहे छे. एक रूपी,
 बीजो अचेतन, त्रीजो सक्रिय, चोथो मिलण-
 विखरणरूप पूरणगलन गुण. हवे जीवद्रव्यना
 चार गुण कहे छे. एक अनंतज्ञान, बीजो
 अतंतदर्शन, त्रीजो अतन्तचारित्र, चोथो

आगमसार.

९

अनंतवीर्य, ए छ द्रव्यना गुण कद्या ते नित्य-
ध्रुव छे.

हवे छ द्रव्यना पर्याय कहे छे. धर्मास्ति-
कायना चार पर्याय छे. एक खंध, बीजो देश,
त्रीजो प्रदेश, चोथो अगुरुलघु, अधर्मास्ति-
कायना चार पर्याय. एक खंध, बीजो देश,
त्रीजो प्रदेश, चोथो अगुरुलघु; पुद्गलद्रव्यना
चार पर्याय. एक वर्ण, बीजो गंध, त्रीजो रस,
चोथो स्पर्श अगुरुलघुसहित; तथा आकाशा-
स्तिकायना चार पर्याय. एक खंध, बीजो
देश, त्रीजो प्रदेश, चोथो अगुरुलघु; काल-
द्रव्यना चार पर्याय. एक अतीत काल, बीजो
अनागत काल, त्रीजो वर्तमान काल, चोथो
अगुरुलघु; अने जीव द्रव्यना चार पर्याय.

१०

आगमसार.

एक अव्याबाध, बीजो अनवगाह, त्रीजो अमूर्त्तिक, चोथो अगुरुलघु. ए छ द्रव्यना पर्याय कह्या.

हवे छ द्रव्यना गुणपर्यायिनुं साधर्म्यपणुं कहे छे. अगुरु लघुपर्याय सर्वद्रव्यमां सरीखो छे अने अरूपीगुण पांच द्रव्यमां छे. एक पुद्रलद्रव्यमां नथी; तथा अचेतनगुण पांच द्रव्यमां छे. एक जीवद्रव्यमां नथी, अने सक्रियगुण जीव तथा पुद्रल ए बे द्रव्यमां छे. बाकी चार द्रव्यमां नथी; तथा चलणसहायगुण एक धर्मास्तिकायमां छे, बीजा पांच द्रव्यमां नथी; वली स्थिरसहायगुण एक अधर्मास्तिकायमां छे. बीजा पांच द्रव्यमां नथी; तथा अवगाहनागुण ते एक आकाशद्रव्यमां

आगमसत्तार.

३१

छे, बीजा पांच द्रव्यमां नथी; अने वर्तनागुण ते एक कालद्रव्यमांज छे, बीजा पांच द्रव्यमां नथी; तेमज मिलणविस्वरणगुण ते पुद्गलमांछे, बीजा द्रव्यमां नथी तथा ज्ञान-चेतना गुण ते एक जीव द्रव्यमां छे, पण बीजा द्रव्यमां नथी. ए मूलगुण कोइ द्रव्यना कोइ द्रव्यमां मिले नही. एक धर्म बीजो अधर्म, त्रीजो आकाश, ए त्रण द्रव्यना त्रण गुण तथा चार पर्याय सरिखा छे अने त्रण गुणें करी तो काल द्रव्य पण ए समान छे.

हवे वली अग्यार बोले करी छ द्रव्यना गुण जाणवाने गाथा कहे छे.

परिणामी जीव मुत्ता, सपएसा एग खित्त किरिआय। निच्चं कारण कत्ता,सव्वगय

૧૨

આગમસાર.

इयर अप्पवेसे । १ ।

અર્થ—નિશ્ચયનયથી આપ આપણા સ્વ-
 ભાવે છ' દ્રવ્ય પરિણામી છે અને વ્યવહારન-
 યથી જીવ તથા પુદ્ગલ ' વે દ્રવ્ય પરિણામી છે
 તથા ઇક ધર્મ, વીજો અધર્મ, ત્રીજો આકાશ
 અને ચોથો કાલ, ' ચાર દ્રવ્ય અપરિણામી
 છે. તથા છ દ્રવ્યમાં ઇક જીવ દ્રવ્ય તે જીવ
 છે, વીજા પાંચ દ્રવ્ય અજીવ છે તથા છ દ્રવ્ય-
 માં ઇક પુદ્ગલ રૂપી છે અને પાંચ દ્રવ્ય અરૂપી
 છે. છ દ્રવ્યમાં પાંચ દ્રવ્ય સપ્રદેશી છે, અને
 ઇક કાલ દ્રવ્ય અપ્રદેશી છે. તેમાં ઇક ધર્મા-
 સ્તિકાય વીજો અધર્માસ્તિકાય ' વે દ્રવ્ય
 અસંખ્યાત પ્રદેશી છે અને ઇક આકાશદ્રવ્ય
 અનંતપ્રદેશી છે. જીવ દ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી

આગમસાર.

૧૩

છે, પુદ્ગલપરમાણુ * અનંતપ્રદેશી છે, પરમાણુઓ અનંતા છે એમ પાંચ દ્રવ્ય સપ્રદેશી છે અને છઠ્ઠો કાલ અપ્રદેશી છે.

છ દ્રવ્યમાં એક ધર્માસ્તિકાય, બીજો અધર્માસ્તિકાય, ત્રીજો આકાશાસ્તિકાય એ ત્રણ તે એકેક દ્રવ્ય છે, તથા એક જીવ દ્રવ્ય બીજો પુદ્ગલ દ્રવ્ય ત્રીજો કાલદ્રવ્ય એ ત્રણ અનેકઅનેક છે, છ દ્રવ્યમાં એક આકાશદ્રવ્ય ક્ષેત્ર છે, અને બીજા પાંચ દ્રવ્ય ક્ષેત્રી છે; નિશ્ચયનયથી છ દ્રવ્ય પોતપોતાના કાર્યે સદા પ્રવર્તે છે માટે સક્રિય છે; અને વ્યવહારનયથી જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય સક્રિય છે, તેમાં પણ પુદ્ગલ સદા સક્રિય છે, અને જીવ દ્રવ્ય

* પુદ્ગલાસ્તિકાયના સ્કન્ધો પર્યાયો અનન્તપ્રદેશી છે.

१४

आगमसार.

तो संसारी थको सक्रिय छे; पण सिद्धअवस्थायें थको संसारी क्रिया करवाने अक्रिय छे; तथा बाकीना चार द्रव्य तो अक्रिय छे; निश्चयनयथी छ द्रव्य नित्य छे. ध्रुव छे; अने उत्पादव्ययें करी अनित्यपणे पण छे तथा व्यवहारनयें जीव अने पुद्गल ए बे द्रव्य अनित्य छे, बाकीना चार द्रव्य नित्य छे, यद्यपि उत्पादव्ययध्रुवपणे सर्व पदार्थ परिणमे छे त्रौपण एक धर्म, बीजो अधर्म, त्रीजो आकाश, चोथो काल, ए चार द्रव्य सदा अवस्थित छे ते माटे नित्य कहां.

छ द्रव्यमां एक जीव द्रव्य अकारण छे अने पांच द्रव्य कारण छे. केमके पांचे द्रव्य जीवने भोगमां आवे छे माटे कारण कहिये.

आगमसार.

१५

कैमके धर्मास्तिकाय चालवामां साह्य आपे छे.
 अधर्मास्तिकाय थिर रहेवामां साह्य आपे छे.
 आकाशास्तिकाय अवकाश आपे छे. पुद्गला-
 स्तिकाय जीवने मधुरादि, सुरभिगंधादिक
 तथा सकोमल स्पर्शादिक भोगपणे थाय छे
 तथा कालद्रव्य ते जीवने जरा, बाल,
 तारुण्य अवस्था दिएछे, तथा अनादि संसा-
 री जीव भवस्थिति परिपाक छतां एक अंत-
 र्बृहूर्तकालमां सकलकर्म निर्जरी मोक्ष पहोंचे
 तिहां सिद्ध अवस्थायें अनंतोकाल पर्यंत जीव
 अनंता सुखने विलसे माटे कालद्रव्य पण
 जीवने भोग थाय छे. पण एक जीव द्रव्य
 कोइने भोग आवतो नथी माटे अकारण
 कणुं अने पांच द्रव्य भोग आवे माटे कारण

૧૬

આગમસાર.

કહ્યાં તથા ઘળી પ્રતોમાં તો સંક્ષેપે એટલું છે જે છ દ્રવ્યમાં એક જીવ દ્રવ્ય કારણ છે. પાંચ દ્રવ્ય અકારણ છે એ પળ વાત ઘળી રીતે મલતી છે. માટે જે બહુશ્રુત કહે તે સ્વરૂં. મારી ધારણા પ્રમાણે જીવદ્રવ્ય કારણ અને પાંચ દ્રવ્ય અકારણ એમ સંભવે છે” નિશ્ચયનયથી છએ દ્રવ્ય કર્તા છે અને વ્યવહારનયે એક જીવદ્રવ્ય કર્તા છે. બાકી પાંચ દ્રવ્ય અકર્તા છે. છ દ્રવ્યમાં એક આકાશદ્રવ્ય સર્વવ્યાપી છે, અને પાંચદ્રવ્ય લોક વ્યાપી છે. છએ દ્રવ્ય એક સ્થાનમાં એકઠાં રહ્યાં છે પણ એક બીજા સાથે મલી જાય નહીં એ છ દ્રવ્યનો વિચાર કહ્યો.

હવે એકેકા દ્રવ્યમાં એક નિત્ય, બીજો

आगमसार.

१७

अनित्य त्रीजो एक चोथो अनेक, पांचमो
 सत्, छट्टो असत्, सातमो वक्तव्य, आठमो
 अवक्तव्य, ए आठ आठ पक्ष कहे छे,

धर्मास्तिकायना चार गुण नित्य छे
 तथा पर्यायमां धर्मास्तिकायनो एक खंध
 नित्य छे. बाकीना देश प्रदेश तथा अगुरुलघु
 पर्याय अनित्य छे. अधर्मास्तिकायना चार
 गुण तथा एक लोकप्रमाण खंध नित्य छे
 अने एक देश, बीजो प्रदेश, त्रीजो अगुरु-
 लघु ए त्रण पर्याय अनित्य छे. तथा आका-
 शास्तिकायना चार गुण तथा लोकालोकप्र-
 माणखंध नित्य छे अने एक देश, बीजो
 प्रदेश, त्रीजो अगुरुलघु ए पर्याय अनित्य
 छे. तथा कालद्रव्यना चार गुण नित्य छे

૧૮

આગમસાર.

અને ચાર પર્યાય અનિત્ય છે. પુદ્ગલ દ્રવ્યના ચાર ગુણ નિત્ય અને ચાર પર્યાય અનિત્ય છે. જીવદ્રવ્યના ચાર ગુણ તથા ત્રણ પર્યાય નિત્ય છે અને એક અગુરુલઘુ પર્યાય અનિત્ય છે. એ રીતે નિત્યાનિત્યપક્ષ કહ્યો.

હવે એક અનેકપક્ષ કહે છે. એક ધર્માસ્તિકાય વીજો અધર્માસ્તિકાય. એ બે દ્રવ્યનો સ્વંધ લોકાકાશપ્રમાણ એક છે અને ગુણ અનેક છે. પર્યાયઅનંતા છે. પ્રદેશ અસંખ્યાતા છે, તેણે કરી અનેક છે, આકાશદ્રવ્યનો લોકાલોકપ્રમાણસ્વંધ એક છે અને ગુણ અનંતા છે. પર્યાય અનંતા છે. પ્રદેશઅનંતા છે. માટે અનેક છે, કાલ દ્રવ્યનો વર્તનારુપ ગુણ અનંતા છે, પર્યાય અનંતા છે, કેમકે સમય

આગમસાર.

૧૯

અનંતા છે. અતીત કાલે અનંતાસમય ગયા અને અનાગતકાલે અનંતા સમય આવશે. તથા વર્તમાનકાલે સમય એક છે માટે અનેક પક્ષ છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના પરમાણુ અનંતા છે તે એકેક પરમાણુમાં અનંતાગુણ પર્યાય છે અને સર્વ પરમાણુમાં પુદ્ગલપણું તે એકજ છે માટે એક છે.

જીવદ્રવ્ય અનંતા છે. એકેકા જીવમાં પ્રદેશ અસંખ્યાતા છે. તથા ગુણ અનંતા છે. પર્યાય અનંતા છે તે અનેકપણું છે પણ જીવિતવ્યપણું સર્વજીવલું એકસરીખું છે માટે એકપણું છે. ઇહાં શિષ્ય પુછે છે જે સર્વ જીવ એક સરીખા છે તો મોક્ષનાજીવ સિદ્ધ પરમાનંદમયી દેશ્વાય છે અને સંસારીજીવ કર્મવશ

२०

आगमसार.

पड्या दुःखी देखाय छे अने ते सर्व जुदा जुदा देखाय छे ते केम ? तेहने गुरु उत्तर कहे छे के निश्चयनये तो सर्व जीव, सिद्ध समान छे माटेज सर्व जीव कर्म खपावीने सिद्ध थाय छे तेथी सर्व जीवनी सत्ता एक छे.

फरि शिष्य पुछे छे के जो सर्व जीव सिद्ध समान कहो छो तो अभव्य जीव पण सिद्ध समान छे एम ठेरयुं (ठर्युं) अने ते तो मोक्षे जता नथी, तेहने ए उत्तर जे अभव्यमां परावर्त्त धर्म नथी तेथी सिद्ध थता नथी माटे तेनो एहवोज स्वभाव छे जे मोक्षे जवुंज नथी अने भव्यजीवमां परावर्त्त धर्म छे माटे कारण सामग्री मिले पलटण पाभे, गुणश्रेणि चढी मोक्ष करी सिद्ध थाय पण जीवना मुख्य

आगमसार.

२१

आठ रुचक प्रदेश जे छे ते निश्चयनयथी भव्य तथा अभव्य सर्वना सिद्ध समान छे माटे सर्व जीवनी सत्ता एक सरीखी छे केमके ए आठ प्रदेशने बिलकुल कर्म लागतां नथी ते “ श्री आचारांग सूत्रनी श्री सिलांगाचार्य कृत टी-काना लोकविजयाध्ययने प्रथमोद्देशके साख छे तिहांथी सविस्तरपणे जोबुं. ”

हवे सत् तथा असत् पक्ष कहे छे. ए छ द्रव्य ते स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, अने स्वभावपणे सत् एटले छता छे अने परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परभावपणे असत् एटले अछता छे तेनी रीत बताववाने अर्थे छए द्रव्यना द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहिये छैये.

धर्मास्तिकायनो मूलगुण चलण सहाय-

૨૨

આગમસાર.

પળો તે સ્વદ્રવ્ય, અધર્માસ્તિકાયનો મૂલગુણ સ્થિતિ સહાયપળો તે સ્વદ્રવ્ય, આકાશાસ્તિકાયનો મૂલ ગુણ અવગાહપળો તે સ્વદ્રવ્ય, કાલદ્રવ્યનો મૂલ ગુણ વર્તનાલક્ષણપળો તે સ્વદ્રવ્ય, તથા પુદ્ગલનો મૂલગુણ પુરણગલનપળો તે સ્વદ્રવ્ય અને જીવદ્રવ્યનો મૂલગુણ જ્ઞાનાદિક ચેનનાલક્ષણપળો તે સ્વદ્રવ્ય એ છદ્રવ્યનો સ્વદ્રવ્યપળો કહ્યો.

હવે સ્વક્ષેત્ર તે દ્રવ્યનો પ્રદેશપળો છે તે દેસ્વાડે છે. તિહાં એકધર્માસ્તિકાય, બીજો અધર્માસ્તિકાય. એ બે દ્રવ્યનો સ્વક્ષેત્ર અસંખ્ય પ્રદેશ છે અને આકાશદ્રવ્યનો સ્વક્ષેત્ર અનંત પ્રદેશ છે. કાલદ્રવ્યનો સ્વક્ષેત્ર સમય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યનો સ્વક્ષેત્ર એક પરમાણુ છે તે પરમાણુ

आगमसार.

२३

अनंता छे. जीवद्रव्यनो स्वक्षेत्र एक जीवना असंख्याता प्रदेश छे.

हवे स्वकाल ते छए द्रव्यमां अगुरुलघु-
नोज छे अने ए छ द्रव्यना पोतपोताना गुण
पर्याय ते सर्व द्रव्यनो स्वभाव जाणवो. एटले
धर्मास्तिकायमां पोतानाज द्रव्य क्षेत्र काल
भाव छे पण बीजा पांच द्रव्यना नथी. तथा
अधर्मास्तिकाय द्रव्य मध्ये पण स्वद्रव्यादिक
चार छे. पण बीजा पांच द्रव्यना नथी. काल-
द्रव्यमां कालना द्रव्यादिक चार छे बीजापांच
द्रव्यना नथी अने पुद्गलना द्रव्यादिक चार ते
पुद्गलमांज छे पण बीजा पांच द्रव्यना नथी
तथा जीव द्रव्यना स्वद्रव्यादिक चार ते जीवमां
छे पण बीजा पांच द्रव्यना नथी.

२४

आगमसार.

जे द्रव्य ते गुण पर्यायवंत, द्रव्यथी अभेद-
पर्याय होय ते द्रव्य कहियें तथा स्वधर्मने
आधारवंतपणो ते क्षेत्र कहियें अने उत्पाद
व्ययनीवर्तना ते काल कहियें तथा विशेष
गुण परिणति स्वभाव परिणति पर्याय प्रमुख
ते स्वभाव कहियें. ए रीते छ ए द्रव्य स्वगुणे
सत् छे अने पर गुणे असत् छे.

हवे वक्तव्य तथा अवक्तव्य पक्ष कहे छे.
ए छ द्रव्यमां अनंता गुणपर्याय ते वक्तव्य
एटले वचने कहेवा योग्य छे अने अनंता
गुणपर्याय ते अवक्तव्य एटले वचने कहा
जाय नहीं एवा छे. तिहां केवली भगवंते
समस्त भाव दीठा तेने अनंतमे भागे जे वक्तव्य
एटले कहेवा योग्य हता ते कहा वली तेनो

आगमसाग.

२५

अनंतमो भाग श्रीगणधरे सूत्रमां गुंथ्यो तेना असंख्यातमे भागे हमणां आगम रक्षां छे ए आठपक्ष कहा.

इहां १ भेद स्वभाव, २ अभेदस्वभाव ३ भव्यस्वभाव. ४ अभव्यस्वभाव. ५ परम-स्वभाव. ए पांच स्वभाव कहेवा. तेमां द्रव्यना सर्व धर्मने पोतपोताना स्वस्वकार्यने करवे करी भेद स्वभाव छे अने अवस्थानपणे अभेद स्वभाव छे. अणपलटण स्वभावे अभव्य स्वभाव छे. तथा पलटण स्वभावे भव्य स्वभाव छे अने द्रव्यना सर्व धर्म ते विशेष धर्मने अनुयायीज परिणमे ते माटे ते परम स्वभाव कहियें. ए सामान्य स्वभाव जाणवा.

हवे नित्य तथा अनित्य पक्षथी चौभंगी

૨૬

આગમસાર.

ઉપની તે કહે છે એક જેની આદિ નથી અને અંત પણ નથી તે અનાદિ અનંત પહેલો ભાંગો અને જેની આદિ નથી પણ અંત છે તે અનાદિ સાંત બીજો ભાંગો તથા જેની આદિ પણ છે અંત એટલે છે હેડો પણ છે તે સાદિ સાંત ત્રીજો ભાંગો વળી જેહને આદિ છે પણ અંત નથી તે સાદિ અનંત નામે ચોથો ભાંગો જાણવો.

હવે એ ચાર ભાંગા છ દ્રવ્યમાં ફલાવી દેસ્વાડે છે. જીવ દ્રવ્યમાં જ્ઞાનાદિક ગુણ તે અનાદિ અનંત છે નિત્ય છે, અને ભવ્ય જીવને કર્મ સાથે સંબંધ તથા સંસારીપણાની આદિ નથી પણ સિદ્ધ થાય તેવારે અંત આવ્યો તેથી એ અનાદિ સાંત ભાંગો છે, અને દેવતા તથા

आगमसार.

२७

नारकी प्रमुखना भव करवा ते सादि सांत भांगो छे अने जे जीव कर्म खपावी मोक्ष गया तेनी सिद्धपणे आदि छे अने पाछो संसारमां कोइ काले आववुं नथी माटे अंत नथी तेथी ए सादि अनंत भांगो छे. ए जीव द्रव्यमां चौभंगी कही. जीव द्रव्यना चार गुण अनादि अनंत छे. जीवने कर्म साथे संयोग ते अनादि सांत छे केमके केवारे पण कर्म छूटे छे.

हवे धर्मास्तिकायमां चार गुण तथा खंधपणो ते अनादि अनंत छे अने अनादि सांत भांगो नथी तथा १ देश २ प्रदेश ३ अगुरुलघु ए सादि सांत भांगो छे. तथा सिद्धना जीवमां धर्मास्तिकायना जे प्रदेश रह्या छे ते प्रदेश आश्रयीने सादि अनंत भांगो छे

૨૮

આગમસાર.

एवीज रीते अधर्मास्तिकायमां पण चौभंगी जाणवी अने आकाश द्रव्यमां गुण तथा खंध अनादि अनंत छे बीजो भांगो नथी अने १ देश २ प्रदेश तथा ३ अगुरुलघु सादि सांत छे तथा सिद्धना जीवनी साथे संबंध ते सादि अनंत छे.

पुद्गल द्रव्यमां गुण अनादि अनंत छे. जीव पुद्गलनो संबन्ध अभव्यने अनादि अनंत छे.* भव्य जीवने अनादि सांत छे पुद्गलना खंध सर्व सादि सांत छे जे खंध बांध्या ते स्थिति प्रमाणे रही खरे छे वली नवा बंधाय छे माटे सादि अनंत भांगो पुद्गलमां नथी.

* एसंततिपणे जाणजो—आ शब्दो जुनी प्रतमां छे.

આગમસાર.

૨૯

કાલદ્રવ્યમાં ગુણ ચાર અનાદિ અનંત છે, પર્યાયમાં અતીતકાલ અનાદિ સાંત છે અને વર્તમાનકાલ સાદિ સાંત છે; અનાગતકાલ સાદિ અનંત છે. એ કાલનું સ્વરૂપ તે સર્વ ઉપચારથી છે. એ રીતે કાલદ્રવ્યમાં ચૌભંગી કહી.

હવે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ તથા ભાવમાં ચૌ-ભંગી કહે છે. જીવ દ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્યથી જ્ઞાનાદિક ગુણ તે અનાદિ અનંત છે. સ્વક્ષેત્રે જીવના પ્રદેશ અસંખ્યાતા છે તે સાદિ સાંત છે તપ્તોદક ઉદ્ભવનાપણે ફરે છે તે માટે અથવા અવગાહના માટે સાદિ સાંત છે પણ છતીપણે તો અનાદિ અનંત છે. સ્વકાલ અગુરુ લઘુને ગુણે અનાદિ અનંત છે અને અગુરુ લઘુ ગુણનો ઉપજવો

૩૦

આગમસાર.

તથા વિગ્નશ્વો તે સાદિ સાંત છે. તથા સ્વભાવ (સર્વ ભાવ) ગુણ પર્યાય તે અનાદિ અનંત છે અને ભેદાન્તરે અગુરુલઘુ તે સાદિ સાંત છે.

ધર્માસ્તિકાયમાં સ્વદ્રવ્ય જે ચલણ સહાય ગુણ તે અનાદિ અનંત છે અને સ્વક્ષેત્ર અસંખ્યાત પ્રદેશ લોક પ્રમાણ છે તે અવગાહનાપણે સાદિ સાંત છે. સ્વકાલ તે અગુરુલઘુ ગુણે કરી અનાદિ અનંત છે અને ઉત્પાદ વ્યય તે સાદિ સાંત છે સ્વભાવ તે ચાર ગુણ અગુરુલઘુ અનાદિ અનંત છે ૧ સ્વંધ ૨ દેશ ૩ પ્રદેશ તે અવગાહનાને પ્રમાણે સાદિ સાંત છે એમ અધર્માસ્તિકાયના પણ દ્રવ્યાદિ ચાર ભાંગા જાણવા તથા આકાશાસ્તિકાયમાં સ્વદ્રવ્ય અવગાહનાદાન ગુણ તે અનાદિ અનંત છે અને દ્રવ્યક્ષેત્ર

आगमसार.

३१

लोकालोक प्रमाण अनंत प्रदेश ते अनादि अनंत छे. स्वकाल ते अगुरुलघुगुण सर्वथापणे अनादि अनंत छे अने उपजवे तथा विणसवे सादि सांत छे स्वभावते चार गुण तथा खंध अने अगुरुलघु ते अनादि अनंत छे तथा देश प्रदेश ते सादि सांत छे ते आकाश द्रव्यना बे भेद छे एक चौदराज लोकनो खंध लोकाकाश ते सादि सांत छे बीजो अलोकाशनों खंध ते सादि अनंत छे.*

* चउदराज लोकनो खंध लोकाकाश सादि सांत छे ते आवी रीते जे लोकना मध्यभागें आठ रुचक प्रदेशथी मांडीने सादि छे जिहां चउदराज लोकनो अंत आवे तिहां सांत तथा चउदराज लोकनो छेलो प्रदेश मूकीने पछे अलोकनी आदि

૩૨

આગમસાર.

કાલ દ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય જે નવા પુરાણવ-
ર્તના ગુણ તે અનાદિ અનંત છે સ્વક્ષેત્ર સમય
(કાલ) તે સાદિ સાંત છે કેમકે વર્તમાન
સમય એક છે તે માટે તથા સ્વકાલ તે અનાદિ
અનંત છે. સ્વભાવ તે ગુણ ચાર અને અગુરુલઘુ
અનાદિ અનંત છે. અતીત કાલ અનાદિ સાંત
છે અને વર્તમાનકાલ સાદિ સાંત છે અનાગત
કાલ સાદિ અનંત છે.

પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય તે દ્રવ્યપણે જે
પૂરણગલન ધર્મ તે અનાદિ અનન્ત છે અને
સ્વક્ષેત્ર પરમાણુ તે સાદિ સાંત છે. સ્વકાલ
સ્થિતિ અગુરુલઘુ ગુણ તે અનાદિ અનંત છે.

હેવી પણ અલોકનો અંત નથી માટે સાદિ અનંત
વહ્યું છે.

आगमसार.

३३

अगुरुलघुनो उपजवो विणसवो ते सादि सांत
 छे. स्वभावते गुण चार अनादि अनंत छे.
 वर्णादि पर्याय चार एटले वर्ण गंध रस स्पर्श
 ते सादि सांत छे. ए द्रव्यादि चारमां चौभंगी
 कही.

हवे छ द्रव्यना संबन्ध आश्री चौभंगी
 कहे छे, तिहां प्रथम आकाश द्रव्य छे
 तेमां अलोकाकाशमां कोइ द्रव्य नथी
 अने लोकाकाशमां छ द्रव्य छे, तिहां लोका-
 काश द्रव्य तथा बीजुं धर्मास्तिकाय द्रव्य अने
 त्रीजुं अधर्मास्तिकाय द्रव्य ते अनादि अनंत
 संबन्धी छे जे लोकाकाशना एकेक प्रदेशमां
 धर्म द्रव्य तथा अधर्म द्रव्यनो एकेक प्रदेश
 रणो छे ते पण किवारे त्रिछेडसे नहीं भाडे

२

૩૫

આગમસાર.

અનાદિ અનંત સંબંધી છે. આકાશ સ્વેત્ર લોક સર્વ અને જીવ દ્રવ્યનો અનાદિ અનંત સંબંધ છે, અને સંસારી જીવ કર્મ સહિત તથા લોકના પ્રદેશનો સાદિ સાંત સંબંધ છે. લોકાંત સિદ્ધ ક્ષેત્રના સિદ્ધ જીવોનો આકાશ પ્રદેશ સાથે સાદિ અનંત સંબંધ છે, લોકાકાશ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અનાદિ અનંત સંબંધ છે, આકાશ પ્રદેશની સાથે પુદ્ગલ પરમાણુનો સાદિ સાંત સંબંધ છે. એમ આકાશ દ્રવ્યનીપરે ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાયનો પણ સર્વ સંબંધ જાણવો. જીવ અને પુદ્ગલના સંબંધમાં અભવ્ય જીવને પુદ્ગલનો અનાદિ અનંત સંબંધ છે, કેમકે અભવ્ય જીવનાં કર્મ કિવારેં સ્વપશે નહીં માટે, અને ભવ્ય

આગમસાર.

૩૫

જીવને કર્મનું લાગવું અનાદિ કાલનું છે પણ તે કિવારેક હુટ્તે માટે ભવ્ય જીવને પુદ્ગલ સંબંધ અનાદિ સાંત છે. તથા નિશ્ચયનયેકરી છ દ્રવ્ય સ્વભાવ પરિણામ પરિણમ્યા છે તે પરિણામીપણો સદા શાશ્વતો છે તે માટે અનાદિ અનંત છે અને જીવ તથા પુદ્ગલ બેહુ દ્રવ્ય મલિ બંધ ભાવ પામે છે તે પર પરિણામીપણો છે તે પરપરિણામીપણો અભવ્ય જીવને અનાદિ અનંત છે અને ભવ્ય જીવને અનાદિ સાંત છે અને પુદ્ગલનો પરિણામી પણો તે સત્તાયે અનાદિ અનંત છે અને પુદ્ગલનો મિલવો વિછડવો તે સાદિ સાંત છે પટલે જીવ દ્રવ્ય પુદ્ગલ સાથે મિલ્યો સક્રિય છે અને પુદ્ગલ કર્મથી રહિત થાય તેવારે જીવ

૩૬

આગમસાર.

દ્રવ્ય અક્રિય છે અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય સદા સ-
ક્રિય છે.

હવે એક, અનેક-પક્ષથી નિશ્ચય જ્ઞાન
કહેવાને નય કહે છે, સર્વ દ્રવ્યમાં અનેક
સ્વભાવ છે, તે એક વચનથી કહ્યા જાય નહીં
માટે માંહોમાંહે નયે કરી સંક્ષેપપણે કહે છે,
તિહાં મૂલ નયના બે ભેદ છે, એક દ્રવ્યાર્થિક
બીજો પર્યાયાર્થિક, તેમાં ઉત્પાદ વ્યય પર્યાય
ગૌણપણે અને પ્રધાનપણે દ્રવ્યનો ગુણ સત્તાને
ગ્રહે તે દ્રવ્યાર્થિક નય કહિયે તેના દશ ભેદ
છે, સર્વ દ્રવ્ય નિત્ય છે, દ્રવ્યાર્થિક ૨ અગુરુ
લઘુ અને સ્વેત્રની અપેક્ષા ન કરે મૂલ ગુણને
પિંડપણે ગ્રહે તે એક દ્રવ્યાર્થિક ૩ જ્ઞાનાદિક
ગુણે સર્વ જીવ એક સરીખા છે માટે સર્વને

आगमसार.

३७

एक जीव कहे, स्वद्रव्यादिकने ग्रहे ते सत्
 द्रव्यार्थिक. जेम सत्लक्षणं द्रव्ययम् ४ द्रव्यमां
 कहेवा योग्य गुण अंगीकार करे ते वक्तव्य
 द्रव्यार्थिक ५ आत्माने अज्ञानी कहेवो ते
 अशुद्ध द्रव्यार्थिक ६ सर्व द्रव्य गुण पर्याय
 सहित छे एम कहेवुं ते अन्वय द्रव्यार्थिक ७
 सर्व जीव द्रव्यनी मूल सत्ता एक छे ते पर-
 मद्रव्यार्थिक नय ८ सर्व जीवना आठ प्रदेश
 निर्मल छे ते शुद्ध द्रव्यार्थिक नय ९ सर्व
 जीवना असंख्यात प्रदेश एक सरीखा छे ते
 सत्ता द्रव्यार्थिक नय, १० गुणगुणी द्रव्य ते
 परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक. जेम आत्मा ज्ञान-
 रूप छे. इत्यादिक ए द्रव्यार्थिक नयना दश
 भेद कया.

३८

आगमसार.

हवे पर्यायार्थिक नयना छ भेद कहे छे. जे पर्यायने ग्रहे ते पर्यायार्थिक नय कहिये, तेना छ भेद छे १ द्रव्य पर्याय ते जीवने भव्यपणुं कहेबुं, २ द्रव्य व्यंजन पर्याय ते द्रव्यनुं प्रदेशमान, ३ गुण पर्याय जे एक गुणथी अनेकता थाय जेम धर्माधर्मादिद्रव्य पोताना चलण सहकारादि गुणथी अनेक जीव तथा पुद्गलने सहाय करे, ४ गुण व्यंजन पर्याय जे एक गुणना घणा भेद छे ५ स्वभाव पर्याय ते अगुरुलघु पर्यायथी जाणवो. ए पांच पर्याय सर्व द्रव्यमां छे अने छट्टो विभाव पर्याय ते जीव पुद्गल ए बे द्रव्यमां छे. तिहां जीव जे चार गतिना नवा नवा भव करे ते जीवमां विभाव पर्याय तथा पुद्गलमां

आगमसंसार.

३६

संधपणुं ते विभाव पर्याय जाणवो.

हवे पर्यायना बीजा छ भेद कहे छे ?
 अनादि नित्य पर्याय ते जेम पुद्गल द्रव्यनो
 मेरु प्रमुख, २ सादि नित्य पर्याय ते जीव
 द्रव्यनुं सिद्धपणुं, ३ अनित्य पर्याय ते समय
 समयमां द्रव्य उपजे विणशे छे, ४ अशुद्ध
 अनित्य पर्याय ते जन्म मरण थाय छे तेणे
 करी कहेवुं, ५ उपाधि पर्याय ते कर्म संबंध,
 ६ शुद्ध पर्याय जे मूल पर्याय सर्व द्रव्यना
 एक सरीखा छे ए पर्यायार्थिकनुं स्वरूप कहुं.

हवे सात नय कहे छे ? नैगम, २
 संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजु सूत्र, ५ शब्द,
 ६ समभिरूढ, ७ एवं भूत-ए सात नयना
 नाम जाणवां, तेमां पहेलो नैगम नय कहे छे.

४०

आगमसार.

नथी एक गमो ते नैगम कहियें. गुणनो एक अंश उपन्यो होय तो नैगमनय कहियें. दृष्टान्त जेम कोइक मनुष्यने पाली लाववानो मन थयो, ते वारें जंगलमां लाकडुं लेवा चाल्यो, रस्तामां कोइक मनुष्य मल्यो तेणें पूछ्युं तुं क्यां जाय छे, तेवारें तेणें कह्युं जे पाली लेवा जाउं छुं. ते पाली तो हजी घडी नथी पण मनमां चिंतवी ते थइ एम गण्युं तेम नैगम नय, सर्व जीवने सिद्ध समान कहे, केमके सर्व जीवना आठ रुचक प्रदेश निर्मल सिद्ध रूप छे तेथी एक अंशे सिद्ध छे ते माटे सिद्ध समान सर्व जीव कह्या. ते नैगम नयना त्रण भेद छे ? अतीत नैगम २ अनागत नैगम ३ वर्तमान नैगम, ए नैगम नय कह्यो.

आगमसार.

४१

हवे संग्रह नय कहे छे. सत्ताग्रहे ते संग्रह. जे एक नाम लीधार्थी सर्व गुण पर्याय परिवार सहित आवे ते संग्रह नय जाणवो. तेनो दृष्टान्त—जेम कोइक मनुष्ये प्रभातें दातण करवाने अर्थे पोताना घरना बारणे बेशीने चाकर पुरुषने कह्युं जे दातण लइ आवो, ते वारें ते चाकर मनुष्य पाणीनो लोटो तथा रुमाल अने दातण एम सर्व चीज लइ आव्यो. हवे शेटें तो एक दातण नाम लइने मंगाव्युं हतुं पण सर्वनो संग्रह करी चाकर लइ आव्यो तेमज द्रव्य एवुं नाम कह्युं तो द्रव्यना गुण पर्याय सर्व आव्या. ए संग्रह नयना बे भेद छे. एक जे द्रव्यपणो सामान्यपणे बोलतां जीव तथा अजीव द्रव्यनो भेद पड्यो नही ते

૪૨

આગમસાર.

પેહેલો સામાન્ય સંગ્રહ, તથા બીજો વિશેષતાને અંગીકાર કરે છે, જે જીવ દ્રવ્ય એમ કહ્યું તો અજીવ સર્વ ટલ્યા તે વિશેષ સંગ્રહ.

હવે વ્યવહાર નય કહે છે. જે બાહ્યસ્વરૂપ દેખીને ભેદની વેંહેચણ કરે અને જે બાહ્ય દેખતા ગુણનેજ માને પણ અંતરંગ સત્તા ન માને એટલે એ નયમાં આચાર ક્રિયા મુખ્ય છે. અંતરંગ પરિણામનો ઉપયોગ નથી કેમકે નૈગમ તથા સંગ્રહ નય તે જ્ઞાન રૂપ ધ્યાનના પરિણામ વિના અંશ તથા સત્તા ગ્રાહી છે, તેમ ઇહાં કરણી મુખ્ય છે તે વ્યવહારનયે (પળે) જીવની વ્યવસ્થા અનેક પ્રકારે છે. તિહાં નૈગમ તથા સંગ્રહ નયે કરી સર્વ જીવ સત્તાર્યે એક રૂપ છે પણ વ્યવહાર નયથી જીવના બે

आंगमसार.

४३

भेद छे. एक सिद्ध, बीजा संसारी. ते वली संसारी जीवना बे भेद छे. एक अयोगी चौदमा गुणठाणावाला तथा बीजा सयोगी ते सयोगीना बे भेद एक केवली बीजो छद्मस्थ, छद्मस्थना बे भेद. एक क्षीण मोही बारमा गुणठाणे वर्त्तता मोहनीय कर्म खपाव्युं ते, बीजो उपशान्तमोहते उपशान्त मोहना वली बे भेद, एक अकषायी इग्यारमा गुणठाणाना जीव; बीजा सकषायीना बे भेद छे, एक सूक्ष्म कषायी दशमा गुणठाणाना जीव बीजा बादर कषायी. ते बादर कषायीना वली बे भेद छे. एक श्रेणि प्रतिपन्न, बीजो श्रेणि रहित ते श्रेणी रहितना बे भेद. एक अप्रमादी बीजो प्रमादी ते प्रमादीना बे भेद

८४

आगमसारं.

एक विरति परिणामि बीजो देश विरति, देश विरतिना बे भेद, एक विरति परिणामि अमे बीजा अविरति परिणामि, अविरतीना बे भेद एक अविरति समकीति बीजा अविरति मिथ्यात्वी ते मिथ्यात्वीना बे भेद, एक भव्य बीजा अभव्य, ते भव्यना बे भेद एक ग्रंथिभेदी बीजा ग्रंथी अभेदी (अभेद ग्रन्थि) एवी रीते जे जीव जेवो देखाय तेने तेवो माने ए व्यवहार नय छे, एमज पुद्गलना भेद करवाते कहे छे. पुद्गल द्रव्यना बे भेद छे. एक परमाणु बीजो खंध, खंधना बे भेद एक जीवने लाग्या ते जीव सहित, बीजा जीव रहित ते घडो प्रमुख अजीवनो खंध, हवे जीव सहित खंधना बे भेद छे एक सूक्ष्म खंध बीजो बादर खंध.

आगमसारः

४५

इहां वर्गणानो विचार लखीये छैयें,
 तिहां पुद्गलनी वर्गणा आठ छे १ औदारिक
 वर्गणा २ वैक्रिय वर्गणा ३ आहारक वर्गणा
 ४ तैजस वर्गणा ५ भाषा वर्गणा ६ श्वासो-
 च्छ्वास वर्गणा ७ मनो वर्गणा ८ कर्मण
 वर्गणा—ए आठ वर्गणानां नाम कखां. बे
 परमाणु भेला थाय त्यारे द्वयणुकखंध कहेवाय.
 त्रग परमाणु भेला थाय तेवारे त्रयणुकखंध
 थाय. एम संख्याता परमाणु मिले संख्याता-
 णुकखंध थाय, तेमज असंख्याते असंख्याता-
 णुकखंध थाय, तथा अनंता परमाणु मिले
 अनंताणुकखंध थाय. ए खंध ते सर्व जीवने
 अग्रहण योग्य छे, अने जेवारें अभव्यथी
 अनंतगुण अधिक परमाणु भेला थाय तेवारे

४६:

आगमसार.

औदारिक शरीरने लेवा योग्य वर्गणा थाय.

एमज औदारिकथी अनंतगुणा अधिक वर्गणामां दल भेलां थाय तेवारे वैक्रिय वर्गणा थाय, वली वैक्रिय थकी अनंतगुणा परमाणु मिले तेवारें आहारक वर्गणा थाय. एम सर्व वर्गणाना एकेकथी अनंतगुणा अधिक परमाणु मिले तेवारें ते वर्गणा थाय. एटले पहेलीथी बीजी वर्गणा, बीजीथी त्रीजी एम सातमी मनोवर्गणाथी आठमी कार्मण वर्गणामां अनंतगुण परमाणु अधिक छे. इहां १ औदारिक, २ वैक्रिय, ३ आहारक, ४ तैजस, ए चार वर्गणा बादर छे तेमां पांचवर्ण-त्रे गन्ध-पांच रस, आठ स्पर्श ए वीस गुण छे, तथा १ भाषा २ श्वासोच्छ्वास ३ मन ४

आगमसार.

४७

कार्मण ए चार वर्गणा सूक्ष्म छे एमां पांचवर्ण
बे गन्ध, पांचरस—चार स्पर्श—ए सोल गुण
छे, अने एक परमाणुमां एक वर्ण—एक गंध—
एक रस—बे स्पर्श ए पांच गुण छे, एम पुद्गल
खंधना अनेक भेद छे.

ए व्यवहार नयना छ भेद छे. १ शुद्ध
व्यवहार ते आगला गुणठाणानुं छोडवुं अने
उपरना गुणठाणानुं ग्रहण करवुं अथवा ज्ञान—
दर्शन—चारित्र गुण ते निश्चयनय एकरूप छे.
पण ते शिष्यने समजाववाने जूदा जूदा भेद
कहेवा ते शुद्ध व्यवहार छे. २ जीवमां अज्ञान
राग द्वेष लाग्या छे ते अशुद्धपणुं छे माटे
अशुद्ध व्यवहार. ३ जे पुण्यनी क्रिया करवी
ते शुभ व्यवहार. ४ जेथकी जीव पापरूप

૪૮

આગમસાર.

અશુભ કર્મ કરે તે ૫ અશુભ વ્યવહાર. ધન-
 ઘર-કુટુંબ પ્રત્યક્ષ સર્વ આપણાથી જુદા જુદા
 છે પણ જીવે અજ્ઞાનપણે આપણા કરી જાણ્યા
 છે તે ઉપચરિત વ્યવહાર. ૬ શરીરાદિક પર-
 વસ્તુ યદ્યપિ જીવથી જુદી છે તોપણ પરિણા-
 મિકભાવ લોલીપણે એકઠા મિલી રહ્યા છે તેને
 જીવ આપણા કરી જાણે છે તે અનુપચરિત
 વ્યવહાર જાણવો. ૭ વ્યવહાર નય કહ્યો.

હવે ઋજુ સૂત્ર નયનો વિચાર કહે છે.
 જે અતીત કાલ અને અનાગત કાલની અપેક્ષા
 ન કરે પણ વર્તમાન કાલે જે વસ્તુ જેવા ગુણ
 પરિણામે વર્તે તે વસ્તુને તેવેજ પરિણામે માને
 માટે ૭ નય પરિણામગ્રાહી છે. જેમ કોઈક

आगमम्भार.

४९

जीव गृहस्थ छै पण अंतरंग साधुसमान परिणाम छै तो ते जीवने साधु कहे अने कोइक जीव साधुने वेषे छै पण मनना परिणाम विषयाभिलाष सहित छै तो ते जीव अत्रतीज छै एम ऋजु सूत्रनुं मानवुं छै. ते ऋजु सूत्रना वे भेद छै एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र ते एम कहे जे सदाकाल सर्व वस्तुमां एक वर्त्तमान समय वर्त्ते छै एटले जे जीव गया काले अज्ञानी हतो अने अनागत काले अज्ञानी भावे अज्ञानी थशे एम बेहु कालनी अपेक्षा न करे पण एक वर्त्तमान समये जे जेवो तेने तेवो कहे ते सूक्ष्म ऋजुसूत्र कहिये अने महोटा बाह्यपरिणाम ग्रहे ते स्थूल ऋजु सूत्र नय जाणवो एटले रुजु सूत्र नय कह्यो.

૫૦

આગમસાર.

હે શબ્દનય કહે છે. જે વસ્તુ ગુણવંત અથવા નિર્ગુણ તે વસ્તુને નામ કહી બોલાવિયેં જે ભાષા વર્ણનાથી શબ્દ પળેં વચન ગોચર થાય તે શબ્દનય જે કારણે અરૂપી દ્રવ્ય વચનથી કહેવા તે શબ્દનય કહિયેં. ઇહાં જે શબ્દનો અર્થ હોય તે પળો જે વસ્તુમાં વસ્તુપળે પામિયેં તે વારે તે વસ્તુ શબ્દનય કહિયેં જેમ ઘટની ચેષ્ટાને કરતો હોય તે ઘટ. એ શબ્દનયમાં વ્યાકરણથી નીપના અને વીજા પળે સર્વ શબ્દ લીધા તે શબ્દનયના ચાર ભેદ છે ૧ નામ ૨ સ્થાપના ૩ દ્રવ્ય ૪ અને ભાવ ચાર નિક્ષેપાના પળે એહિજ નામ છે.

૧ પહેલો નામ નિક્ષેપો તે આકાર તથા

आगमसारः

५१

गुणरहित वस्तुने नाम करी घोलाववो. जे एक लाकडीनो कटको लेइने कोइके तेहने जीव एवुं नाम कह्युं ते नाम जीव जाणवुं जेम काली दोरीने सापनी बुद्धियें करी घावै हणे तेहने सापनी हिंसा लागे ए नाम सर्प थयुं. एवीज रीते नाम तप अथवा नाम सिद्ध जेम वड प्रमुखने सिद्धवड एम कही बोलावे छै ते नाम निक्षेपो कहियें ए सूत्र सार्वे छै.

२ स्थापना निक्षेपो कहे छै. जे कोइक वस्तुमां कोइक वस्तुनो आकार देखाने तेहने ते वस्तु कहे जेम चित्रामण अथवा काष्ठ पाषाणनी मूर्ति तेने घोडा-हाथीनो आकार छै तो ते घोडा-हाथी कहेवाय ते स्थापना जाणववी. ए स्थापना निक्षेपो नाम निक्षेपें सहित

६२

आगमसार.

होय जेम स्थापना सिद्ध जिनप्रतिमा प्रमुख ते सद्भाव स्थापना पण होय अने असद्भाव स्थापना पण होय. अकृत्रिम जिन प्रतिमा ते नन्दीश्वरद्वीप प्रमुखने विषे अने जेह इहांनी जिन प्रतिमा ते कृत्रिम ते सर्व स्थापना जाणवी. जेम चित्रामनी स्त्री जिहां मांडी होय तिहां साधु रहे नही. कारणके स्थापना स्त्री छे ते स्त्री तुल्य जाणवी. तेमज जिन प्रतिमा जिन समान जाणवी. इहां कोइक अज्ञानी जीव कहे छे जे, स्थापनामां ज्ञानादि गुण नथीतेथी स्थापनाने मानवी पूजवी नही तेने उत्तर कहे छे के स्थापना रूप स्त्रीमां स्त्रीपणाना गुण नथी तो पण ते विकारनुं कारण थाय छे. तेमज जिनप्रतिमा पण ध्याननुं कारण छे अने

आंगमसारं.

५३

जे एम पुछे के हिंसा थाय छे अने भगवंते तो दयाने धर्म कह्यो छे तेहने एम कहेवुं जे परदेशी राजा केसी गुरुने वांदवाने अथें बीजे दीवसें मोहोटा आडंरथी आव्यो ते वंदनामां हिंसा थइ पण लाभ कारण गणतां त्रोटो न थयो. बीजो मल्लिनाथजीयें छ मित्र प्रतिबोधवाने पुतलीनो दृष्टान्त कह्यो, ते हिंसा तो घणी थइ पण ते लाभना कारणमां गणी छे एम भाव शुद्ध होय तिहां हिंसा लागती नथी, अथवा कोइक एम कहे छे जे अमे आपणे स्थानके बेठा नमुथुणं कहिसुं अमने लाभ थासे ते खरो पण भगवती सूत्रमां भगवानने वंदनाने अधिकारे तो तिहां जइ वंदना करवातुं फल मोडुं कहुं छे तथा निक्षेपाने अधि-

૬૪.

આગમસાર.

કારેં કહ્યું જે ભાવ નિક્ષેપો એકલો થાય નહી
 પળ સ્થાપના તથા દ્રવ્ય એ ત્રણ મિલ્યા ભાવ
 નિક્ષેપો થાય માટે સ્થાપના અવશ્ય માનવી.
 હવે જે સ્થાપના ન માને તેને કહિયેં જે ચિત્રા-
 મની મૂર્તિ તે હિંસાના પરિણામથી ફાડે તેહને
 હિંસા લાગે છે તેમજ જિનવરના ધ્યાને જિન-
 પ્રતિમા પૂજતાં લાભ થાય છે એમ યુક્તિ કરતાં
 તથા આગમની પાઠે પળ જિન પ્રતિમાને જિન
 સમાન માને તે આરાધક અને જે જિન પ્રતિ-
 માને ન માને તેણે સ્થાપના નિક્ષેપો ઉથાપ્યો
 અને સ્થાપના ઉથાપી તો દ્રવ્ય તથા ભાવ નિ-
 ક્ષેપો સ્થાપના વિના થાય નહી માટે દ્રવ્ય તથા
 ભાવ પળ ઉથાપ્યો એમ ત્રણ નિક્ષેપો ઉથાપ્યા
 તે વારેં સિદ્ધાન્ત ઉથાપ્યાંજ માટે જે જિનપ્ર-

आगमम्भार.

६५

तिमाने नही माने ते विराधक जाणवो. तथा कोइ पूछे जे प्रतिमानो पूजा तो पहेला आस्रव मध्ये लखी छे तेने कहीये जे तुम्हे मृषावाद बोलो छो, इहां प्रश्न व्याकरण सूत्रमां पाठ इम छे नही तिहां पाठ छे ते लिखीये छे ॥ अविजाणओ परिजाणओ विसयहेउ इमेहिं कारणेहिं किं ते करीसण पोरकरणी वा विव-ष्पणीकूवसरतलाग चितिवेति खाति आराम विहार, थूभ पागार, दार गोपूर अट्टालगच-रीय सेतुसंकमपासायविकप्पभवणघरसरणिले-णआवणचेइयदेवकुलचित्तसभाएवाआयतणव-सई भूमिघरमंडवाणंरूएहींसंति=इहां पांच था-घरना पांच आलावा छे तेहने छेडे कोहा, ज्ञाणा, माया, लोभा, हिंसा, रती इत्यादि

५६

आगमसार.

पाठ छे. ते जे जीव इंद्रिना सवादने माटे
 चेईअ कहेतां प्रतिमादिक करे ते आश्रव खाते
 ए पाठ छे पण पूजानो पाठ नथी ते मृषाष्ये
 (शा माटे) बोलो छो, तथा प्रश्न व्याकरण-
 सूत्रे बीजे संवरद्वारे जे आलावो छे ते लिखीये
 छे. स्वगयवत्ति आयरीय उवज्जाय सेह
 साहंमीए तवसि सिस बुद्ध कुल गण संघ
 चेईयठे निज्झरठी वैयावच्चं अणस्सीओदसवि-
 हंबहुविहंकरेई एआलावे आचारज प्रमुखचेईय
 कहेतां जिनप्रतिमानो वैयावच्च करे निज्जराना
 अर्थी अणस्सीओ कहेतां जस कीर्तिनी वांछा
 रहितथको वैयावच्च दश प्रकार तथा अनेक
 प्रकारनो करे, इहां चेईय कहेतां प्रतिमा छे तो
 खोटी कलपना स्यामाटे करो छो ? तथा बीजे

आगमसार.

५७

प्रश्ने पूछ्यो जे अहिंसानां ६० नाम कहां छे,
 अभओसवस्सविअनाघाओचुरकाय वित्तीपूया
 विमलप्पभा निम्मलकरीत्ति एव माइणीनिय-
 गुणनिम्मियाइं पज्जयनामाणिहुंतिअहिंसाए ॥
 तिहां प्रतिमा तथा पूजानो नाम नथी तेहनो
 उत्तर तिहां अहिंसानो नाम जाणो तेहनो अर्थ
 देवपूजा छे पूजा एहवो दयानो नाम छे तो
 अजाणयोइमस्ये प्ररुपणा करो छो ? बीजुं पू-
 जातो श्रीअरिहंत प्रतिमानी ते तो विनय तथा
 वेयावच्च ते अम्भितर तपना भेद छे. ते तप
 मोक्षनो मार्ग छे. श्रीउत्तराध्ययन सूत्रे २८ मे
 अध्ययने तपने मोक्षनां च्यार कारण कहां ते
 मध्ये गण्यो छे. तथा तो पस्ये पुछ्यो जे बो-
 ल्छनी खन्नर न हने ते विचारी बोलीय. तथा

५८

आगमसार.

श्रावके कोणे देहरां कराव्यां ? तथा प्रतिष्ठा
 पूजा ? तेहनो उत्तर श्रीसमवायांगसूत्रे तथा
 नंदीसूत्रे सर्व आगमनो नूंध छे तेमध्ये ए पाठ
 छे तिहां उपासकदशानो नोंध छे ते आलावो
 छे ते लखीए छे. सेकिते उवासगदसाओ उवा-
 सगदसामूणं समणोवासगाणं नगराईउज्झाणाई
 चेइआई वणसंडाई समोसरणाई रायाणोअ-
 म्मापियरो धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोइ
 आ पारलोईया इट्ठिविसेसा भोगापरिआड
 सुअपरिगगहीआ तवोवहाणाइसीअव्वयगुणवेर-
 मणपच्चरुखाणपोसहोववासपडिवज्झणापडिमा-
 ओ उवसग्गसंलिहणाओ भत्तपच्चरकाणइयाउ-
 वगमणं देवलोगगमणं सुकुलपच्चायापुणबोहि-
 लाभो अंतकिरीयाआघरिज्झंति ए पाठ छे.

आगमनार.

५९

इहां चेइयाइशब्द देहरा तथा जिन प्रतिमा जाणज्यो. इहां चेइय एहनो अर्थ बीजो थाये नही, जे वननो अर्थ करे तेतो उद्यानवनखंडनो पाठ जूदो छे. कोइ साधुनो अर्थ करे ते धम्मायरीया ए पाठ जूदो छे. ज्ञाननो अर्थ करे ते सुयए पाठ जुदो छे. तेमाटे चेइय शब्दे जिनप्रतिमानो अर्थ छे तथा तुम्हे पुछो जे द्वारकां राजग्रहमें देहरा तथा प्रतिमानो पाठ किहां छे ? तेहनो उत्तर नंदीसूत्रे अणुत्तरो-ववाइ तथा अंतगडना नोंधनो पाठ जोज्यो. तथा तुम्हे कहेस्यो इतला बोल उपासकदशा-प्रमुखे दीसता नथी तेहनो उत्तर जे नंदी तथा समत्रायांगमे जे पाठ तेहनो कोण उत्थापी शके ते जोज्यो. तथा पुछ्छुं जे किणे श्रावके

६०

आगमम्भार.

प्रतिमा पुंजी छे ? तेहनो उत्तर घणे श्रावके
 प्रतिमा पुंजी छे. ते पाठ श्रीभगवतीसूत्रे तुंगीया
 नगरीना श्रावको वरणव्या. तिहां अभिगय-
 जीवाजीवा इत्यादिक पाठ घणा छे. तिहां
 एहवो पाठ छे. असहिङ्गदेवासुरनागसुवन्नजर-
 कररकसकिन्नरकिंपुरिसगरुलगंधवं महोरगादी-
 एहिं देव गणेहिं निग्गंथाओपावयणाओ
 अणतिकम्मणिज्झा निग्गंथे पावयणेनिस्संकीया
 निक्कंखीया लद्धट्टा गहीयट्टा इत्यादि जे श्रावक
 कोई जातिना देवतानो सहाज वांछता नथी
 तो कोई बीजा देवतानी पूजा किम करे ?
 एहवा श्रावक जे देवने देव बुद्धि मानता हवे
 तेहनेज पूजे ते श्रावक, थिवर आव्या तेवारे
 एकवार सर्व एकठा मिल्यां एहवो विचार

आगमसार.

६१

कह्यो जे एहवानिग्रंथनो नाम सांभल्यानो
 पिण महा लाभ छे तो तेहने वांदवा जातां
 सेवा करतां तो महानिज्जरा महापर्यवसान
 कहेतां मोक्ष थयो इम विचारी पोते पोताने
 घरे गया पत्नी सूत्रे पाठ छे. ण्हायाकयबलि-
 कम्मा कयकोउयमंगलपायछित्ता शुद्धाप्पावे-
 साइपवरपरिहीआ अप्पमहग्घाभरणांकीय-
 शरीरा सयाओ गिहाओ पडिनिरकमति तिहां
 नाह्या ते अंगोल कीधा, कयबलिकम्माते देव
 पूजा कीधी; कयकोउयमंगल ते तिलकादिक
 कर्या पत्नी वस्त्र पेहरीने आभरणअलंकार
 षहेर्या, घरथी निकल्या ए रीते सिद्धार्थ
 राजा तथा रुखभदत्त, सुदरशन शेट इम सुभद्द
 ऋत्र श्रावकसंखपुष्कली श्रावक कार्तिक शेट

६२

आगमसार.

वांदवा गया छे तेवारे कयबलिम्मा तक्षा पछा घरे आवी साहमीवछल करीने दीक्षा लेवा निकल्या तेवारे न्हाया कयबलिकम्मा ए पाठ छे, इत्यादिक श्रावक अन्य देवनी पूजा न करे गोत्रज न पूजे, अरिहंत देवनेज पूजे, तथा कोइ कहेस्ये कयबलिकम्मा पाठ कठीयारा प्रमुख अनेक थानके छे तेषां स्याना छे ? पोतै जेहने देवबुद्धे याने ते तेहने पुंजे तथा देवदत्त बालके कीम पुंजा करी हशे तेतो बालकने मावीत्रे पुंजा करावी तो कां न करे ? आज पण बालक पुंजा करता दीसे छे तो कयबलीकम्मा ए पाठनो बीजो अर्थ शाने करो छो ? तथा दीक्षा महोच्छव घणा दीसे छे पण तिहां देहरा प्रतिमानो पाठ नथी.

आगमसार.

६३

तेहनो उत्तर जे दीक्षाने उतावला थया तेवा साधुने बहोराववा ग्या नथी तो देहरां कराववा तो घंरे स्थाने रह ? अने पहेलां देहरां प्रतिमा छे तेतो नंदीसूत्रे आगमनाधनो पाठ जोसो तो सर्व समो पडशे. तथा तुम्हे पुछयुं जे तीर्थकरग्रहस्थपणे छतां साधु साध्वी श्रावक श्राविकाए बांधा नथी तेनो उत्तर घणाए बांधा छे. ते पाठ ज्ञानासूत्रमां छे तथा तुमे लख्यां जे प्रतिष्ठा एकेन्द्रदल छे तेहवो वचन संसारनो जेहने थय न हुवे ते बोले ? जे कारणे श्रीभगवतीजी ता जिणपडिमा कही बोलावी छे. देहराने सिद्धायतन कही बोलाव्यो सो तुमे कठोर वचन स्थाने बोलो छो ? तथा तुम्हे दिसी वंदना करो छो ते दीसी तो अजीव

६४

आगमसार.

छे तो कीम वांदो छो ? तिहां तुम्हे कहेस्यो जे आम्हारा मनमें तो सिद्ध छे तो जिनपडिमा वांदतां पिण अमारा मनगां सिद्ध छे. तथा सूत्रमध्ये गुरुनी पाटनी आशातना टालवी कही छे, ते पाट अजीव छे. तेषीण सर्व गुरुनो बहुमान छे, प्रतिमानें बहुमाने सिद्धनो बहुमान छे तथा सुधर्मासभामांहि जिननी दाढा छे ते वंदनीक पूजनीक छे. ततो अजीव स्कंध छे तथा तुमे लख्यो जे परदेशा राजाए प्रतिमा कां न करी ? ते परदेशी श्रावक थया पछी केटलोक जीव्या छे ते तथा सर्व श्रावक एकज करणी करे ए स्यो नियम छे ? तथा परदेशीए तथा आणंद श्रावके कोइक साधुने पडिलाभ्या नथी ते मादे तुम्हे साधुनी वीहराव्यामे दोष

आंगमसार.

६६

मानस्यो ? ए विचारी ज्यो ज्यो, तथा लख्युं
 छे जे सूरीआभे जे प्रतिमा पूजी ते राजधा-
 नीना मंगलीक माटे पूजा करी तेतो खोटुं
 बोलो छो, ए पाठ सूत्रमें नथी. सूत्रमें तो
 एहवो पाठ छे “हीयाए सुहाए खेमाए निस्से-
 साए आणुगाभीयत्ताए भविस्सइ निश्रेयस
 कहेता मोक्षभणी ए अर्थ छे, तथा पच्छा शब्दे
 जे इहलोकनो अर्थ छे इंम कहे छे ते मूढ छे,
 दर्दुर देवताने अधिकारे पच्छा शब्दे आवता
 भवनो अर्थ छे. तथा आचारांगसूत्रे जस्सपू-
 ष्ठियिनो तस्सपच्छायिनो इहां पूर्वे शब्दे पूंठलो
 भव पछा शब्दे आवतो भव लोधो छे. तथा
 ए भवे समकितनो लाभ ते घणो छे तथा
 तीर्थकर वांछाना फलनो पाठ उववाइमध्ये

२

६६

आगमसार.

तथा पंचमहाव्रत पाल्यानां पाठ आचारांग
 मध्ये तिहां पण हियाए इत्यादिक पाठ छे ते
 बे ठेकाणे लाभ मानो छो तो जिनप्रतिमा
 ठामे ना स्याने कहो छो ? अने किहां जिन-
 प्रतिमा पूजानो पाप कह्यो नथी अने होय तो
 देखाडो. तुंमे लिख्युं जे भगवंते हिंसानी ना
 कही छे तेतो अमे किहां कहुछुं जे हिंसा क-
 रवी, पण भगवंते किसे सूत्रे प्रतिमा पूजानी
 ना कही नथी. प्रतिमानी ?७ प्रकारनी पूजा
 सूत्रे कही छे. तथा तुंमे प्रतिमानी पूजा हिंसामें
 गणो छो ते इस नथी. प्रतिमानी पूजा तो
 विनय तथा वैयावच्च धर्ममां छे. तथा पूजा
 हिंसामे गणी तो ठाणांगे नदीमें पडती सा-
 ध्वीने साधु काढे तेमां हिंसा गणी नहीं, तथा

आगमसार.

६७

आचारांगसूत्रे बीजा साधु अजाणे पण शर्करानी भूले लूण बीहरीने पळे जाणे जे लूण बीहराव्यो ते जाणी ते पोते खाये ते पोते पीये. तथा बीजा साधु संभोगीने आपे ते खाये पीए तथा विषमवाटे वेलने रूखने लताने गूळाने अवलंबी उत्तरे जे पाठ आचारांगसूत्रे छे. तथा भगवती सूत्रमे साधुना हरस काढे तेहने क्रियाकर्म लागे नहीं. तथा बलिनाथजी पूतलीमे कवल मूंक्या तेमाटे धर्म माटे हिंसा करी तथा सुबुद्धि मंत्रिए पाणी पलटाव्यो ते धर्म माटे करी पिण मंदबुद्धी न कहा छे भगवतीसूत्रे २५ मे शतके साधु शासन माटे तेजोलेश्या मुके तेहने आराधक कह्यो, तथा जंबूद्वीपपन्नतीए निर्वाण

६८

आगमसार.

महोच्छ्रव कर्यो छे. थूभकर्यातेजिणभत्तिए धम्म-
 त्तिए पाठ छे. इम केटला पाठ लीखीए ?
 अनेक पाठ छे ॥ तथा नंदी सूत्रे जे आगम
 कह्यो ते उत्थापीने ३२ मानो छो ते केनी
 आज्ञा छे ? तथा आवश्यक सूत्रपडिकमणा
 विना साधुपणो श्रावकपणो हुवेज नही ते
 तुम्हे आवश्यक सूत्रपडिकमणो मानता नथी
 तो श्रावकपणो ने साधुपणो केम धरावो छो?
 श्रीभगवतीसूत्रे साधु साध्वी श्रावक श्राविका
 पंचमआराना छेहडा पर्यंत कहा छे ते तुमारी
 श्रद्धामें हिवणां साधु साध्वी कोण छे ? तथा
 सूत्रे आचारज उपाध्याय कुलगणनीनिश्राये
 विचरे ते आराधक ते तमे कोनी निश्राये
 विचरो छो ? ते लिखज्यो, तथा श्रीभमवती-

आगमसार.

६९

सूत्रे गाथा छे ॥ पढमोगीयत्थविहारो बीयो-
गीयत्थनिसीओभणिओ । इत्तोतइयविहारो
नाणुन्नाओजिणवरेहिं ॥ १ ॥ एहनो अर्थ
गीतार्थ होय ते पोते विहार करे अथवा गीता-
र्थनी निश्राये विहार करवो एथी तिजा विहा-
रनी अरिहंते आज्ञा दीधी नथी ते माटे तुमे
किस्या गीतार्थनी निश्राये विहार करो छो ?
तथा योग उपायानवहीने सिद्धांत भणे तेपण
श्रावक आचारांगादिक सूत्र भणे नही ते
निशीथमां कह्यो छे । जे भिक्खुअन्नत्थीयं वा
गारत्थियंवा वायणं वायज्जत्तं साइज्जति तस्स-
चोमासीयपरिहारठाणं जे ग्रहस्थने सूत्र बंचावे
अथवा वांचताने अनुमोदे तेहने चारमासनो
पाल्यो चारित्र जावे तथा प्रश्न व्याकरणसूत्रे

७०

आगमसार.

अहकैरिसीयंपुणसवन्नुभासियवं जत्थदधेहिं-
गुणेहिंपज्जवेहिं कम्मेहिं बहुविहेहिं आगमेहिं
नामरकाय निवाय उवसग्ग तद्धिअ समास
संधिपद जोग उणादि कीरीयावीहीणसरधाउ-
सर विभत्ति वन्न जुत्तं भासियवं तथा अनुयो-
गद्वारे ७ नय ४ निक्षेपाकाल तिन, लिंग
तीन, जाण्या विना उपदेश देवा ते मारग
नथी इत्यादिक अनेक बोल छे. ते गीतार्थनी
सेवनाथी पामोए इतिभद्रं ॥ जे केइ श्रीजिन-
प्रतिमानी पूजा मध्ये फूल पूजानी शंका करे
तेहने कहीये जे श्रीरायपसेणीसूत्रे १७ भेद
पूजाना पाठ छे. पुष्फारुहणं १ मालारुहणं २
तहवन्नयारुहणं ३ तथा पुष्फपगिह ४ पुष्फप-
गरं ५ एतली पूजा फूलनी छे तेमाटे पूजा

आगमसार.

७१

फूलनी ते प्रमाण छे. तथा श्रीभगवतीसूत्रे पण सूरीआभनी पेरे पूजानी भलामणना पाठ अनेक छे. तथा ज्ञातासूत्रे द्रौपदीने अधिकारे १७ प्रकारी पूजाना पाठ छे. समवायांगसूत्रे चोत्रीस अतिशयने अधिकारे “ जलय थलय भासुरदसद्धवन्नेणंजाणुस्सेहप्पमाणमित्तेणं पुप्फ-पूजोवयारकरेइ इत्यादि पाठ छे ” इहां सम-वायांग सूत्रमे देवता मनुष्यनो नाम कह्यो नथी. तथा श्रीउववाईसूत्रे कोणिकने अधिकारे श्रीवीर समोसर्या तेवारे अनेकजन चंपाथी निकल्या जे “ अप्पेगइयावंदणवत्तियाए अप्पेगइयापूयणवत्तियाए अप्पेगइयासुयंसुयस्सामो अप्पेगइयाविउलाइ अट्टाओहेओआई अ-धिणाइगहिस्सामो ” इत्यादि पाठ छे. तिहां

७२

आगमसार.

पूयणवत्तीयाए ए पाठनो अर्थ टीकामध्ये पूज-
नं पुष्पमालादिना इम कव्यो छे. इहां श्रीतीर्थ-
करने पूष्पनी पूजा दीसे छे ए पाठ श्रीभग-
वतीसूत्रे पण छे. तथा नंदीसूत्रे श्रुतज्ञानने पाठे
जेइमं अरिहंतैहिं भगवंतेहिं उप्पन्ननाणदंसण-
धरेहिं तिल्लुकनिरक्खीय महीअपूर्इएहं पाठनो
अर्थ टीकाकारे पिण महीय शब्दे चंदनादि,
पुइएहिं पुष्पमालादिके करीने ए पाठ अनु-
योगद्वारमध्ये पण छे. इम पुष्पपूजाना अनेक
पाठ छे, ते माटे शंका न करवी. वली केइक
इम कहे छे जे फूल बेचाता जडे ते चढाववा
पण पोते चूटी चढाववां नही तेपण अजाण्युं
कहे छे जे “ श्रीजीवाभिगमसूत्रे ” ततेणं से
विजएदेते पोत्थयरयणंगिण्हइ पो. २ गि.

आगमसार.

७३

पोत्थयरयणंमुयति पो. २ ता पोत्थयरयणं-
विहाडेति पो. २ ता पोत्थयरयणंवाइए पो.
२ ता धम्मियंववसायंपिगेणेहेति ध. २ ता पो-
त्थयरयणंपडिनिख्खमति पो. २ ता सीहास-
णतोअम्भुट्टेति सी. २ ता ववसायसभातोपु-
रत्थिमिल्लेणंदारेणंपडिनिख्खमइ पु. २ ता
जेणेव णंदापुक्खरणी तेणे व उवागच्छति उ.
२ ता णंदापुक्खरिणं अणुप्पयाणिकरमाणे
पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं अणुपविसति अ. २
ता पुरत्थिमिल्लेणं तिसोपाणेपडिख्खेणं पच्चो-
रुहति प० २ ता हत्थपादं पक्खवालेति ह. २
ता एगंमहंसेतरजतामयं विमलसलिलपुण्णमत्त-
गयमहामुहागिइं समाणंभिगारं पगिण्हति प. २
ता जाइंतत्थइप्पलाइपउमाइजावसत्तपत्ताइंसह-

७४

आगमसार.

स्सपत्ताइं ताइं गेण्हंति २ ता णंदातो पुख्ख-
रिणिओ पच्चुत्तरेइ प. २ ता जेणेवसिद्धाय-
तणे तेणेवपाहारेत्थगमणाइ तएणंतविजयंदेवं-
चत्तारि सामाणियसाहस्सीओजावअण्णेवह्वे-
वाणमंतरादेवादेवीओ अप्पेगतिया उप्पलहत्थ-
गता जाव सतसहस्सपत्तहत्थगया विजयदेवं-
पिठ्ठओअणुगच्छइत्ता ”

इहां फूल चूटी लीधां छे. ए आलावे
विजयदेवे पोते वावडीभें उतरीने फूल चूटी
लीधां तथा सामानिक देवता तथा बीजे
देवताये पिण फूल पोताना हाथथी लीधां छे.
इहां कोइ पूछस्ये जे तिहां कोइ माली नथी
ते माटे पोते लिधां तेहनो उत्तर जे माली
नथी पिण देवता चाकर लोक घणा छे,

आगमसार.

७५

तेहनेज पासे कां न मंगावे ? जो पुष्प आ-
 ण्यानो विधि होवे तोपण पोताना हाथथी
 लीधानो विधि छे तेमाटे पोते वावडी मध्ये
 उतरी लीधां छे तथा श्रीरायपसेणीसूत्रे सूरी-
 आभाधिकारे

“ ततेणं से सूरियाभेदेवे पोत्थरयणंगि-
 ण्हइ, पो. र. गि. ता पोत्थरयणं मुयइ, पोत्थ-
 रयणंविहाडेइ, ता २ पोत्थरयणंवाएति, ता.
 २ धम्मियंववसायंगिण्हइ, २ ता पोत्थरयणं-
 पडिणिकखमति २ ता सिंहासणाओअब्भुट्टेइ
 २ ता ववसायसभाओ पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं
 पडिणिकखमइ २ ता जेणेव णंदापोरकरिणि
 तेणेव उवागच्छइ २ ता णदापोकखरिणी
 पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणंतिसोयाणपडिरूवेणं प-

७६

आगमसार.

च्चोरुहत्ति २ ता हत्थपायंपकखालेइ २ ता
 आयंतै चोक्खे परमसुइभूए एगंसेयमहंरयया-
 मयं विमलसलिलपुण्णं मत्तगयमुहागितिसमा-
 णभगारं पगिण्हंति पच्चोरुहइ २ ता जाइंत-
 त्थउप्पलाइंजावसयसहस्सपत्ताइंगिण्हंति णंदा-
 ओ पुक्खरिणीओ पच्चोरुहइ २ ता जेणेव
 सिद्धायतणे तेणेव पहारेगमणाए तएणं तं
 सूरियाभंदेवं चत्तारिसामाणियसाहस्सीओ जाव
 सोलसआयरक्खदेवसाहस्सीओ अण्णेयवहवे
 सूरियाभविमाणे जाव देवा देवीओअप्पेगइया
 उप्पलहत्थगया जावसत्तसहस्सपत्तहत्थगया
 सूरियाभं देवंपिट्ठओसमणुगच्छंति ततेणं सूरि-
 याभंदेवंवहवेआभिओगिय देवाय देवीओ य
 अप्पेगइयाकलसहत्थगयाओ जावअप्पेगइया

आगमसार.

७७

ध्रुवकडच्छहत्थगया हृदुतुठ्ठाजावजासूरियाभं
 देवंपिठ्ठओसमणुगच्छंति तेतेणं णे सूरियाभेदेवे
 चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जावअण्णेहियव-
 ह्हिसूरियाभविमाणवासीहिं देवेहिं देवीहिय-
 सद्धिं संपरिवुडे सव्वह्ठीए जाव णाइयरवेणं
 जेणेव सिद्धाययणे तेणेव उवा गच्छइ सिद्धाय-
 णंपुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुपविसंति २ ता
 जेणेव जिण पडिमाउ तेणेव उवागच्छइ, जिण-
 पडिमाणंआलोए पणामंकरेति २ ता लोमह-
 त्थगंगिण्हइ २ ता जिणपडिमाणं लोमहत्थएणं
 पमज्झइ २ ता जिणपडिमाओसुरभिणागंधो-
 दएणंण्हाणेति ण्हाणित्ता सरसेणं गोक्षीसचंद-
 णेणंगायाणं अणुलिप्पइ २ ता जिणपडिमाणं-
 भहियांदेवदूसाइं जुयलाइं णियंसेइ २ ता

७८

आगमसार.

पुष्करुहणं मल्लारुहणं चूणारुहणं गंधारुहणं
 वण्णारुहणं चुण्णारुहणं वत्थारुहणं आमरुहणं
 करेइ करेत्ता आसत्तासत्तविउलवगघारियमल्लदा-
 मंकलावं करेइ २ ता कयग्गहगहित्तकरयल
 पभ्भट्ट विप्पमुक्कणं दसच्चवण्णेणं कुसुमेणं
 मुक्कपुष्कपुंजोवयारकलियं करेति करेत्ता जिण-
 पडिमाणं पुरतोअच्छेहिं सण्हेहिं सएहिं रय-
 णामएहिं अच्छरसतंदुलेहिं, अट्टमंगले आ-
 लिहइ तंजहासत्थियजावदप्पणतयाणं तरंचणं-
 चंदप्पहरयणवइरतेरुलियविमलदंडकंचणमणि-
 रयणभत्तिचित्तकालागुरुपवरकुंदरुक तुरुक्कधू-
 वमघमघंतगंधत्तामाणुचिट्ठंति धूववट्ठिविणिमु-
 यंतं वैरुलियमयंकडुछखं पग्गहियपयतेणं धूवं-
 दाऊणं जिणवराणं अट्टसयत्रिसुद्धगंधजुत्तेहिं

आगमस्तार.

७९

अपुणरत्तेहिं. महाचित्तेहिं संभूगइ सत्तद्वपयाहिं
 पच्चोरुहइ १ ता वामंजाणुंअंचेइ दाहिणं
 जाणुंधरणितलं सिनिहइदुतिकखूत्तो मुद्धाणं
 धरणितलंसि णिव्वोडेत्ति २ ता इसंपच्चूण-
 मइ इसिंपच्चूणमित्ता करयलपरिग्गहियंसि-
 रसावत्तं मत्थएयंजं एवंबयासी णमोत्थुणंअरि-
 हंताणंजावसंपत्ताणंवंदति णमंसइ २ ता

ए रायपसेणीसूत्रे पाठ छे. सूरीयाभे
 पोते हाथे फूल चूटी लीधां छे, सामानीक
 प्रमुख पासे मंगाव्या नथी. तथा जंबुद्वीपपन्न-
 तीमे जन्माभिषेक जेणेवरखीरोदसमुद्दे तेणेव
 आगमखीरोदगं गिण्हंति २ ता जाइंतत्थउत्प-
 लाइं पउमाइ जावसहस्सपत्ताइं तावगिण्हंति २
 ता इत्यादि सूत्रमे पाठ हाथना चूट्या फूल

८०

आगमसार.

लेवाना छे. तथा कोइक कहेसे जे एतो चूठ्या
 नथी सहेजे पड्या लीधां छे तेहने कहीये छे,
 जे हज्जारगमे सहेजे पड्यां वावडीमध्ये हवेज
 नही, तथा निगाइने अधिकारे निगाइ राजाए
 आंबानी मांजरीयो पोते चुंटी लीधी तेवारे
 कटक बधे चुंटी लीधी ते पाठ उववायीमध्ये
 जोजो. अन्नयाणुजुत्तनिग्गओपेछइ कुसुमाचूअ-
 राइणायेगामंजरीगहीयाएवंरकंधावरेणंलयतेणं
 मंजरीपत्त पवाललयाइ कट्टाविसेसो कओ
 पडिनियत्तओपुच्छइ कहे सोरुक्खोअमच्चणा-
 दंसाओ कहए सयावेत्थोभणइ तुम्हेहि एगा-
 मंजरीगहीयापच्छसव्वणंगहेतेणं एवंकओ ॥
 इहां गहीय शब्दे चूठ्यानो अर्थ छे, तथा कोइ
 कहेस्ये जे एतो देवताये कर्यो छे ते श्रावके

आगमसार.

८१

करवानो किहां पाठ नथी, तेहने कहीये जे जो देवतानी करणी ताहरे न करवी तो शक्रस्तव किम करे छे ? तथा स्नात्र कॅम मानो छो ? स्नात्र नो कलस ढोलो छो ते देवतानी करणीज छे, तथा सूरीयाभनी पूजानी भलामण द्रौपदीने पाठे छे. देवतानी पूजाकरणी तथा मनुष्यनो पाठ एकज छे तेमाटे देवतानी करणी श्रावक करे ए श्रद्धाप्रमाण छे तथा जे फूल चुंटवानी ना कहे ते वींटना जीवनि कीलामना माटे तेवारे फूलनी पूजा किम करी शके ? अने फूलनी पूजानो तो सूत्रे पाठ छे. तथा जे पूजाने हिंसामें गणे तेहने कहीये जे श्री प्रश्नव्याकरण सूत्रे प्रथम संवरद्वारे अहिंसाना ६० नाम कद्यां छे. तिहां पूजां ते दया

८२

आगमसार.

कही छे. ते पाठ लिखीइ छे. अभउसवस्स-
 विअनाघाओ चुरकापव्वत्तीपूयाविमलप्पभा-
 निम्मलकरत्ति एवमाइणिनियगुणनिम्मियाइ-
 पज्झायनामाणिहुंति अहिंसाए भगवइए
 इत्यादि पाठे पूजा ते अहिंसामें गणी छे, तो
 तुम्हे हिंसामे किम गणो छो ? तथा भगवती
 सूत्रे “ सुभयोगपडुच्चअणारंभा ” ए पाठ
 शुभयोग प्रवृत्तिने आरंभनी ना कही छे.
 विनय तथा वेयावच्च ते तपना भेद छे. तप ते
 मोक्षमार्गमध्ये श्रीउत्तराध्ययने २८ मे अध्य-
 यने कह्यो, ते तुमे हिंसामें केम कहो छो ?
 तथा विवहारसूत्रे सिद्धवेयावच्चेणं महानिज्ज-
 रामहापज्झवसाणंभवति ” तेमाटे सिद्धवै यावच्च
 ते पूजा छे, तथा कोइ पूछे जे श्रावके प्रतिमा

આગમસાર.

૮૩

કિહાં પુંજી છે? તેહને કેહવો જે શ્રીભગવતીસૂત્રે તુંગીયા નગરીને શ્રાવકે પૂજા કરી છે. શંખ પુષ્કલીયે પૂજા કરી છે. તથા સમવાયાંગસૂત્રે દ્વાદશાંગીની હૂંડીને અધિકારે ઉપાસકદશાની હૂંડીમધ્યે દશ શ્રાવકનાં ચૈત્ય એહવો પાઠ છે. એ પાઠમે ચૈત્ય તો સાધુ થાય નહીં, જ્ઞાન થાય નહીં તે સર્વના પાઠ જુદા છે, તથા નંદીસૂત્રે પિંગ પાઠ છે તથા નંદીમધ્યે જે આગમ કહ્યા તે સર્વ માને તેજ સમક્રિતી જાણવો. શ્રીઅનુયોગદ્વારસૂત્રે નિર્યુક્તિની હા કહી છે તે નિર્યુક્તિમધ્યે પૂજાના અનેક અધિકાર છે, તથા તંદૂલવેયાલીપયન્નાની ટીકામધ્યે સમવસરણના ફૂલ સચિત્ત તે ઉપર સાધુ સાધ્વી ચાલે. શ્રવચનસારોદ્ધાર ટીકાએ પણ એ મત છે. તથા

૮૪

આગમસાર.

કોઈ કહેસ્યે જે ફૂલને પ્રોઈ (પરોવવા) નહીં
 તેહને કહીયે જે હીરપ્રશ્નમધ્યે પાઠ છે. તથા
 વન્નગંધોવમેહેંચેતિઃ શ્લોકવ્યાખ્યાયતે શ્રાદ્ધ
 દિનકૃત્યે પ્રોતપુ પૂજાક્ષરાણિવર્તેતે તથા
 આદ્યપક્ષેતુ જિનવલ્લભસૂરિ કૃત પૂજાકુલકેઽપિ
 પ્રોત પુષ્પાક્ષરાણિ સંતિ તથા હરિભદ્રસૂરિ
 કૃત પૂજા પંચાસકે જહરેંહૃઈતકીરઈ ”, એ
 ગાથાના આસયથી પિળ પ્રોયા ફુલની ઠા
 જણાય છે. તથા ઉમાસ્વાતિવાચક કૃત પૂજા
 પટલમાંપિળ એમજ જણાય છે. તે સ્થાપના
 ઇતર અને યાવત્કથિક એ બે ભેદે છે

૩ દ્રવ્ય નિક્ષેપો કહે છે, જેનો નામ પળ
 હોય તથા આકાર થાપના ગુણ પળ હોય અને
 લક્ષણ હોય પણ આત્મોપયોગ ન મિલે તે

आगमसार.

८५

द्रव्य निक्षेपो जाणवो एटले अज्ञानी जीव ते जीव स्वरूपना उपयोग विना द्रव्य जीव छे “अणुवओगो दवं” इति अनुयोगद्वार वचनात्. वली कहं छे जे सिद्धान्त वांचतां पूछतां पद अक्षर मात्रा शुद्ध अर्थ करे छे अने गुरु मुखे सद्दे छे ते पण शुद्ध निश्चये सत्ता ओलख्या विना सर्व द्रव्य निक्षेपामां छे. जे भाव विना द्रव्यपणो छे ते पुण्य बंधनुं कारण छे पण मोक्षनुं कारण नथी एटले जे करणी रूप कष्ट तपस्या करे छे अने जीव अजीव सत्ता ओलखी नथी तेने भगवती सूत्रमां अत्रती तथा अपचरखाणी कहा छे, तथा जे एकली पाह करणी करे छे अने पोते साधु कहेवरावे छे ते मृषवादी छे एम उत्तराध्ययन सूत्रमां

८६

आगमसार.

कह्युं छै “न मुणी रत्नवासेणं” ए वचनं “ना-
 णेण य मुणी होइ ” ए वचनथी जे ज्ञानवान्
 ते मुनि छै अने जे अज्ञानी ते मिथ्यात्वी छै.
 तथा कोइक गणितानुयोगना नरक देवताना
 बोल अथवा यति श्रावकनो आचार जाणीने
 कहे जे अमे ज्ञानी छैयें ते पण ज्ञानी नथी,
 पण जे द्रव्य गुण पर्याय जाणे तेने ज्ञानी क-
 हियें. श्री उत्तराध्ययने मोक्ष मार्ग कह्यो छै.
 गाथा, एयं पंच विहंनारं दब्बाणय गुणाणय,
 पज्जवाणय सवेसिं, नाणं नाणी हिं दंसियं । १
 माटे वस्तु सत्ता जाण्या विना ज्ञानी नही अने
 नवतत्त्व ओलखे ते समकीति अने एहवा ज्ञान
 दर्शन विना जे कहे के अमे चारित्रिआ छैयें
 ते पण मूषावादी छै, कारण के श्री उत्तराध्ययन

आगमसार.

८७

सूत्र मध्ये कहुं छे जे “नादंसणस्सनाणं
 नाणेण विणा न हुंति चरण गुणा ” ए वचन
 छे ते माटे आज केटलाक ज्ञानहीन क्रियानो
 आडंबर देखाडे छे ते ठग छे तेहनो संग करवो
 नही. ए बाह्य करणी अभव्य जीवने पण
 आवे माटे ए बाह्य करणी उपर राचवुं नही
 अने आत्मानुं स्वरूप ओलख्या विना सामा-
 यक पडिकमणा पच्चरुवाण करवां ते सर्व
 द्रव्यनिक्षेपामां पुण्याश्रव छे पण संवर नथी.
 श्रीभगवतो सूत्र मध्ये कहुं छे के “आया खलु
 सामाइयं ” ए आलावाथी जाणजो तथा जीव
 स्वरूप जाण्या विना तप संयम पुण्य प्रकृति
 ते देवताना भवनुं कारण छे “ पुव्व तवेणं
 पुव्व संयमेणं देवलोए उववज्जंति नो चेवणं

૯૯

આગમસાર.

આય ભાવવત્તવ્વયાણ ” એ આલાવો ભગવ-
તીમાં કહ્યો છે. તથા જે ક્રિયાલોપી આચાર
હીન અને જ્ઞાનહીન છે માત્ર ગચ્છની ચાલે
સિદ્ધાન્ત ભણે છે વાંચે છે વ્રત પચ્ચસ્સવાણ કરે
છે તે પળ દ્રવ્ય નિક્ષેપો જાણવો. એમ શ્રી
અનુયોગદ્વારમાં કહ્યું છે.

જે રૂમે સમણ ગુણમુક્કજોગી છકાય
નિરણુકંપા ॥ હયાઈવ ઉદ્દામા ॥ ગયાઈવ નિરં-
કુસા ॥ ઘટ્ટામટ્ટાતુપ્પોઠા ॥ પંડુરયાડરણા જિ-
ણાણં આણાણ સચ્છંદ વિહરિડ્ડણ ઉભઓ-
કાંલં આવસ્સગ્ગસ્સ ઉવટ્ટંતિ ॥ તં લોગુત્તરિયં
દવ્વાવસ્સયં ॥

અર્થ—જેને છ કાયની દયા નથી, ઘો-
ડાની પેરેં ઉન્મત્ત છે, હાથીની પેટે નિરંકુશ

આગમસાર.

૮૧

છે, પોતાના શરીરને ધોવતાં મસલતા ઉજલે
 કપડે શિળગાર કરી ગચ્છના મમત્વભાવે મા-
 ચતાં સ્વેચ્છાચારી વીતરાગની આજ્ઞા ભાંજતા
 જે તપ ક્રિયા કરે છે તે પણ દ્રવ્ય નિક્ષેપામાં
 છે. અથવા જ્યોતિષ વૈદ્યક કરે છે અને પો-
 તાને આચાર્ય ઉપાધ્યાય કહેવરાવીને લોક
 પાસે મહિમા કરે (કરાવે છે) છે તે પત્રીબંધ
 સોટા રૂપેયા જેવા છે. ઘણા ભવ ધમસે અવં-
 દનીક છે એ સ્વાસ ઉત્તરાધ્યયનમધ્યે અનાથી
 મુનિના અધ્યયનથકી જાળવી અને સૂત્રના
 અર્થ ગુરુમુખે શિશ્યા વિના તથા નય પ્રમાણ
 જાળ્યા વિના નિશ્ચય આત્માનું સ્વરૂપ ઓલ-
 શ્યા વિના નિર્યુક્તિ વિના ઉપદેશ આપે તે
 પોતે તો સંસારમાં બુઢ્યા છે પણ જે તેમની

९०

आगमसार.

पासे बेसे छे तेमने पण संसारमां बुडावे छै एम प्रश्न व्याकरण सूत्र तथा अनुयोगद्वार सूत्रमां कह्युं छे “ अज्जुत्थ चेव सोल समं ” इत्यादि अने भगवती सूत्रमां पण कह्युं छे “सुतत्थो खलु पढमो, वीओ निजुत्ति मिसओ भणिओ, इत्तो तईअणुओगो, नाणुन्नाओ जिणवरेहिं ” अने केटलाक एम कहे छे जे अमे सूत्र उपर * अर्थ करिये छैयें तो निर्युक्ति

* श्री भगवती सूत्रमां “सुतत्थोखलु पढमो, वीओनिज्जुत्ति मिसओ भणिओ ॥ इत्तो तईयणुओगो, नाणुन्नाओजिणवरेहिं ” एवी रीते आगमसारनी जूदी जूदी त्रण प्रतोमां लख्युं हतुं माटे में पण तेमज लख्युं छे पण बीजा ठेकाणे ए भगवतीनी साख दीधी छे तिहां तो “ सुतत्थो खलु

आगमसार.

९१

तथा टीका प्रमुखतुं शुं काम छे ते पण मृषा-
वाद छे केमके श्रीप्रश्नव्याकरणमां “वयणतियं
लिंगतियं ” इत्यादिक जाण्या विना अने नय
निक्षेप जाण्या विना जे उपदेश आपे ते मृषा-
वादी छे एग अनेक सूत्रमां कहुं छे माटे बहु-
श्रुत पासे उपदेश सांभलवो. श्री उत्तराध्ययन
मध्ये बहुश्रुतने मेरुनी तथा समुद्रनी अने
कल्पवृक्षादि सोल उपमा दीथी छे ए द्रव्य
निक्षेपो कवो.

४ भाव निक्षेपो कहे छे. जे नाम स्था-
पना अने द्रव्य ए त्रण निक्षेपा ते एक भाव

पदमो, वीओनिज्जुत्ति मिसओ भणिओ ॥ तइओय
निरविसेसो, एस विहि होइअणुओगो ” एवो पाठ
छे ते खरो जणाय छे पछे बहुश्रुत कहे ते खरुं.

९२

आगमसार.

निक्षेपा विना अशुद्ध छे जे नाम तथा आकार लक्षण गुण सहित वस्तु ते भाव निक्षेपो जाणवो “ उवओगो भाव ” इति वचनात् एटले पूजा, दान, शील, तप, क्रिया, ज्ञान ए सर्व भावनिक्षेपे सहित लाभनुं कारण छे इहां कोइ कहेशे जे मनना परिणाम दृढ करीने जे करियें तेने भाव कहियें एम कहे छे ते जूठा छे एतो सुखनी वांछायें मिथ्यात्वी पण घणा करे छे ते गणवुं नहीं. इहां सूत्रनी साखे वीतरागनी आज्ञाए हेय उपादेयनी परीक्षा करी अजीवतत्त्व तथा आस्रवतत्त्व अने बन्ध-तत्त्व उपर हेय कहेतां त्याग भाव अने जीवना स्वगुण जे संवर निर्जरा तथा मोक्ष तत्त्व ऊपरें उपादेय परिणाम ते भाव कहिये एटले रूपी-

आगमसार.

९३

गुण ते द्रव्य निक्षेप छे अने अरूपीगुण ते भावनिक्षेप छे एटले मन वचन काया लेश्या-दिक सर्व द्रव्य निक्षेपामां छे अने ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य ध्यान प्रमुख सर्व गुण भाव निक्षेपामां छे. ए भाव निक्षेपो ते नामस्थापना तथा द्रव्य सहित होय एटले चार निक्षेपा कहा.

हवे चार निक्षेपा पदार्थ ऊपर लगाडी देखाडे छे. नाम जीव ते चेतना अथवा मांचाना एक बाणने जीव कही बोलावे छे ते नाम निक्षेपे जीव. मूर्ति प्रमुख थापिये ते स्थापना जीव. एकेन्द्रियथी पंचेन्द्रिय पर्यंत सर्व जीव छे पण उपयोग मिले नहि ते द्रव्य जीव. अने मूर्तिमां जीव स्वरूप ओलखी समकितना

९४

भागमन्त्र.

उपयोगमां छे ते भाव जीव. एम धर्मास्तिका-
यादिक द्रव्यमां पण जाणवुं. नामथी धर्मास्ति-
काय कही बोलाववो ते नाम धर्मास्तिकाय.
धर्मास्तिकाय एहवा अक्षर लखवा अथवा
दृष्टांत कारणे कांइक वस्तु थापवी ते स्थापना
धर्मास्तिकाय तथा धर्मास्तिकाय जे असंख्यात
प्रदेशी धर्म द्रव्य छे ते द्रव्य धर्मास्तिकाय. ए
धर्मास्तिकायने जे वारं चलण सहाय गुणनी
अपेक्षा सहित ओलखियें ते भाव धर्मास्तिकाय.

हवे कोइकनो साधु एहवो नाम छे ते
नाम साधु अने स्थापना करियें ते स्थापना
साधु तथा जे पंच महाव्रत पाले क्रिया अनु-
ष्ठान करे सुजतो आहार लिये पण ज्ञानध्या-
ननो जेवो उपयोग जोइए तेवो उपयोग न

आगमसार.

९५

होय ते द्रव्य साधु. जे भाव संवरमोक्षनो साधक थइ भाव साधुनी करणी करे ते भाव निक्षेपे साधु कहिये.

कोइकनो अरिहंत नाम छे ते नाम अरिहंत अने अरिहंतनी प्रतिमा ते थापना अरिहंत जेटला सुधी छद्मस्थ अवस्था ते द्रव्य अरिहंत अने केवल ज्ञान पाम्या पछे लोकालोकनो भाव जाणे देखे ते भाव अरिहंत एम सिद्धमां पण कहेवो.

कोइ जीवनो ज्ञान एहवो नाम अथवा भावे अजीवनो नाम ते नाम ज्ञान तथा जे ज्ञान पुस्तकमां लख्युं छे ते स्थापना ज्ञान. जे उपयोग विना सिद्धांतनो भणवो अथवा अन्य मतिना सर्व शास्त्र भणवा तथा ज्ञशरी-

૧૬

આગમસાર.

રાદિક તે સર્વ દ્રવ્ય જ્ઞાન જે નવતત્ત્વનું જાણવું તે ભાવજ્ઞાન.

તથા કોઝકનું તપ એહવું નામ તે નામ તપ તથા પુસ્તકમાં તપની વિધિનું લેખન તે થાપના તપ અને પુણ્યરૂપ માસસ્વમણાદિક કરવો તે દ્રવ્ય તપ. જે પરવસ્તુ ઉપર ત્યાગનો પરિણામ તે ભાવ તપ. એમ સંવરાદિક સર્વમાં ચાર ચાર નિક્ષેપા જાણવા. તથા શ્રી અનુયોગદ્વાર મધ્યે કહ્યું છે—યતઃ “ જત્થયજં જાણિજ્જા, નિસ્સેવં નિસ્સેવે નિસ્સેસં ॥ જત્થયનો જાણિજ્જા, ચુક્કયંનિસ્સેવે તત્થ ॥ ૧ ॥ એ ચાર નિક્ષેપા કહ્યા એટલે શબ્દનય કહ્યો.

હવે છટ્ટો સમભિરૂઢ નય કહે છે જે વસ્તુના કેટલાક ગુણ પ્રગટ્યા છે અને

आगमसार.

१७

केडलाक गुण प्रगळ्या नथी पण अवश्य प्रग-
 ट्श एहवा वस्तुने वस्तु कहे ते वस्तुना
 नामांतर एक करी जाणे. जेम जीव चेतन
 तथा आत्मा एहनो* एक अर्थ कहे ते सम-
 भिरूढ नय कहियें, ए नय एक अंश ओछी
 वस्तुने पूरेपूरी वस्तु कहे, जेम तेरमा गुण-
 ठाणे केवळी होय तेहने सिद्ध कहे. ए नयना
 भेद बिलकुल नथी ए समभिरूढ नय कहा.

हवे एवंभूतनय कहे छे जे वस्तु पोताने
 गुणे संपूर्ण छे अने पोतानी क्रिया करे छे
 तेने ते वस्तु कर्हा बोलावे. जेम मोक्षस्थानके
 जे जीव पहुँचोते तेने सिद्ध कहे. जेम पाणीथी

* एकार्थवाची नामोनां नामभेदे भिन्न भिन्न
 अर्थ करे छे तेने समभिरूढ नय कहे छे.

९८

आगमसार.

भरेलो स्त्रीना माथा उपर आवतो जल धारण क्रिया करतो तेने वडो कहे. ए एवंभूत नय कह्यो.

हवे सात नयना दृष्टान्त श्री अनुयोग-द्वारा सूत्रथी लखियें छैयें. जेम कोइक पुरुषे वीजा कोइक पुरुषने पुछयुं जे तमे किहां वसो छो तेवारें ते पुरुषें कह्युं हुं लोकमां वसुं छुं. ए अशुद्ध नैगम, वली पुछयुं जे लोकना त्रण भेद छे, १ अधोलोक, २ त्रिछो-लोक ३ ऊर्ध्वलोक तेमां तुं किहां रहे छे तेवारें नैगमें कह्युं जे त्रिछालोकमां रहुंछुं. वली पुछयुं जे त्रिछालोकमां असंख्याता द्वीप समुद्र छे तेमां तुं कया द्वीपमां रहे छे तेवारें विशुद्ध नैगमें कह्युं जे जंबुद्वीपमां रहुंछुं, ते

आगमसार.

९९

जंबुद्वीपमां खेत्र घणा छे, तेमां तुं कया खेत्रमां रहे छे, तेवारें अतिशुद्ध नैगम बोल्यो जे भरतक्षेत्रमां रहंछुं, ते भरतक्षेत्रना छ खंड छे ते मांहेला कया खंडमां रहे छे तेवारें कहुं जे मध्यखंडमां रहं छुं एम क्रमे पूछतां छेल्ले कहुं जे आपणा देशमां रहं छुं, तेवारें फरी पुछयुं जे देशमां तो नगरगाम घणा छे तो तुं किहां रहे छे. तेवारें कहुं जे हुं अमुक गाममां रहं छुं, ते गाममां वली अमुक पाडो तथा अमुक घर बताव्युं तिहां सुधी नैगम नय जाणवो.

अने संग्रह नय वालो बोल्यो जे मारा पीताना शरीरमां वसुं छुं, तथा व्यवहारनय-वालो बोल्यो जे संथारे बेठो छुं तेटलाज

१००

आगमसार.

विद्यानामां रहं छुं, अने ऋजुसूत्र नयवाले कहुं जे मारा आत्माना असंख्याता प्रदेशमां रहं छुं. वली शब्दनय कहे जे मारा स्वभावमां रहं छुं, तेमज समभिरूढनय कहे जे हुं मारा गुणमां रहं छुं, अने एवंभूतनयवादी कहे जे ज्ञानदर्शन गुणमां वसुं छुं. ए दृष्टांत कथो तेम सर्व वस्तुमां कहेवुं.

तथा कोइके प्रदेशमात्र क्षेत्र अंगीकार करी पुछयुं जे ए प्रदेश कया द्रव्यनो छे तेवारें नैगमनय बोलयो जे छए द्रव्यनो प्रदेश छे केमके एक आकाश प्रदेशमध्ये छ द्रव्य भेला छे तेवारें संग्रह नय बोलयो जे कालद्रव्य तो अप्रदेशी छे ते माटे सर्व लोकमां एक समय छे पण ते एक आकाश द्रव्यना प्रदेशमां

आगमसार.

१०१

जूदो नथी माटे काल विना पांच द्रव्यनो प्रदेश छे तेवारे व्यवहारनय बोल्यो के जे द्रव्य मुख्य देखाय छे तेहनो प्रदेश छे तेवारे ऋजुसूत्रनय बोल्यो के जे द्रव्यनो उपयोग देइ पुछियें ते द्रव्यनो प्रदेश छे. जो धर्मास्तिकायनो उपयोग देइ पुछियें तो धर्मास्तिकायनो प्रदेश छे. जो अधर्मास्तिकायनो उपयोग देइ पुछियें तो अधर्मास्तिकायनो प्रदेश छे. तेवारे शब्दनय बोल्यो के जे द्रव्यनो नाम लइ पुछियें ते द्रव्यनो प्रदेश छे. हवे समभिरूढनय बोल्यो जे एक आकाश प्रदेश मध्ये धर्मास्तिकायनो एक प्रदेश छे, अधर्मास्तिकायनो एक प्रदेश छे अने जीवना अनंता प्रवेश छे. पुद्गलना अनंता पर प्राणु प्रमुख

१०२

आगमसार.

अस्तिकायनो एक प्रदेश छे, तेवारे एवंभूत नय बोल्यो, जे प्रदेश द्रव्यनी क्रियागुण अंगीकार करी देखीयें ते समयमां ते प्रदेश ते द्रव्यनो गणिये ए प्रदेशमां सात नय कहा.

हवे जीवमां सात नय कहे छे. प्रथम नैगमनयने मते जे गुण पर्यायवंत शरीर सहित ते जीव एटले शरीरमां जे बीजा पुद्गल तथा धर्मास्तिकायादिक द्रव्य छे ते सर्व जीवमांज गण्या तेवारे संग्रहनय बोल्यो जे असंख्यात प्रदेशी ते जीव एटले एक आकाशना प्रदेश टल्या बीजा सर्व द्रव्य एमां गणाणा तेवारे व्यवहारनय बोल्यो, जे विषय लक्ष्ण काम वात संभारे ते जीव इहां धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश तथा बीजा पुद्गल

आगमसार.

१०३

सर्व टल्या पण पांचे इन्द्रिय तथा मन अने
 लेश्या ए पुद्गल छे ते जीवमां गणाणा, कार-
 णके विषयादिकतो इंद्रियो ले छे ते जीवथी
 न्यारा छे पण इहां व्यवहारनयमते जीव भेला
 लीधा छे तेवारे ऋजुसूत्रनय बोल्यो जे उपयो
 गवंत ते जीव इहां इंद्रियादिक सर्व टल्या
 पण अज्ञान तथा ज्ञानना भेद टल्या नहीं.
 हवे शब्दनय बोल्यो जे नामजीव, स्थापना
 जीव द्रव्यजीव भाव जीव इहां जीवमां गुण
 निर्गुणगो भेद पड्यो नही, तेवारें समभिरू-
 ढनय बोल्यो जे ज्ञानादिगुणवंत ते जीव तेवारें
 मतिज्ञान श्रुतज्ञान इत्यादिक साधक अवस्थाना
 गुण ते सर्व जीव स्वरूपमां आव्या. हवे
 एवंभूतनयबोल्यो जे अनंतज्ञान, अनंतदर्शन,

१०४

आगमसार.

अनंतं चारित्र्यं, शुद्धसत्तावंतं ते जीव. ए नये
जे सिद्ध अवस्थामां गुण हता तेज ग्रह्या ए
सात नये जीव-द्रव्य कह्यो.

हवे सातनये धर्म कहे छे. नैगमनय
बोल्यो जे सर्व धर्म छे केमके सर्व प्राणी
धर्मने चाहे छे. ए नय स्वरूप धर्म नाम धर्म
ने धर्म कहे. हवे संग्रहनय बोल्यो जे बडेरायें
आदरयो ते धर्म, एणे अनाचार छोड्यो
पण कुलाचारने धर्म कह्यो, व्यवहारनय
बोल्यो जे सुखनुं कारण ते धर्म एणे पुण्य
करणीने धर्म करी मान्यो. ऋजुसूत्रनयमते जे
उपयोग सहित वैराग्यरूप परिणाम ते धर्म
कहियें. ए नयमां यथाप्रवृत्तिकरणना परिणाम
प्रमुख सर्व धर्ममां गण्या ते मिथ्यात्वने पण

अगमस्य

१०५

होय. हवे शब्दन कहेया जे धर्मतं मूल समकित
 छे माटे समकित धर्म लेखे सं समभिरुधम्य
 बोल्यो जे जीव अजीव वस्तु तथा
 द्रव्यने ओलखीने जीवसत्ता व्याके अजीवना
 त्याग करे एहवो ज्ञान दर्शन चारित्रनो शुद्ध-
 निश्चय-परिणाम ते धर्म. ए नये साधक सिद्ध
 परिणाम ते धर्मपणे लीधा. एवंभूतनय बोल्यो
 जे शुद्ध ध्यान रूपातीत परिणाम क्षपक श्रेणि
 कर्म क्षयना कारण ते साधन धर्म जे जीवनो
 मूल स्वभाव ते वस्तु धर्म जे मोक्षरूप कार्य
 नीपने सिद्धमां रहे ते धर्म. ए साते नये धर्म
 कहे.

हवे सातनये सिद्धपणो कहे छे. नैगम-
 नयनी मते सर्व जीव सिद्ध छे केमके सर्व

१०६

आगमसार.

जीवना आठ रुचक प्रदेश सिद्ध समान निर्मल छे माटे संग्रहनय कहे जे सर्व जीवनी सत्तासिद्ध समान छे एणे पर्यायार्थिक नयेकरी कर्म सहित अवस्था ते टालीने द्रव्यार्थिक नयेकरी अवस्था अंगीकार करी तेवारें व्यवहारनय बोल्यो जे विद्या लब्धि प्रमुख गुणे करी सिद्ध थयो ते सिद्ध. ए नये बाह्य तप प्रमुख अंगीकार करया, हवे ऋजुसूत्रनय बोल्यो के जेणे पोताना आत्मानि सिद्धपणानी सत्ता ओलखी अने ध्याननो उपयोग पण तेज वर्त्ते छे ते समयें ते जीव सिद्ध जाणवो. ए नये समकीति जीव सिद्ध समान छे एम कह्युं हवे शब्दनय बोल्यो जे शुद्ध शुक्ल ध्यान परिणाम नामादिक निक्षेपे ते सिद्ध. तेवारें

આગમસાર.

૧૦૬

સમભિરૂઢનય વોલયો જે કેવલજ્ઞાન કેવલ-
 દર્શન, યથાખ્યાતચારિત્ર એ ગુણે સહિત તે
 સિદ્ધ જાણવા. એ નયે તેરમા ચઉદમા ગુણઠા-
 ણાના કેવલીને સિદ્ધ કહ્યા અને એવંભૂતનય
 કહે છે કે જેના સકલ કર્મ ક્ષય થયા લોકને
 અંતે વિરાજમાન અષ્ટગુણ સંપન્ન તે સિદ્ધ
 જાણવા. એ રીતે સિદ્ધ પદે સાત નય કહ્યા.
 એમ સાત નય મિલ્યા સમકીતિ છે અને જે
 એક નયને ગ્રહણ કરે તે મિથ્યાત્વી છે. એ
 સાતે નય સિદ્ધ તે વચન પ્રમાણ છે અને એ
 સાત નયમાં કોઈ પણ નયને ઉત્થાપે તેનું વચન
 અપ્રમાણ છે.

હવે પ્રમાણનો વિચાર કહે છે. પ્રમાણના
 બે ભેદ છે. એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ બીજું પરોક્ષ

१०८

आगमसंसार.

प्रमाण तेमां जे जीव पोताना उपयोगथी द्रव्यने जाणे ते प्रत्यक्ष प्रमाण कहियें. जेम केवली छ द्रव्य प्रत्यक्ष प्रमाणे जाणे तथा देखे ते माटे केवलज्ञान ते सर्वथी प्रत्यक्ष ज्ञान छे, अने मनः पर्यवज्ञान ते मनोवर्गणा प्रत्यक्ष जाणे तथा अवधिज्ञान ते पुद्गल द्रव्यने प्रत्यक्ष जाणे माटे ए वे ज्ञान देश प्रत्यक्ष छे. बीजुं छद्मस्थज्ञान ते सर्व परोक्ष प्रमाण छे.

हवे परोक्ष प्रमाण कहे छे. मतिज्ञाननो अने श्रुतज्ञाननो उपयोग परोक्ष प्रमाण छे केमके जे शास्त्रना बलथी जाणे ते परोक्ष प्रमाण कहियें. ते परोक्ष प्रमाणना त्रण भेद छे. १ अनुमान प्रमाण, २ आगम प्रमाण, ३ उपमान प्रमाण. तेमां अनुमान एदले कोइक

आगमस्तार.

१०९

सहिनाण देखीने जे ज्ञान थाय, जेम धुमाडो देखीने अग्निनुं अनुमान थाय अने आगम एटले शास्त्रनी साखथी जे वात जाणियें. जेम देवलोक तथा नरक निगोद विगेरेनो विचार आगमथी जाणियें छैये ते आगमप्रमाण अने कोइक वस्तुनो दृष्टान्त आपीने वस्तुने ओलखाववी ते उपमान प्रमाण जाणवो. ए प्रमाण कह्या. हवे सत् असत् पक्षथी सप्तभंगी कहे छे.

? स्यात् केहतां अनेकांतपणे सर्व अपेक्षा लेइ जीवद्रव्यमां आपणो द्रव्य आपणो खेत्र आपणो काल आपणो भाव एम आपणे गुण पर्यायें जीव छे तेम सर्व द्रव्य आपणे गुणपर्यायें छे ते स्यात् अस्ति नामा पहेलो भांगो थयो.

११०

आगमसार.

२ जे जीवमां बीजा पांच द्रव्यना १ द्रव्य २ खेत्र ३ काल ४ भाव ते पद्रव्यना गुणपर्याय जीवमां नथी एटले परद्रव्यना गुणनो नास्तिपणो सर्व द्रव्यमां छे. ए स्यात् नास्ति बीजो भांग थयो.

३ द्रव्य स्वगुणे अस्ति अने पर गुणे नास्ति ए बे भांगा एक समये द्रव्यमां छे. जेम जे समये शुद्ध स्वगुणनी अस्ति छे तेज समयें परगुणनी नास्ति पण छे, माटे अस्ति नास्ति ए बेहु भांगा भेला छे तेस्यात् अस्ति नास्ति त्रीजो भांगो थयो.

४ अस्ति अने नास्ति ए बेहु भांगा एक समयमां छे तो वचने करी अस्ति एटलो बोलतां असंख्यता समय लागे तेथी नास्ति

आगमसार.

१११

भांगो तेज वखते कहेवाणो नही अने जो नास्ति भांगो कहा तो अस्तिपणो नाव्यो माटे एकज अस्ति कहेतां थकां नास्तिपणो तेज समये द्रव्यमां छे ते नही कहेवाणो माटे मृषावाद लागे तेमज नास्ति कहेतां अस्तिनो मृषावाद लागे माटे वचने अगोचर छे एक समयमां बेहु वचन बोलया जाय नही केमके एक अक्षर बोलतां असंख्याता समय लागे छे माटे वचनर्था अगोचर छे ते स्यात् अवक्तव्य ए चोथो भांगो कहा.

५ ते अवक्तव्यपणो ए वस्तुमां अस्तिधर्मनो पण छे माटे स्यात् अस्ति अवक्तव्य पांचमो भांगो कहा.

६ तेमज नास्ति धर्मनो पण अवक्तव्य-

११२

आगमसार.

पणो वस्तु मध्ये छे माटे स्यात् नास्ति अव-
क्तव्य छट्टो भांगो जाणवो.

७ ते अस्तिपणो तथा नास्तिपणो
बेहु धर्म एकसमये वस्तु मध्ये छे पण वच-
नथी अवक्तव्य छे माटे स्यात् अस्तिनास्ति-
युगपत्अवक्तव्य ए सातमो भांगो कहाँ.

हवे ए सात भांगा नित्य तथा अनि-
त्यपणांमां लगाटे छे १ स्यात् नित्यं २ स्यात्
अनित्यं ३ स्यात्नित्यानित्यं ४ स्यात् अवक्त-
व्यं ५ स्यात्नित्यंअवक्तव्य ६ स्यात्अनित्यं
अवक्तव्यं ७ स्यात् नित्यानित्यं युगपत् अव-
क्तव्यं, एमज एक अनेकना सात भांगा क-
हेवा तथा गुणपर्यायमां पण कहेवा केमके

आगमसार.

११३

सिद्ध मध्ये नय नथी तोपण सप्तभंगी तो सिद्धमां छे.

हवे सत्ता ओलखाववाने त्रिभंगी कहे छे. १ मिथ्यात्व दशा ते बाधकदशा. २ सम-
कित गुणठाणार्थी मांडीने अयोगी केवली गु-
णठाणा मुधी साधक दशा जाणवी. ३ सर्व
कर्मथी रहित ते सिद्ध दशा. १ ज्ञाननो जाण-
पणो ते जीव गुण २ तेनो ज्ञाता ते जीव.
३ ज्ञेय ते सर्व इच्छ, १ ध्यान ते जीवना स्व-
रूपनो २ ते ध्याननो ध्याता जीव ३ ध्येय
आत्मानो स्वरूप. १ कर्ता ते जीव २ कर्म
ते एक मोक्ष बीजो बन्ध ३ क्रिया ते एक
संवर बीजा आस्रव. १ कर्म ते चेतनाने कर्म
बंधना परिणाम २ कर्मनुं फल ते चेतनाने

૧૧૫

આગમસાર.

જે કર્મ ઉદયના પરિણામ ૩ જ્ઞાન ચેતના તે જીવનો સ્વગુણ. તે આત્માના ત્રણ ભેદ છે ? અજ્ઞાની જીવ શરીરાદિક પરવસ્તુને આત્મ-બુદ્ધિયેં કરી માને છે તે પહેલો બહિરાત્મા ૨ જે દેહ સહિત જીવ છે તે પળ નિશ્ચયે સત્તાગુણ સિદ્ધ સમાન છે એટલે પોતાના જીવને સિદ્ધ સમાન કરી ધ્યાવે તેવીજો અંતરાત્મા જાણવો. ૩ કર્મ સ્વપાત્રી કેવલજ્ઞાન પામ્યા તે અરિહંત તથા સિદ્ધ સર્વ પરમાત્મા જાણવા. એ ત્રિભં-ગીનો વિચાર કહ્યો એટલે આઠ પક્ષનો વિ-ચાર કહ્યો.

હવે એકેક દ્રવ્ય મધ્યે છે સામાન્ય ગુણ છે તે કહે છે. પહેલો અસ્તિત્વ તે જે છે દ્રવ્ય આપણા ગુણ પર્યાય પ્રદેશ કરી અસ્તિ છે

आगमसार.

११५

तैमां धर्म, अधर्म, आकाश अने जीव ए चार द्रव्यनो असंख्याता प्रदेश मिल्या खंध थाय छे अने पुद्गलमां खंध थवानी शक्ति छे माटे ए पांच द्रव्य अस्तिकाय छे अने छट्टो काल द्रव्यनो समय कोइ कोइथी मिलतो नथी के-मके एक समय विणस्या पछे बीजो समय आवे छे माटे काल अस्तिकाय नथी. द्रव्यमां ए अस्तित्वपणो कह्यो.

२ वस्तुत्व कहेतां वस्तुपणो कहे छे ते द्रव्य छए एकठा एक क्षेत्र मध्ये रह्या छे, एक आकाश प्रदेशमां धर्मास्तिकायनो एक प्रदेश रह्यो छे तथा अनंतात्माना अनंता प्रदेश रह्या छे. पुद्गल परमाणु अनंता रह्या छे. ते सर्व पोतानी सत्ता लीधा भका रह्या छे पण कोइ द्रव्य

११६

आगमसार.

साथे मिली जातो नथी ते वस्तुपणो.

३ द्रव्यत्व केहतां द्रव्यपणो ते सर्व द्रव्य पोतपोतानी क्रिया करे एटले धर्मास्तिकायमां चलनगुण ते सर्व प्रदेश मध्ये छे सदा कालें पुद्गल तथा जीवने चलाववारूपक्रिया करे छे, इहां कोइ पुछे जे लोकान्त सिद्धक्षेत्रमां धर्मास्तिकाय छे ते सिद्धना जीवने चलाववापणो करतो नथी तेहुं कैम ? तेने उत्तर कहे छे जे सिद्धना जीव अक्रिय छे माटे चालता नथी पण ते क्षेत्रमां जे सूक्ष्म निगोदना जीव तथा पुद्गल छे तेहने धर्मास्तिकाय चलावे छे माटे पोतानी क्रिया करे छे, तेमज अधर्मास्तिकाय जीव तथा पुद्गलने स्थिर राखवानी क्रिया करे छे, तथा आकाश द्रव्य

आगमसार.

११७

ते सर्व द्रव्यने अवगाहनारूपकार्य करे छे. इहां कोइ पूछे जे अलोकाकाशमांतो बीजुं कोइ द्रव्य नथी तो अलोकाकाश कया द्रव्यने अवगाहदान आपे छे तेने उत्तर कहे छे जे अलोकाकाशमां अवगाह करवानी शक्ति तो लोकाकाश जेबीज छे परंतु तिहां अवगाहनो दान लेनार द्रव्य कोइ नथी माटे अवगाहदान करतो नथी अने पुद्गल द्रव्य मिलवा विख-खारूप क्रिया करे छे तथा कालद्रव्य वर्तना रूप क्रिया करे छे अने जीव द्रव्य ज्ञान ल-क्षण उपयोगरूप क्रिया करे छे. एम सर्व द्रव्य पोताने परिणामी स्वसत्तानी क्रिया करे छे ए द्रव्यत्वपणो कह्यो.

४ प्रमेयत्वं कहेतां प्रमेयपणो जे छ द्र-

૧૧૮

આગમસાર.

વ્યમાં પ્રમેયપણો છે, તેનો પ્રમાણ કેવલી પો-
 તાના જ્ઞાનથી કરે છે, જે ધર્માસ્તિકાય તથા
 અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એકેક
 દ્રવ્ય છે અને જીવદ્રવ્ય અનંતા છે તેહની ગણતિ
 કહે છે. સંજી મનુષ્ય સંખ્યાતા છે, અસંજી
 મનુષ્ય અસંખ્યાતા છે, નારકી અસંખ્યાતા છે,
 દેવતા અસંખ્યાતા છે, તિર્યંચ પંચેન્દ્રિય અસં-
 ર્યાતા છે, બેઈન્દ્રી અસંખ્યાતા, તેઈન્દ્રી
 ચૌરેન્દ્રીય અસંખ્યાતા છે પૃથ્વીકાય અસં-
 ર્યાતા, અપકાય અસંખ્યાતા, તેુકાય
 અસંખ્યાતા, વાયુકાય અસંખ્યાતા, પ્રત્યેક
 બનસ્પતિ જીવ અસંખ્યાતા, તે થકી સિદ્ધના
 જીવ અનંતા તે થકી બાદર નિગોદના જીવ
 અનંતાગુણા ઇદલે બાદર નિગોદ તે કંદમૂલ

आगमसार.

११९

आदु सूरण प्रमुख एहने सुइने अग्रभागें अनंता जीव छे ते सिद्धना जीवथी अनंतगुणा छे अने सूक्ष्मनिगोद सर्वथी अनंत गुणा छे. सूक्ष्मनिगोदनो विचार कहे छे जेटला लोकाकाशना प्रदेश तेटला गोला छे ते एकेक गोलांमां असंख्याता निगोद छे. निगोद शब्दनो अर्थ ए छे जे अनंता जीवनो पिंड भूत एक शरीर तेहने निगोद कहियें. ते एकेकी निगोदमध्ये अनंता जीव छे ते अतीत कालना सर्व समय तथा अनागतकालना सर्व समय अने वर्तमान कालनो एक समय तेने भेला करी अनंत गुणा करीये एटला एक निगोदमां जीव छे एटले अनंता जीव छे ए ए संसारी जीव एकेकाना असंख्याता प्रदेश

૧૨૦

આગમસાર.

છે અને એકા પ્રદેશે અનંતિ કર્મ વર્ગણા
લાગી છે. તે એકેક વર્ગણા મધ્યે અનંતા પુદ્ગલ
પરમાણુ છે એમ અનંતા પરમાણુ જીવ સાથે
લાગ્યા છે તે થકી અનંત ગુણા પુદ્ગલ પરમાણુ
જીવથી રહિત છુટા છે.

ગોલાય અસંખિજ્ઞા,
અસંખ નિગોયઓ હવઈ ગોલો ॥
ઇક્કિકંમિ નિગોઈ,
અણંતજીવા મુણેયવા ॥ ૧ ॥

અર્થ—લોક માંહે અસંખ્યાતા ગોલા છે,
એકેકા ગોલા મધ્યે અસંખ્યાતિ નિગોદ છે.
એકેક નિગોદમાં અનંતા જીવ છે ॥

સત્તરસ સમહિયાકિરી ।
ઇગાણુપાણુંમિ હુંતિ સુહુભવા ॥

आगमसार.

१२१

सगतीससयतिहुंत्तर ।

पाणु पुण इग मुहुत्तमि ॥ १ ॥

अर्थ—निगोदिया जीव ते मनुष्यना एक उसासमां सत्तर १७ भव जाजेरा करे छे अने सदत्रीससो तिहुंतेर ३७७३ श्वासो-च्छ्वासे एक मुहूर्त्तमां थाय.

पणसट्टि सहस्स पणसय ।

छत्तिसा इग मुहुत्त खुड्डभवा ॥

आवलियाणं दो सय ।

छपन्ना एग खुड्डभवे ॥ १ ॥

अर्थ—निगोदना जीव एक मुहूर्त्तमां ६५५३६ भव करे अने निगोदनो एक भव २५६ आवलीनो छे. क्षुल्लक भवनो ए ममाण छे.

૧૨૨

આગમસાર.

અત્થિ અણંતાજીવા,
 જેહિં ન પત્તો તસાઇપરિણામો ॥
 ઉવજ્જંતિયચયંતિ ય,
 પુણોવિ તત્થેવ તત્થેવ ॥ ૧ ॥

અર્થ—નિગોદમાં અનંતા જીવ એવા છે, જે જીવ ત્રસપણો પહેલા કિવારેં પામ્યા નથી અનંતો કાલ પૂર્વે ગયો અને અનંતો કાલ જાશે પણ તે જીવ વારંવાર તિહાંજ ઉપજે છે અને તિહાંજ ચલે છે એમ એક નિગોદમાં અનંતા જીવ છે તે નિગોદના બે ભેદ છે. એક વ્યવહાર રાશી નિગોદ અને બીજો અવ્યવહારરાશી નિગોદ. તેમાં જે વાદર એકેન્દ્રિયપણો ભાવેં ત્રસપણો પામીને પાછા નિગોદમાં જાઈ પડ્યા છે તે નિગોદિયા જીવને

आगमसार.

१२३

व्यवहार राशिया कहियें, अने जे जीव कोइ पण काले निगोदमांथी निकल्या नथी ते जीव अव्यवहारराशीया कहियें अने इहां मनुष्य-पणार्थी जेटला जीव कर्म स्वपावीने एक समयमां मोक्ष जाय छे तेटला जीव तेज समये अव्यवहारराशी सूक्ष्म निगोदमांथी निकलीने उंचा आवे छे. जो दश जीव मोक्ष जाय तो दश जीव निकले. कोइक वेलाए भव्य जीव ओछा निकले तो ते ठेकाणे एक बे अभव्य निकले पण व्यवहारराशीमां जीव कोइ वधे घटे नहीं. एवा निगोदना असंख्याता लोक-मांहेला गोला ते छदिशीना आव्या पुद्गलने आहारादिपणे ले छे ते सकल गोला कहेवाय अने लोक अंतना प्रदेशे जे निगोदना

१२४

आगमसार.

गोला रह्या छे तेने त्रण दिशीना आहारनी फरशना छे माटे विकल गोला कहियें. ए सूक्ष्म निगोदमां पांच थावरना सूक्ष्म जीव ते सर्व लोकमां काजलनी कुंपलीनी पेरे भरया थका व्यापी रह्या छे अने साधारणपणो ते मात्र एक वनस्पतिमांज छे पण चार थावरमां नथी. ए सूक्ष्म निगोदमां अनंतु दुःख छे तेनुं उदाहरण कहे छे. सातमी नरकनुं आयुष्य तेत्रीस सागरोपमना जेटला समय थाय तेटला वखत सातमी नरकमां उत्कृष्टो तेत्रीस सागरोपमने आयुषे कोइक जीव उपजे तेटला (असंख्याता) भवमां जेटलुं छेदन भेदननुं दुःख थाय ते सर्व एकटुं करियें तेथी अनंतगणुं दुःख निगोदना जीव, एक समयमां भो-

આગમસાર.

૧૨૫

ગવે છે. દૃષ્ટાન્ત જેમ કોઈક મનુષ્યને સાડા
 ત્રણ ક્રોડ લોઠાની સુઝને અગ્નિથી તપાવીને
 કોઈક દેવતા સમકાલે चांपે તેને જે વેદના
 થાય તેથી અનંત ગુણી વેદના નિગોદ મધ્યે
 છે અને ભવ્ય જીવને નિગોદનું કારણ તે
 અજ્ઞાન દશા છે માટે તેહનો ત્યાગ કરો. એ
 નિગોદનો વિચાર કહ્યો. એ સર્વ પ્રમેયનો
 પ્રમાતા આત્મા પોતાના જ્ઞાન ગુણે કરી પ્રમેયનો
 પ્રમાણ કરે એ પ્રમેયપણો કહ્યો.

૬ સત્ત્વપણો. તે છ દ્રવ્ય એક સમયમાં
 ઉપજે વિણસે છે અને સ્થિરપણે છે. ઉત્પાદ
 વ્યય ધ્રુવપણો તેહિજ સત્ત્વપણો. ઉત્પાદ વ્યય-
 ધ્રુવયુક્તં સત્ત્વમ્ ઇતિ “ તત્ત્વર્થ વચનાત્ ” તે
 વિસ્તારથી કહી દેખાડે છે. જે ધર્માસ્તિકા-

૧૨૬

આગમસાર.

યના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે તિહાં એક પ્રદેશમાં
 અગુરુલઘુ અસંખ્યાતો છે અને બીજા પ્રદેશમાં
 અનંતો અગુરુલઘુ છે, ત્રીજા પ્રદેશમાં સંખ્યાતો
 અગુરુલઘુ છે એમ અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં અગુરુલ-
 ઘુપર્યાય ઘટતો વધતો રહે છે તે અગુરુલઘુ પર્યાય
 ચલ છે તે જે પ્રદેશમાં અસંખ્યાતો છે તે પ્રદેશમાં
 અનંતો થાય છે અને અનંતાને ઠેકાણે અસં-
 ખ્યાતો થાય છે એમ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત
 પ્રદેશમાં શરીરો સમકાલે અગુરુ લઘુ પર્યાય
 ફિરે છે તે જે પ્રદેશમાં અસંખ્યાતો ફિટીને
 અનંતો થાય છે તે પ્રદેશમાં અસંખ્યાતપણાનો
 વિનાશ છે અને અનંતપણાનો ઉપજવો છે અને
 અગુરુલઘુપણે ગુણ ધ્રુવ છે એમ ઉપજવો વિ-
 ણસવો અને ધ્રુવ એ ત્રણે પરિણામ છે. અધર્મા-

આગમસાર.

૧૨૭

સ્તિકાયમાં પળ એ ત્રણે પરિણામ અસંખ્યાત પ્રદેશે સદા સમય સમયમાં પરિણમી રહ્યા છે. તેમાં પળ ઉપજે વિણશે અને થિર રહે છે. એમ આકાશના અનંતા પ્રદેશમાં પળ એક સમયે ત્રણ પરિણામ પરિણમે છે અને જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે તે મધ્યે પળ ઉપજે વિણશે થિર રહે (છે.) તથા પુદ્ગલ પરમાણુમાં પળ સમયે સમયે થાય છે અને કાલનો વર્તમાન સમય ફિટીને અતીતકાલ થાય છે તો તે સમયમાં વર્તમાનપણાનો વિનાશ છે અને અતીતપણાનો ઉપજવો છે કાલ પળે ધ્રુવ છે. એ સ્થૂલ થકી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવપણો ક્રહો અને વસ્તુગતે મૂલપણે જ્ઞેયને પલટવે જ્ઞાનનો પળ તે ભાસનપણે પરિણમવો થાય

१२८

आगमसार.

ते पूर्व पर्याय भासननो व्यय अने अभि-
नव ज्ञेयना पर्याय भासननो उत्पाद तथा
ज्ञानपणानो ध्रुव ए रीते सर्व गुणना धर्मनी
प्रवृत्तिरूप पर्यायनो उत्पाद व्यय श्रीसिद्धभ-
गवन्तमां पण थइ रह्यो छे. एमज धर्मास्तिका-
यना प्रदेशे ते क्षेत्र गत पुद्गल तथा जीवने
पहेले समये असंख्यात चलन सहायीपणो
परिणमतो हतो अने बीजे समये अनन्त पर-
माणु तथा अनन्ता जीव प्रदेशने चलन सहायी
थयो तैवारं असंख्याता चलन सहायनो
व्यय अने अनन्ता चलन सहायनो उपजवो
अने गुणपणे ध्रुव एम धर्मद्रव्यमध्ये उत्पाद
व्यय थइ रह्यो छे. तेमज अधर्मादिक द्रव्यने
विषे पण भावबुं. तथा वली कार्य कारणपणे

आगमसार.

१२९

उत्पाद व्यय तथा अगुरुलघुना चलननो
 उत्पाद व्यय पंचास्तिकायने विषे कहेवो. तथा
 कालद्रव्य ते उपचार छे तेनुं स्वरूप सर्व
 उपचारथीज कहेवुं. ए रीते सर्व द्रव्यमां
 सत्पणो छे जो अगुरुलघुनो भेद न थाय
 तो पछे प्रदेशनो मांहोमांहि भेद केम थाय ? ते
 माटे अगुरुलघुनो भेद सर्वमां छे अने जेनो
 उत्पाद व्यय रूप सत्पणो एक छे ते द्रव्य
 एक छे. तथा जेनो उत्पाद व्यय सत् पणो
 जूदो ते द्रव्य पण जूदो छे एटले सत् केहतां
 सत्त्वपणो कह्यो.

६ अगुरुलघुपणो कहे छे. जे द्रव्यनो
 अगुरुलघु पर्याय छे ते छ प्रकारनी हानि
 वृद्धि करे छे. तेमां छ प्रकारनी वृद्धि छे.

५

१३०

आगमसार.

१ अनन्त भागवृद्धि, २ असंख्यातभागवृद्धि,
 ३ संख्यातभागवृद्धि, ४ संख्यातगुणवृद्धि,
 ५ असंख्यातगुणवृद्धि, ६ अनंतगुणवृद्धि. हवे
 छ प्रकारनी हानि कहे छे. १ अनंतभागहानि,
 २ असंख्यातभागहानि, ३ संख्यातभागहानि,
 ४ संख्यातगुणहानि, ५ असंख्यातगुणहानि,
 ६ अनंतगुणहानि. ए रीते छ प्रकारनी वृद्धि
 तथा छ प्रकारनी हानि ते सर्व द्रव्यमां सदा
 समय समय थइ रही छे. वृद्धि ते उपजवो
 अने हानि ते व्यय कहियें. ए अगुरुलघुपणो
 कह्यो. नहीं गुरु तथा नहीं लघु ते अगुरुलघु
 स्वभाव कहियें. ए सर्व द्रव्य मध्ये छे, ते श्री
 भगवती सूत्रें “ सव्वदव्वा सव्वगुणा सव्वप-
 एसा सव्वपज्जवा सव्वद्धा अगुरुलहुआए ”

आगमसार.

१३१.

अगुरुलघु स्वभावने आवरण नथी तथा आत्मा मध्ये जे अगुरुलघुगुण ते आत्माना सर्व प्रदेशे क्षायिक भाव थये सर्व गुण सामान्यपणे परिणमे पण अधिका ओछा परिणमे नही ते अगुरुलघुगुणनुं प्रवर्तन जाणवुं. ते अगुरुलघु गुणने गोत्रकर्म रोके छे ए अगुरुलघु स्वभाव ते सर्व द्रव्यमां छे.

हवे गुणनी भावना कहे छे. तिहां जेटला छे द्रव्यमां सरीखा गुण छे ते सामान्य गुण कहियें, अने जे गुण एक द्रव्यमां छे अने बीजा द्रव्यमां नथी ते विशेष गुण कहियें. जे गुण कोइक द्रव्यमां छे अने कोइक द्रव्यमां नथी ते साधारण असाधारण गुण कहियें. एम ए छ द्रव्यमां अनंतगुण, अनन्त पर्याय,

૧૩૨

આગમસાર.

અનન્ત સ્વભાવ સદા શાશ્વતા છે. જેમ શ્રી કેવલી ભગવંતે પ્રરૂપ્યા તે સર્વ જે રીતે છે તે રીતે સદ્દહના પૂર્વક યથાર્થ ઉપયોગથી શ્રુત-જ્ઞાનાદિકથી યથાર્થપણે જાણવા. સદ્દહવા એ નિશ્ચયજ્ઞાન મોક્ષનું કારણ છે. જે જીવ જ્ઞાન પામ્યો તે જીવ વિરતિ કરે છે તે ચારિત્ર કહિયે. જ્ઞાનનું ફલ વિરતિપણો છે તે મોક્ષનું તત્કાલ કારણ છે.

હવે નિશ્ચય ચારિત્ર અને વ્યવહાર ચારિત્રનો વિચાર કહે છે. તેમાં પ્રથમ વ્યવહાર ચારિત્ર તે જે પ્રાણાતિપાતવિરમણ પ્રમુખ પંચ-મહાવ્રતરૂપ તે સર્વ વિરતિ કહિયે અને સ્થૂલ-પ્રાણાતિપાતવિરમણ વ્રતાદિક શ્રાવકના વાર વ્રત તે દેશ વિરતિ ચારિત્ર જાણવું. એ વ્યવ-

आगमसार.

१३३

हार चारित्र सुखनुं कारण छे एवी करणीरूप
 श्रावकना वार व्रत अने यतिनां पांच महाव्रत
 ते अभव्यने पण आवे तेथी देवतानी गति
 पामे पण सकाम निर्ज्जरानुं कारण न थाय.
 इहां कोइ पूछे के मोक्षनुं कारण नथी तो
 एटलुं कष्ट शा वास्ते करियें ? तेने उत्तर जे
 त्याग बुद्धि निश्चय ज्ञान सहित चारित्र
 ते मोक्षनुं कारण छे माटे निश्चय चारित्र स-
 हित व्यवहार चारित्र पालवुं ते निश्चय चारित्र
 कहे छे. शरीर, इन्द्रिय, विषय, कषाय, योग
 ए सर्व परवस्तु जाणी छोडवा तथा आहार
 ते पुद्गल वस्तु जाणी छांडवो. आत्मा अणा-
 हारी छे ते माटे मुजने आहार करवो घटे
 नहीं. आहार ते पुद्गल छे, आत्मा अपुद्गली

૧૩૪

આગમસાર.

છે તે માટે ત્યાગ કરવો. તદ્દૂપ જે તપ તે તપ નિશ્ચય ચારિત્રમાં જાણવું. ચારિત્ર કહેતાં ચંચલતા રહિત ધિરતાના પરિણામ અને આત્મસ્વરૂપને વિષે એકત્વપણે રમણ તન્મયતા સ્વરૂપ વિશ્રાંતિ તત્ત્વાનુભવ તે ચારિત્ર કહિયેં. તે ચારિત્રના બે ભેદ છે એકુ દેશવિરતિ, બીજું સર્વ વિરતિ. તિહાં દેશ વિરતિ કહેતાં શ્રાવકનાં વાર વ્રત તે વાર વ્રત નિશ્ચય તથા વ્યવહારથી કહે છે.

૧ પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત તે પરજીવને આપણા જીવ સરીખો જાણી સર્વ જીવની રક્ષા કરે તે વ્યવહાર દયા થઈ માટે વ્યવહાર પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત જાણવું અને જે આપણો જીવ કર્મ વશ પડ્યો દુઃખી થાય છે

आगमसार.

१३५

ते आपणा जीवने कर्मबंधनथी मुकावुं अने आत्म गुण रक्षा करी गुण वृद्धि करवी ते स्वदया बंधहेतु परिणति निवारि स्वरूप गुणने प्रगटपणे करवा जे गुण प्रगट थयो ते राखवो एटले ज्ञाने करी मिथ्यात्व टाली आपणा जीवने निर्मल करे ते निश्चयथी प्राणातिपात विरमण व्रत कहियें.

२ मृषावाद विरमणव्रत कहे छे. जूढुं वचन बिलकुल बोलवुं नही ते व्यवहार मृषावाद विरमणव्रत, हवे निश्चय कहे छे जे पर पुद्गलादिक वस्तुने आपणी कहेवी ते मृषावाद वचन छे. अने जीवने अजीव कहे तथा अजीवने जीव कहे इत्यादिक अज्ञान ते भाव मृषावाद छे. अथवा सिद्धान्तना अर्थ खोटा

१३६

आगमसार.

कहे ए मृषावाद जेणे छांड्यो ते निश्चय मृषा-
 वाद विरमणव्रत कहियें, एटले बीजा अदत्ता-
 दानादिक व्रत जो भांजे (भांगे) तो तेनो
 मात्र चारित्र भंग थाय पण ज्ञान दर्शननो
 भंग न थाय अने जेणे निश्चय मृषावाद
 विरमणनो भंग करचो तेणे समकित तथा
 ज्ञान अने चारित्र ए व्रणेनो भंग करचो.
 तथा आगमसां एम कहुं छे जे एक साधुयें
 चोथो व्रत भंग करयो अने एक साधुयें बीजो
 मृषावाद व्रत भंग करचो तो जेणे चोथो व्रत
 भंग करचो ते आलोयण लेइ शुद्ध थाय पण
 जे सिद्धान्तना अर्थनो मृषा उपदेश आपे ते
 आलोयण लीधे पण शुद्ध थाय नहीं.

३ अदत्तादान विरमण व्रत कहे छे.

आगमसार.

१३७

जे पारकुं धन वस्तु छुपावे; चोरी करे; ठग-बाजी करी लीये ते चोरी छे, एटले पारकी वस्तु धणीना दीधा विना लेवी नही ए व्यवहारथी अदत्तादानविरमण व्रत जाणवुं अने जे पांच इंद्रियना त्रेवीस विषय, आठ कर्म-वर्गणा इत्यादिक परवस्तु लेवी नहीं तथा तेनी वांछा न करवी ते आत्माने अग्राह्य छे माटे ते निश्चयथी अदत्तादानविरमण व्रत कहियें. इहां कोइ पूछे जे विषयनी अने कर्मनी वांछा कोण करे छे ? तेने उत्तर जे पुण्यने भेलो लेवा योग्य कहे छे ते जीव कर्मनी वांछा करे छे. जे पुण्यना ४२ भेद छे ते चार कर्मनी शुभ प्रकृति छे एटले जे व्यवहार अदत्तादान तो नथी लेता पण अंतरंग

૧૩૮

આગમસાર.

પુણ્યાદિકની વાંછા છે તેને નિશ્ચય અદત્તાદાન લાગે છે.

૪ મૈથુન વિરમણવ્રત કહે છે. જે પુરુષ પરસ્ત્રીનો પરિહાર કરે તથા જે સ્ત્રી પરપુરુષનો પરિહાર કરે. ઇહાં સાધુને સ્ત્રીનો સર્વથા ત્યાગ છે અને ગૃહસ્થને પરણેલી સ્ત્રી મોકલી છે. પરસ્ત્રીનો પચ્ચસ્વાણ છે તે વ્યવહારથી મૈથુનનું વિરમણ કહિયે અને જે વિષયના અભિલાષનું તથા મમતા તૃષ્ણાનો ત્યાગ, પરભાવ વર્ણાદિક પરદ્રવ્યના સ્વામિત્વાદિક તેનો અભોગીપણો આત્મા સ્વગુણ જ્ઞાનાદિકનો ભોગી છે અને એ પુદ્ગલસ્વંધ તે અનંતા જીવની ઇંઠ છે તેને કેમ ભોગવે? એ રીતે ત્યાગ નિશ્ચયથી મૈથુન વિરમણ કહિયે. જેણે બાહ્ય વિષય છાંડ્યો છે અને

आगमसार.

१३९

अंतरंग लालच छुटी नहीं तो तेहने ते मैथु-
नना कर्म लागे छे.

५ परिग्रह परिमाणव्रत कहे छे. परिग्रह
धन-धान्य-दास-दासी-चतुष्पद-जमीन-वस्त्र
आभरणनो त्याग तेमां साधुने तो सर्वथा
परिग्रहनो त्याग छे तथा श्रावकने इच्छा
परिमाण छे जेटछी इच्छा होय तेदलो परि-
ग्रह मोकलो राखे. बीजानी विरति करे ए
व्यवहारथी कह्यो अने जे भाव कर्म रागद्वेष
अज्ञान द्रव्य कर्म ज्ञानावरणोय प्रमुख आठ
कर्म अने शरीर इन्द्रियनो परिहार एटले
कर्मने जाणी छांडवो ते निश्चयथी परिग्र-
हनो त्याग एटले परवस्तुनी मूर्छा छांडवी
जेणे मूर्छा छोडी तेणे परिग्रह छोडथोज

૧૪૦

આગમસાર.

છે એમ જાણવું.

૬ દિશિપરિમાણ વ્રત કહે છે. તિહાં તિરછિ ચાર દિશી પાંચમી અધો છટ્ટી ઉર્ધ્વ એ છ દિશિના ક્ષેત્રનો માનકરી મોકલો રાખે તે વ્યવહારથી દિશિપરિમાણ કહિયેં અને ચાર-ગતિમાં ભટકવું તે કર્મનું ફલ છે એમ જાણી તેથી ઉદાસીપણો અને સિદ્ધ અવસ્થા (નો) શું ઉપાદેયપણો તે નિશ્ચય દિશિપરિમાણ વ્રત કહિયેં.

૭ ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રત કહે છે. જે એકવાર ભોગવવું તે ભોગ અને જે વારંવાર ભોગવવું તે ઉપભોગ તેનો પરિમાણ કરે તે વ્યવહાર ભોગોપભોગવ્રત કહિયેં, અને જે વ્યવહારતયેં કર્મનો કર્તા ભોક્તા જીવ છે અને

आगमसार.

१४१

निश्चयनये तो कर्मनो कर्त्ता कर्म छे. आत्मा अनादिनो परभाव भोगी थयो छे तेथी परभावग्राहक अने परभावरक्षक थयो एटले आत्मानी ज्ञायकता, ग्राहकता, भोग्यता, रक्षकता बीगडे कर्त्ता पणो बीगड्यो तेवारें परभाव कर्त्ता थयो तेथी परभाव रंगीपणें आठ कर्मनो कर्त्ता थयो छे पण सत्तार्यें तो स्वभावनो कर्त्ता छे पण उपकरण अवरणा तेथी स्वकार्य करी शकतो नथी. विभावने करे छे, अज्ञानपणे जीवनो उपयोग मल्यो छे. पोताना ज्ञानादिक गुणनो कर्त्ता भोक्ता छे एहवो स्वरूपानुयायी परिणाम ते निश्चयभोगोपभोगव्रत त्याग जाणवो.

८ अन्तर्दण्डविरमणव्रत कहे छे. काम

૧૪૨

આગમસાર.

વિના જીવનો વધ કરવો. પારકા વાસ્તે આરંભ પ્રમુખ કરવાની આજ્ઞા પ્રમુખ આપવી તે વ્યવહાર અનર્થદંડ અને શુભાશુભ કર્મ તે મિથ્યાત્વ અવિરતિ કષાય યોગથી વંધાય છે તેને જીવ આપણા કરી જાણે એ નિશ્ચયથી અનર્થદંડ.

૯ સામાયિક વ્રત કહે છે. જે મન વચન કાયાને આરંભથી ટાલીને તેને નિરારંભપણે વત્તવે તે વ્યવહાર સામાયિક જાણવો. અને જે જીવ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ગુણ વિચારે સર્વ જીવ સત્તા ગુણ એકસમાન જાણી સર્વ સ્યું સમતાપરિણામ તે નિશ્ચય સમતારૂપ સામાયિક કહિયેં.

૧૦ દેશાવગાશિક વ્રત કહે છે. જે મન

आगमस्तार.

१४३

वचन काय योग एक ठोर करी एकस्थानकें
बेसी धर्म ध्यान करवो ते व्यवहार देशावगा-
शिक कहियें अने जे श्रुतज्ञाने करी छ द्रव्य
ओलखीने पांच द्रव्यनो त्याग करे अने ज्ञान-
वंत जीवने ध्यावे ते निश्चय देशावगाशिक व्रत
कहियें.

११ पौषध व्रत कहे छे. जे चार पहोर
अथवा आठ पहोर सुधी समता परिणामे
सावद्य छोडी निरारंभपणे सझायध्यानमां प्र-
वर्ते ते व्यवहार पोशह कहिये अने पोताना
जीवने ज्ञान ध्यानथी पोषाने पुष्ट करे ते निश्च-
यथी पौषध व्रत कहियें. जीवने पोताना स्व-
गुणे करी पोषीजे तेणे पौषध कहियें.

१२ अतिथिसंविभाग व्रत कहे छे. जे

૧૪૪

આગમસાર.

પોશહને પારણે અથવા સદા સર્વદા સાધુને તથા જૈનધર્મિશ્રાવકને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દાન દેવું તે વ્યવહાર અતિથિસંવિભાગ કહિયેં અને પોતાના જીવને અથવા શિષ્યને જ્ઞાનનું દાન તે ભણવું, ભણાવવું, સુણવું સુણાવવું, તે નિશ્ચયથી અતિથિસંભાગ વ્રત કહિયેં એટલે શ્રાવકના બાર વ્રત કહ્યાં તે સમકિત સહિત જે નિશ્ચય તથા વ્યવહારથી બાર વ્રત ધારે તે જીવને પાંચમે ગુણઠાણે દેશવિરતિ શ્રાવક કહિયેં. દેશ કેહતાં દેશથકી થોડીશી વ્રતિપણો છે માટે અને યતિને સર્વથી વ્રતિપણો છે તેથી પાંચ મહાવ્રત છે. સાધુને પાંચ મહાવ્રતમાં સર્વ વ્રત આવ્યાં. એ નિશ્ચય ત્યાગરૂપ જ્ઞાન ધ્યાન સંવર નિર્જરામાં ધિરતાના પરિ-

आगमसार.

१४६

णाम ते निश्चय चारित्र तेना एक उत्सर्ग
बीजो अपवाद ए बे मार्ग छे तेमां जे उत्कृष्ट
तीक्ष्ण परिणाम ते उत्सर्ग राखवाने कारण-
रूप ते अपवाद-उक्तंच ॥ “ संघरणंमि अ-
सुद्धं, दुन्नवि गिन्ह तदेतयाणहियं ॥ आउर
दिष्टं तेणं, ते चेवहीयं असंघरणे ” ॥ १ ॥
एटले ज्यां सुधी साधक भावने बाधक न
पढे त्यां सुधी जेहनी ना कही ते आदरवो
नही अने जो साधक परिणाम रहेता न दीठा
तेवारे जेहनी ना ते आचरे तेने अपवाद मार्ग
कहियें. जे आत्मगुण राखवाने करवो ते
अपवाद अने गुणीने रागे भक्तियें करवो ते
प्रशस्त ए बे तो साधन छे अने जे औदयि-
कने अखमवार्थी करवुं ते अतिचार छे तथा

१४६

आगमसार.

सबलो अने औदयिक माटे, आसक्तपणे करवुं ते पडिवाइ छे ते मध्ये अपवाद मार्ग ते परिणाम दृढ रहे तेम आज्ञायें करवो.

हवे चार ध्यान कहे छे. १ आर्तध्यान, २ रौद्रध्यान, ३ धर्मध्यान, ४ शुक्रध्यान. तिहां पहेला बे ध्यान ते अशुभ कहियें अने पाछला बे ध्यान ते शुभ छे. जे एक ध्येयने विषे अंतर् मुहूर्त चित्तनो उपयोगनो तन्मय एकाग्रपणे थीर रहेवो ते ध्यान अने केवलीने योगनो रोकवो ते ध्यान उक्तंचः अंतो मुहूर्ता मित्ता चित्तावस्थाणमेग वथ्युम्भि, छउमत्थाणं ज्ञाणं, जोगनिरोहो जिणाणंतु. तिहां मनमां आहट्ट दोहट्टना परिणाम ते आर्तध्यान कहियें तेना चार पाया छे. १ भाइ,

आगमसार.

१४७

मित्र, सज्जन, माता, पिता, स्त्री, पुत्र, धन, प्रमुख इष्ट वस्तुनो वियोग थयाथी विलाप करे ते पहेली इष्ट वियोगनामा आर्तध्यान तथा २ अनिष्ट जे भुंडां दुःखनां कारण, दुश्मन दरिद्रीपणो, तथा कुपुत्रादि मलवाथी मनमां दुःख चिंता उपजे ते अनिष्ट संयोग नाम आर्तध्यान. ३ शरीरमां रोग उपना थका दुःख करे, चिंता घणी करे ते 'रोगचिंतानाम आर्तध्यान. ४ मनमां आगलना वखतनो शोच करे जे आ वर्षमां आ काम करशुं, आवता वर्षमां अमुक काम करशुं तो अमुक लाभ थशे अथवा दान शील तपनुं फल मांगे जे आ भवमां तप कीधो छे माटे आवते भवें इंद्र चक्रवर्तिनी पदवी मले एहवी आगला

१४८

आगमसार.

भवनी वांच्छा ते अग्रशोचना परिणाम उपजे अथवा नियाणानो करवो ते निदान आर्त-ध्यान कहीये, ए धर्म करणीनां फलनुं नियाणुं समकित्ती न करे. ए आर्तध्याननो चोथो पायो जाणवो. ए आर्तध्यानना चार भेद क्हा ए तिर्यंच गतिना कारण छे. ए ध्यानना परिणाम ते पांचमा अथवा छटा गुण-ठाणा सुधी होय.

२ जे कठोर परिणामनुं चितवन ते रौद्रध्यान. तेना चार भेद छे. ? जीवहिंसा करीने हर्ष पामे अथवा वीजो कोइ हिंसा करतो होय तेने देखी खुशी थाय अथवा युद्धनी अनुमोदना करे ते हिंसानुबंधी रौद्रध्यान. २ जूठुं ब्रोलीनें मनमां हर्ष पामे के

आंगमसारं.

१४९

जुओ में केवो कपट केळव्यो. मारा जूठाप-
 णानी खबर कोइने पडी नहीं, एवो मृषावाद
 रूपपरिणामते मृषानुबंधी रौद्रध्यान. ३ चोरी
 करी अथवा ठगाइ करी मनमां खुशी थाय
 के मारा जेवो जोरावर कोण छे, हुं पारको
 माल खाऊं छुं एवो परिणाम ते चौरानुबंधि
 रौद्रध्यान. ४ परिग्रह धन धान्य परिवार
 घणो वधवानी लालच होय ते धन अथवा
 कुटुंबने माटे गमे तेवुं पाप करे अथवा घणो
 परिग्रह मिल्याथी अहंकार करे ते परिग्रहरक्ष-
 णानुबंधी रौद्रध्यान. ए रौद्रध्यानना चार
 भेद कहा. ए ध्यान नरक गति पमाडवानुं
 कारण छे. महा अशुभकर्मनुं कारण छे. ए
 पापमा गुणठाणा सुधी छे अने छेहे गुणठाणे

૧૬૦

આગમસાર.

પણ એક હિંસાનુબંધીરૌદ્રધ્યાનના પરિણામ કોઈક જીવને હોય.

હવે ધર્મધ્યાન કહે છે. જે વ્યવહાર ક્રિયારૂપ તે કારણ ધર્મ તથા શ્રુતજ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ઉપાદાનપણે સાધન ધર્મ તથા રત્નત્રયી ભેદપણે તે ઉપાદાન શુદ્ધ વ્યવહાર ઉત્સર્ગાનુયાયી તે અપવાદ ધર્મ જાણવો અને અભેદ રત્નત્રયી તે સાધન શુદ્ધ નિશ્ચયનયે ઉત્સર્ગ ધર્મ અને (ધમ્મો વત્થુ સહાવો) જે વસ્તુનો સત્તાગત શુદ્ધ પારિણામિક સ્વગુણ પ્રવૃત્તિ કર્ત્રાદિક અનંતાનંદ રૂપ સિદ્ધાવસ્થાયે રહ્યો તે એવંભૂત ઉત્સર્ગ ઉપાદાન શુદ્ધધર્મ, તે ધર્મનું ભાસન રમણ એકાગ્રપણે ચિંતન તન્મયતાનો ઉપયોગ એકત્વનો ચિંતવવો તે ધર્મ

आगमसार.

१५१

ध्यान कहियें. तेना पाया चार छे ते कहे छे.

१ आज्ञाविचयधर्मध्यान ते जे वीतराग देवनी आज्ञा साची करी सहहे एटले भगवंते छ द्रव्यनुं स्वरूप नय प्रमाण निक्षेपा सहित सिद्ध स्वरूप, निगोद स्वरूप जे कहा तेम सहहे, वीतरागनी आज्ञा नित्य अनित्य स्याद्वादपणे निश्चय व्यवहारपणे माने सहहे ते आज्ञा प्रमाणे यथार्थ उपयोग भासन थयो तेने हर्षे करी ते उपयोग मध्ये निर्धार, भासन, रमण अनुभवता, एकता, तन्मयपणो ते आज्ञाविचय धर्मध्यान कहियें.

२ अपायविचयधर्मध्यान ते जीवमां अशुद्धपणे कर्मना योगथी संसारी अवस्थामां अमेक अपाय कहेतां दूषण छे ते अज्ञान,

१५२

आगमसार.

राग, द्वेष, कषाय, आस्रव ए मारा नथी. हुं
 एथकी न्यारो छुं. हुं अनंतज्ञान, दर्शन,
 चारित्र, वीर्यमयी, शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी
 छुं. अज, अनादि, अनंत, अक्षर, अनक्षर,
 अचल, अकल, अमल, अगम्य, अनामी,
 अरूपी, अकर्मा, अबंधक, अनुदय, अनु-
 दीरक, अयोगी, अभोगी, अभेदी, अवेदी,
 अछेदी, अखेदी, अकषायी, असखाइ, अले-
 शी, अशरीरी, अणाहारी, अव्याबाध, अन-
 वगाही, अगुरुलघु, अपरिणामी, अतीन्द्रिय,
 अप्राणी, अयोनि, असंसारी, अमर, अपर,
 अपरंपार, अव्यापी, अनाश्रित, अकंप, अ-
 विरुद्ध, अनाश्रव, अलख, अशोकी. असंगी,
 लोकालोकज्ञायक, एवो शुद्ध चिदानंद मारो

आगमसार.

१५३

जीव छे, एहवो एकाग्रतारूप ध्यान ते अपा-
यविचयधर्मध्यान जाणवो.

३ विपाकविचय धर्मध्यान कहे छे. जे
एहवो जीव छे तोपण कर्मवशें दुःखी छे ते
कर्मनो विपाक चितवे जे जीवनो ज्ञानगुण ते
ज्ञानावरणीय कर्म दाब्यो छे अने दर्शना-
वरणीय कर्म दर्शनगुण दाब्यो छे, एम आठ
कर्म जीवना आठ गुण दाब्या छे एटले आ
संसारमां भमतां थकां जीवने जे सुखदुःख छे
ते सर्व कर्मनां कीधां छे. माटे सुख उपने रा-
चवुं नही अने दुःख उपने दिलगीर थवुं नही.
कर्म स्वरूपनी प्रकृति, स्थिति, रस, अने
प्रदेशनो बंध, उदय, उदीरणा, तथा सत्ता,
चितवन एकाग्रता परिणाम ते विपाकविचय

૧૫૪

આગમસાર.

ધર્મધ્યાન.

૪ સંસ્થાનવિચયધર્મધ્યાન કહે છે. તે ચૌદ રાજમાન લોકનું સ્વરૂપ વિચારે જે એ લોક તે ચૌદરાજ ઝંચો છે તે મધ્યે સાતરાજ અધોલોક છે. વિચમાં અઠારસો યોજન મનુષ્ય ક્ષેત્ર ત્રિછો લોક છે તે ઊપર કાંઈક ઊળો સાતરાજ ઊર્ધ્વલોક છે તેમાં સર્વ વૈમાનિક દેવતા વસે છે અને ઊપરે સિદ્ધ શિલા સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે. એ રીતે લોકનું પ્રમાણ છે. એ લોકનું સંસ્થાન વૈશાખ છે. અનંતો કાલ આપણા જીવે સંસારમાં ભ્રમતાં સર્વ લોકને જન્મ મરણ કરી ફરસ્યો છે, એવું જે લોક સ્વરૂપ તથા લોકને વિષે પંચાસ્તિકાયનું અવસ્થાન તથા પરિણમન દ્રવ્ય મધ્યે ગુણપર્યાયનું અવસ્થાન

आगमसार.

१५५

तेनो जे एकाग्रताये तन्मयचितवन परिणाम एहवुं जे ध्यान ते संस्थान विचय धर्मध्यान कहियें. ए धर्मध्यानना चार पाया कहा. ए धर्मध्यान चोथा गुणठाणाथी मांडीने सातमा गुणठाणा सुधी छे.

हवे शुक्लध्यान कहे छे. शुक्ल केहतां निर्मल, शुद्ध, पर आलंबन विना आत्माना स्वरूपने तन्मयपणे ध्यावे एहवुं ध्यान तेने शुक्लध्यान कहियें. तेहना पाया चार छे ते कहे छे.

१ पृथक्त्ववितर्कसप्रविचार-ते पृथक्त्व केहतां जीवथो अजीव जूदा करवा, स्वभाव विभाव तेने जूदा पृथक्पणे वहेचण करवी स्वरूपने विषे पण द्रव्य तथा पर्यायनो पृथक्-

૧૫૬

આગમસાર.

પણે ધ્યાન કરી, પર્યાય તે ગુણમાં સંક્રમાણે અને ગુણ તે પર્યાયમાં સંક્રમણ કરે એ રીતે સ્વધર્મને વિષે ધર્મોત્તરભેદ તે પૃથક્ત્વ કહિયેં અને તેનો વિતર્ક તે જે શ્રુતજ્ઞાને સ્થિત ઉપ-યોગ અને સપ્રવિચાર તે સવિકલ્પોપયોગ એટલે એક ચિંતવ્યા પછી બીજો ચિંતવવો તેને વિચાર કહિયેં એટલે નિર્મલ વિકલ્પ સહિત પોતાની સત્તાને ધ્યાણે તે પૃથક્ત્વ વિતર્કસપ્રવિચાર પેહેલો પાયો એ આઠમા ગુણઠાણાથી માંડી અગ્યારમા ગુણઠાણા સુધી છે.

૨ એકત્વ વિતર્કઅપ્રવિચાર નામા બીજો પાયો કહે છે. જે જીવ આપણા ગુણપર્યાયની એકતા કરી ધ્યાણે તે આવી રીતે કે જીવના ગુણપર્યાય અને જીવ તે એકજ છે, અને મહારો

आगमसार.

१६७

जीव सिद्धस्वरूप एकज छे एवो एकत्व स्वरूप तन्मयपणे अनंता आत्म धर्मनो एकत्वपणे ध्यानवितर्क केहतां श्रुतज्ञानावलंबीपणे अने अप्रविचार केहतां विकल्प रहित दर्शन ज्ञाननो समयांतरें कारणता विना रत्नत्रयीनो एक समयी कारण कार्यतापणे जे ध्यान वीर्य उपयोगनी एकाग्रता ते एकत्ववितर्क अप्रविचार जाणवो. ए पायो बारमा गुणठाणे ध्यावे. ए बेहु पायामां श्रुतज्ञानावलंबनीपणो छे. पण अवधि मनःर्षयव ज्ञानोपयोगें वर्तता जीव कोइ ध्यान करी सके नहीं, ए बे ज्ञान परानुयायी छे. माटे ए ध्यानथी घनघातियां चार कर्म खपावे. निर्मल केवल ज्ञान पामे पछे तेरें गुणठाणे ध्यानंतरीकापणे वर्त्ते छे. तेर-

१५८

आगमसत्तार.

माना अंते अने चउदमे गुणठाणे बाकीना बे पाया ध्यावें.

३ सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपति पायो कहे छे. ते सूक्ष्म मन, वचन कायाना योग रुंधे, शैलेशी करण करी अयोगी थाय ते जे अप्रतिपाति निर्मलवीर्य अचलतारूप परिणाम ते सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाति ध्यान जाणवुं. इहां सत्ताये ८५ प्रकृति रही हती ते मध्ये ७२ खपावे.

४ उच्छिन्नक्रियानुवृत्ति पायो कहे छे. जे योग निरुंध कीधा पछे तेर प्रकृति खपावे, अकर्मा थाय, सर्व क्रियाथी रहित थाय ते, समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान कहियें. ए ध्यान ध्यावतां शेष, दल, खरणरूप क्रिया

आगमसार.

१५९

उच्छेदे, अवगाहना देहमानमांथी त्रीजो
 भाग घटाडे, शरीर मूकी इहांथी सातराज
 ऊपर लोकने अंते जाय, सिद्ध थाय. इहां
 शिष्य पूछे जे चौदमे गुणठाणे तो अक्रिय छे,
 तो सात राज उंचो गयो ए क्रिया केम करे
 छे ? तेने उत्तर जे सिद्ध तो अक्रिय छे, परंतु
 पूर्व प्रेरणायें तुंबीने दृष्टान्ते जीवमां चालवानो
 गुण छे. धर्मास्तिकायमध्ये प्रेरणा गुण छे,
 तेथी कर्मरहित जीव मोक्षे जतां लोकने अंते
 जइ रहे. इहां कोइ पूछे जे आगळ उंचो अ-
 लोक छे तिहां किम जातो नथी ? तेने उत्तर
 जे आगळ धर्मास्तिकाय नथी माटे न जाय.
 वली कोइ पूछे जे तो अधोगतियें अथवा
 तिरच्छी गतियें केम नथी जातो ? तेने

१६०

आगमसार.

उत्तर जे कर्मना भारथी रहित थयो, हल्लबो थयो, माटे नीचो तथा डाबो जिमणो न जाय, कारण के प्रेरक कोइ नथी तथा कंपे नही केमके अक्रिय छे माटे तथा कोइ पूछे जे सिद्धने कर्म केम लागता नथी ? तेने कहे छे जे कर्म तो जीवने अज्ञानथी तथा योगथी लागे छे, ते सिद्धना जीवने अज्ञान तथा योग नथी, माटे कर्म लागे नही. ए चार ध्याननो अधिकार कह्यो.

हवे वली बीजा चार ध्यान कहे छे. १ पदस्थ, २ पिंडस्थ, ३ रूपस्थ, ४ रूपातीत. तेमां पहेलुं पदस्थ ध्यान कहे छे. जे अरि-हंतादीक पांच परमेष्ठीना गुण संभारे, तेनो चित्तमां ध्यान करे ते पदस्थध्यान. २ पिं-

आगमसार.

१६१

इस्थ केहतां शरीरमां रह्यो जे आपणो जीव
 तेमां अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय
 अने साधुपणाना गुण सर्व छे एहवो जे ध्यान
 ते पिंड कहेतां जीव द्रव्य अथवा आकार
 अथवा स्थापना तेनु अवलंबन पांमी गुणीना
 गुण मध्ये एकत्वता उपयोग करवो ते पिंडस्थ
 ध्यान. ३ रूपमां रह्यो थको पण ए मारो
 अरूपी अनंत गुणी छे, जे वस्तुनो स्वरूप
 अतिशयावलंबी थया पछे आत्मानुं रूप एक-
 तापणो एहवो जे ध्यान ते रूपस्थध्यान. ए
 व्रण ध्यान धर्म ध्यानमां गणवां. ४ निरंजन,
 निर्मल, संकल्पविकल्प रहित अभेद एक
 शुद्ध सत्तारूप चिदानंद तत्त्वामृत, असंग,
 अखंड, अनंतगुण पर्यायरूप, आत्मस्वरूपनुं

१६२

आगमसार.

ध्यान ते रूपातीत ध्यान जाणवुं. इहां मार्ग-
णागुणठाणा नयप्रमाण मति आदिक ज्ञान
क्षयोपशमभाव सर्व छांडवा योग्य थया. एक
सिद्धना मूल गुणने ध्यावे ते रूपातीत ध्यान
जाणवो एटले मोक्षनुं कारण जे ध्यान ते
कसुं.

हवे भावना कहे छे. तेमां धर्म ध्याननी
चार भावना कहे छे. १ मैत्री भावना ते सर्व
जीव साथे मित्रतानो भाव चितववो, सर्वनुं
भलुं चाहवुं पण कोइनुं माठुं चितववुं नही.
सर्व जीव ऊपर हित बुद्धि राखवी ते मैत्री
भावना. २ गुणवंत अने ज्ञानादिक गुण
ऊपरें राग जे गुणी श्री अरिहंतादिकनो

आगमसत्तार.

१६३

योग मिल्ये जे अनंत गुण मोक्षना कारण तत्त्वभोगी तत्त्वविलासी एवा अद्भुत प्रभुजी अहो प्रभुजी अहो प्रभुजीनी उपकारता अहो प्रभुनी निःसंगता एहवो जे परिणाम ते अद्भुतता वली दुःखे करी मोहाधीन मोहमयी पुद्गल रंगी पराधीन मने एहवा परमात्मा प्रभु अथवा यथार्थ वादी गुरु तथा स्याद्वाद धर्मनो योग मिल्यो, आज मुजने चिंतामणिनी कोडी मिलि. आज माहरा मननो ममोरथ सफल थयो, एहवी आश्चर्यता तथा वली रखे मने एहवा कारणनो विरह पडे एहवो कायरता परिणाम ते बीजी प्रमोदभावना. ३ जे धर्मवंत ऊपर राग अने मिथ्यात्वी ऊपर राग नही तेम द्वेष पण

१६४

आगमसार.

नही कारण के हिंसक ऊपरें पण उत्तम जीवने करुणा ऊपजे. जो उपदेश थकी सारा मार्गें आवे तो तेने शुद्ध मार्गें आणवो, कदाचित् मार्गें न आवे तो पण द्वेष न राखवो केमके ते अजाण छे एम समजवुं एहवा जे परिणाम ते मध्यस्थ भावना. ४ सर्व जीवने पोताने तुल्य जाणी दया पाले, कोइने हणे नहीं तथा जे दुःखी अथवा धर्महीन तेना जीव उपर करुणा तेना दुःख टाळवानो परिणाम तथा धर्महीन जीव देखीने एवो चितवे जे ए जीव किवारें धर्म पामशे, यथार्थ आत्मसाधन पामी स्वरूप धर्मने किवारें (क्यारे) अवलंबशे एवो परिणाम ते चोथी करुणा केहतां दया भावना. ए चार भावना कही.

आगमसार.

१६५

१ हवे बार भावना कहे छे. शरीर, कुटुंब, धन, परिवार सर्व विनाशी छे. जीवनो मूल धर्म अविनाशी छे. एम चिंतववुं ते पहेली अनित्य भावना. २ संसारमां मरण समये जीवने शरण राखनार कोइ नथी. एक धर्मनो शरण छे एवुं चिंतववुं ते बीजी अशरण भावना. ३ मारा जीवे संसारमां भ्रमतां सर्व भव कीधा छे ए संसारथी हुं केवारें छुटीश, ए संसार मारो नथी, हुं मोक्षमयी छुं एम विचारवुं ते त्रीजी संसार भावना. ४ ए माहरो जीव एकलो छे, एकलो आव्यो, एकलो जशे, पोतानां करेलां कर्म एकलो भोगवशे एम चिंतववुं ते चोथी एकत्व भावना. ५ आ संसारमां कोइ कोइनो नथी

१६६

आगमसार.

एम चित्तववुं ते पांचमी अन्यत्व भावना. ६
 आ शरीर अपवित्र मलमूत्रनी खाण छे, रो-
 ग-जराथी भरचो छे, ए शरीरथी हुं न्यारो
 हुं, एम चित्तववो ते छठी अशुचि भावना.
 ७ रागद्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व प्रमुख सर्व
 आस्रव छे, एम चित्तववुं ते सातमी आस्रव
 भावना. ८ ज्ञानध्यानमां वर्त्ततो जीव नवां
 कर्म बांधे नहीं ते आठमी संवर भावना. ९
 ज्ञान सहित क्रिया ते निर्ज्जरानुं कारण छे, ते
 नवमी निर्ज्जरा भावना. १० चउदराज लो-
 कनुं स्वरूप विचारवुं ते दशमी लोकस्वरूप
 भावना. ११ संसारमां भमता जीवने समकित
 ज्ञाननी प्राप्ति पामवी (थवी) दुर्लभ छे, अथवा
 समकित पाम्यो पण चारित्र सर्व विरति प-

आगमसार.

१६७

रिणाम रूप. धर्म पामवो दुर्लभ छे ते अग्या-
रमी बोधिदुर्लभ भावना. १२ धर्मना कहेण-
हार (कथक) गुरु तथा शुद्ध आगमनुं सां-
भलवुं एहवी जोगवाइ मलवि दोहेली छे ते
बारमी धर्मदुर्लभ भावना. एटले बार भावना
कही. ए चारित्रनुं स्वरूप संपूर्ण कह्यं.

एवो समकित सहित ज्ञानचारित्रनुं ते
कारण छे, तेना उपर भव्य प्राणीयें उद्यम
करवो. अने जो तेवुं ज्ञानचारित्र नही पले
तोपण श्रेणिक राजानी पेरे सहहणा शुद्ध
राखजो. जो समकित शुद्ध छे तो मोक्ष नजी-
क छे. समकित दिना ज्ञानध्यान क्रिया सर्व
विःफल छे एम आगममां कह्यो छे.

૨૬૮

આગમસાર.

જંસકં તં કિરંઈ, અહવા ન સકેઈ તહય સદ્દહઈ ।
સદ્દહમાણો જીવો, પાવંઈ અચરામરં ઠાણં ।૧॥

અર્થ—રે જીવ ? તું કરી શકે તો કર
અને જો ન કરી શકે તોપણ જેવી વીતરાગં
ધર્મ કહ્યો તે રીતે સદ્દહજે. સદ્દહણા શુદ્ધ રા-
ખનાર જીવ અજરામર સ્થાનક તે મોક્ષ પદ-
વી પામે.

હવે સમક્ષિતનો માર્ગ કહે છે. ૧ જીવ,
૨ અજીવ, ૩ પુણ્ય, ૪ પાપ, ૫ આત્મવ, ૬
સંવર, ૭ નિર્જરા, ૮ બંધ, ૯ મોક્ષ. એ નવ
તત્ત્વ છે. તેમાં મોક્ષનો કર્તા જીવ છે, અને
સંવર તથા નિર્જરા એ બે છે, તે મોક્ષના ઉપા-
દાનકારણ છે, દેવગુરુ ઉપકારી તે મોક્ષના
નિમિત્ત કારણ છે ઘટલે જીવ સંવર નિર્જરા

आगमसार.

१६९

मोक्ष ए चार उपादेय छे अने बीजा पांच हेय छे एहवो परिणाम तेने समकित ज्ञान कहियें ते समकित ज्ञान भलोज थाय. तिहां अनुयोगद्वारमां कह्यो छे.

नायम्मि गिन्हियव्वे, ।

अगिन्हियव्वे अ इच्छ अत्थमि ॥

जइवमेवइयजो, सो उवएसो नओ ताम ।१।

अर्थः—ज्ञानथी छ द्रव्य जाणीने लेवा योग्य होय ते ले अने छांडवा योग्य छांडे एवो जे उपदेश ते नय उपदेश जाणवो. हवे समकितनी दश रुचि कहे छे.

१ निसर्ग रुचि ते निश्चयनये करी जीवादि नव तत्त्व जाणे, आश्रव त्यागे, संवर आदरे, वीतरागना कइया भाव जे छ द्रव्य

१७०

आगमसार.

क्षेत्र काल भाव सहित जाणे, नामादि चार निक्षेपा पोतानी बुद्धिथी जाणे, सहहे, वीतरागना भाख्या भाव ते सत्य एवी सहहणा होय.

२ उपदेश रुचि नव तत्त्व तथा छ द्रव्यने गुरु उपदेशथी जाणी सहहे ते उपदेश रुचि.

३ आज्ञा रुचि ते रागद्वेष मोह जेमना गया छे, अज्ञान मिट्युं छे एहवा अरिहंत देव तेणे जे आज्ञा कही तेने माने सहहे ते आज्ञारुचि.

४ सूत्ररुचि १ आचारांग, २ सुयगडांग, ३ ठाणांग, ४ समवायांग, ६ भगवती, ६ ज्ञाताधर्म कथा, ७ उपासकदशांग, ८ अं-

आंगमसार.

१७१

तगडदशांग, ९ अनुत्तरोववाइ दशांग, १०
 प्रश्नव्याकरण, ११ विपाक, ए इग्यार अंग
 तथा बारमुं अंग दृष्टिवाद जेमां चउद पूर्व
 हतां ते हमणां विच्छेद गयां छे. तथा १
 उववाइ, २ रायपसेणी, ३ जीवाभिगम, ४
 पन्नवणा, ५ जंबुद्वीपपन्नति, ६ चंदपन्नति, ७
 सूरपन्नति, ८ कर्पीआ, ९ कप्पवडंसिया,
 १० पुष्फिआ, ११ पुष्फचुलीआ, १२ व-
 न्हिदिशा, ए बार उपांग जाणवां. अने १
 व्यवहारसूत्र, २ बृहत्कल्प, ३ दशाश्रुतस्कंध,
 ४ निशीथ, ५ महानिशीथ, ६ जितकल्प, ए
 छ छेदग्रंथ तथा १ चउसरण, २ संधारापय-
 न्ना, ३ तंदुलवेयालीय, ४ चंदाविजय, ५ दे-
 विंदथुओ, ७ वीरथुओ, ८ गच्छाचार, ९

१७२

आगमसार.

जोतिकरंड, १० आयुः पञ्चखाण, ए दश पयन्नानां नाम तथा १ आवश्यक, २ दश-वैकालिक, ३ उत्तराध्ययन, ४ ओघनिर्युक्ति, ए चार मूलसूत्र तथा १ नंदि, २ अनुयोग-द्वार, ए पीस्तालीस आगम ते मूलसूत्र तथा २ निर्युक्ति, ३ भाष्य, ४ चूर्णि, ५ टीका, ए पंचांगीना वचन जे जीव माने तथा आगम सांभलवानी तथा भणवानी जेने घणी चाहना होय ते सूत्ररुचि जाणवी.

५ जे जीव गुरुमुखथी एक पदनो अर्थ सांभलीने अनेक पद सहहे ते बीजरुचि.

६ अभिगमरुचि ते जे सूत्र सिद्धान्त अर्थ सहित जाणे अने अर्थ विचार सांभलवानी घणी चाहना होय ते अभिगमरुचि.

आगमसार.

१७३

७ जे छ द्रव्यना गुण पर्यायने चार प्रमाण तथा सात नये करी जाणे ते विस्ताररुचि.

८ क्रियारुचि ते दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, समिति, गुप्ति बाह्य क्रिया सहित आत्मधर्म साथे जेने रुचि घणी होय ते क्रियारुचि.

९ संक्षेपरुचि ते जे अर्थने ज्ञानमां थोडो कहे थके घणो जाणीने कुमतिमां पडे नहि, जिनमतनी प्रतीति माने ते संक्षेपरुचि.

१० जे पांच अस्तिकायनुं स्वरूप जाणे श्रुतज्ञाननो स्वभाव अंतरंग सत्ता सहदे ते धर्मरुचि.

हवे समकितना आठ गुण कहे छे. १

१७४

आगमसार.

निःशंका ते जिनागम मध्ये सूक्ष्म अर्थ कहा
 ते साचा सहहे तेमां संदेह आणे नही. तथा
 सात भयथी पण डरे नहि. २ निकंखा गुण
 ते पुण्यरूप फलनी चाहना न राखे. केमके
 जिहां इच्छा तिहां कर्मनो बंध छे माटे. ३
 निव्विक्तिगिच्छागुण ते शुभ अशुभ पुद्गल
 एक सरिखा छे तेमां पुण्यना उदयथी शुभ-
 योग मिल्या खुशी थइ अहंकार न करवो
 तथा पापना उदयथी दुःखसंयोग मिल्या
 दिलगीर थावुं नही. ४ अमूढदृष्टि गुण ते जे
 आगममां सूक्ष्म निगोदना तथा छ द्रव्यना
 सूक्ष्म विचार कहा छे ते सांभलतो थको
 मुंजाय नही, जे पोतानी धारणामां आवे ते
 धारी राखे अने जे धारणामां न आवे तेने

આગમસાર.

૧૭૬

સદ્દેહે ૫ ઉપબૃંહગુણ જે એ આપણા જીવમાં અનંત જ્ઞાનાદિક ગુણ છે તે છુપાવવા નહીં, શુદ્ધ સત્તા જેવી છે તેવી કહેવી, રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન તે કર્મની ઉપાધિ છે. જીવ એ ઉપાધિથી ન્યારો છે. ૬ સ્થિરીકરણ ગુણ તે આપણા પરિણામ જ્ઞાનધ્યાનમાં સ્થિર કરવા, ડગાવવા નહીં અથવા કોઈ ભવ્ય પ્રાણી ધર્મથી પડતો હોય તેને -સાહ્ય દેઈ ઉપદેશ આપી સ્થિર કરવો. ૭ વાત્સલ્યતા ગુણ તે જેની સાથે જ્ઞાન ધ્યાન તપ પઠિકમણો મેલો કરતા હોઈયે અને સદ્દેહના પણ એકજ હોય તે આપણો સાધર્મિ માઈ છે તેની ભક્તિ કરવી. અથવા સર્વ જીવના જ્ઞાનાદિ ગુણ આપણા સમાન છે માટે સર્વ જીવ ડપર દયા કરવી.

१७६

आगमस्यार.

अथवा बीजा जीवना पण आपणा तुल्य ज्ञानादि गुण छे ते जीवने पोषवा योग्य ज्ञान ध्याननो घणो अभ्यास करावे. ८ प्रभावक गुण ते भगवंतना धर्मनी प्रभावना महिमा करवो अथवा पोताने ज्ञानादि गुण वधारवा दान, शील, तप, भाव, पूजा करी घणो महिमा करवो. ए समकितना आठ गुण.

हवे समकितना पांच लक्षण कहे छे. १ उपशम भाव लक्षण ते विवेकी प्राणी प्रायें कषाय न करे अने जो कदाचित् कषाय करे तोपण तरत मनने पाछो वाले. २ आस्ता-भूषण ते भगवंतना वचन ऊपर शुद्ध प्रतीत राखें, भगवंते जेम आगममां आज्ञा करी तेम सहहे. ३ दया भाव लक्षण ते सर्व जीव

आगमसार.

१७७

पोताना सरीखा जाणी दया पालवी. ४
 निर्वेद ते संसारथी तथा धनथी शरीरथी
 उदाशीपणो राखवो. ५ संवेगु ते इन्द्रियना
 सुख जीवें अनंति वार भोगव्या पण ते
 दुःखना कारण छे, एक चिदानंद मोक्षमयी
 अतीन्द्रिय सुखने आपणा करी जाणे. ए
 समकितना पांच लक्षण कहां.

हबे छ आयतन कहे छे. १ निश्चय-
 कुगुरु ते भगवंतना वचनना खोटा अर्थ करे
 खोटी प्ररुपणा करे. २ व्यवहारकुगुरु ते योगी,
 संन्यासी, ब्राह्मण अने आचारहीन वेषधारी
 यति ते पण छोडवा. ३ निश्चय कुदेव ते जिणे
 श्रीवीतरागदेवनुं स्वरूप नथी जाण्युं. ४
 व्यवहार कुदेव ते जे सरागीदेव कृष्ण, महा-

१७८

आगमसार.

देव, क्षेत्रपाल, देवी, पितर प्रमुख ते पण छोडवा.
 ५ निश्चयथी कुधर्म ते जे एकांत मार्ग बाह्य-
 करणी उपर राच्या छे अंतरंगज्ञान नथी
 ओलख्यो ते. ६ व्यवहार कुधर्म ते पारका
 अन्य दर्शनोना मत सर्व छांडवा एटले कुदेव
 कुगुरु तथा कुधर्मने छोडी शुद्धदेव, गुरु तथा
 धर्म सहहे ते समकितनी सहहणा जाणवी.
 समकितना लक्षण पन्नवणा सूत्रथी कहे छे.

परमत्थसंथवो वा,

सुदिष्टपरमत्थ सेवणावावि ॥

वावन्न कुदंसणा,

वज्जाणाय सम्मत्तसहहणा ॥ १ ॥

अर्थः—परमार्थ छ द्रव्य नव तत्त्वना गुण
 पर्याय मोक्षनुं स्वरूप एटले जे परमार्थ सूक्ष्म

आगमसारः.

१७९

अर्थ छे ते जाणवानो घणो अभ्यास परचो
करे अथवा जाणवानी घणी चाहना राखे
अने सुदिठ कहेतां भली रीते दीठा जाण्या छे
परमार्थ छ द्रव्य मोक्षमार्ग जेणे एहवा गुरुनी
सेवा करे एटले ज्ञानी गुरु धारवा अने वावन्न
कहेतां जिनमति यतिना नाम धरावीने जे
क्षेत्रपाल प्रमुखने समकित विना माने एवा
गुरुनो संग वर्जे अने कुदर्शनी जे अन्यमति
तेनो संग न करे एवा जे परिणाम ते सम-
कितनी सहहणा जाणवी.

विरया सावज्जाओ,

कसायहीणा महंव्यधरावि ॥

सम्मदिठिविहूणा,

कयावि मुखं न पावंति ॥ २ ॥

૧૮૦

આગમસાર.

અર્થ:—જે સાવચ આરંભથી વિરમ્યા છે, ક્રોધાદિ ચાર કષાય જીત્યા છે અને શુદ્ધ પાંચ મહાવ્રત પાલે છે પણ સમકિત વિના છે તે જીવ મોક્ષ પામે નહિ.

હવે સમકિત તે શી વસ્તુ છે તે વિષે ગાથા કહે છે.

નયભંગપમાણેર્હિ, જો અપ્પા સાયવાયભાવેણ
જાણઈ મોક્ષસ્વસરૂવં, સમદિદ્ધિઓ સો નેઓ ।૩।

અર્થ:—નય તથા ભંગે કરી તથા પ્રમાણે કરી જે પોતાના આત્માને જાણે, ઓલચે, સ્યાદ્વાદ આઠ પક્ષે જાણે અને એમ સ્યાદ્વાદપણે મોક્ષ નિઃકર્માડવસ્થાને પણ જાણે, પરવસ્તુને હેય જાણે, જીવગુણ ઉપાદેય જાણે તેને સમ-ક્રીતિ જાણવો.

आगमसार.

१८१

हवे जीवस्वरूप ध्यान करवाने गाथा
कहे छे.

अहमिको खलु सुद्धो,
निम्ममओ नाणदंसणसमग्गो ॥
तम्मि ठिओ तच्चित्तो,
सव्वे ए ए खयं नेमि ॥ ४ ॥

अर्थ:-ज्ञानी जीव एहवुं ध्यान करे के
हुं एक छुं, पर पुद्गलथी न्यारो छुं, निश्चय न-
येकरी शुद्ध छुं, ज्ञानदर्शन स्वरूप छुं, नि-
र्मल छुं, ममताथी रहित छुं, हुं मारा गुणमां
रह्यो छुं, चेतनागुण ते माहारी सत्ता छे, हुं
मारा आत्म स्वरूपने ध्यावतो सर्व कर्म क्षय
करुं छुं.

१८२

आगमसार.

निरंजणं निकल अयल,
 देवअणाइ अणाइ अणंतं ॥
 चेयणलखखण सिद्धसम,
 परमण्या सिवसंतं ॥ ५ ॥

अर्थः—कर्म अंजनथी रहित निरंजन छुं,
 कलंक रहित छुं, अयल केहतां पोताना स्वरू-
 पथी किवारे चलायमान थाउं नहीं, परमदेव
 छुं. जेनी आदि नथी तथा जेनो अंत नथी
 चेतना लक्षण छुं, सिद्ध समान छुं, संतसत्ता
 मयी छुं.

जीवादिसद्दहणं सम्मत्तं, अहिगमो नाणं ॥
 तथ्थेव सया रमणं, चरणं एसो हु मुख्ख पओ॥६॥

अर्थः—जीवादिक छ द्रव्य जेवा छे
 तेवा सद्दहवा ते समकित्त अने छ द्रव्य जेवा

आगमसार.

१८३

छे तेहवा गुणपर्याय सहित जाणे ते ज्ञान जाणवुं. ते छ द्रव्य जाणीने अजीवने छांडे अने जीवना स्वगुणमां स्थिर थइने रमे ते चारित्र कहिये. ए ज्ञान दर्शन चारित्र शुद्धरत्नत्रयी ते मोक्षनो मार्ग छे माटे ए ज्ञान दर्शन चारित्रनो घणो यत्न करवो, ए रत्नत्रयी पामीने प्रमाद करवो नहीं. तिहां निश्चय व्यवहारनी गाथा.

निच्छयमगो मुखो,
ववहारो पुण्णकारणो बुत्तो ॥
पढमो संवररूवो,
आसवहेउ तओ बीओ ॥ ७ ॥

अर्थः—निश्चयनयनो मार्ग ज्ञान सत्तारूप ते मोक्षनुं कारण छे अने व्यवहार क्रिया

१८४

आगमसार.

नय ते पुण्यनुं कारण कह्यो. पहेलो निश्चय
 नय संवर छे अने निश्चय संवर निश्चय नय
 ते एकज छे जूदा नथी. बीजो व्यवहार नय
 ते आस्रव नवा कर्म लेवानो हेतु छे एटले
 शुभ पुण्य कर्मनो आस्रव थाय छे अने अशुभ
 व्यवहारें अशुभ कर्मनो आस्रव थाय छे. कोइ
 पूछे जे व्यवहारनय आस्रवनुं कारण छे तो
 अमे व्यवहार नही आदरसुं, एक निश्चय मार्ग
 आदरसुं. तेने उत्तर कहे छे.

जइ जिणमयं पवज्जह,

ता मा ववहारनित्थए सुयह ॥

एकेण. विण तिथ्यं,

छिज्जइ अन्नेणओ तच्च ॥ ८ ॥

अर्थः—अहो भव्य प्राणी ! जो तमने

आगमसार.

१८६

जिनमतनी चाहना छे अने जो तुमे जिनमतने इच्छो छो, मोक्षने चाहो छो तो निश्चयनय अने व्यवहारनय छांडशो नहि एटले बेहु नय मानजो. व्यवहार नये चालजो अने मिश्रय नय सहजजो जो तुमे व्यवहार नय उथापशो तो जिन शासनना तीर्थनो उच्छेद बांशे. जेणे व्यवहार न मान्यो तेणे गुरु बंधना, जिनभक्ति, तप, पञ्चख्खाण, सर्व न मान्या एम जेणे आचार उथाप्यो तेणे निमित्त कारण उथाप्यो अने निमित्त कारण विना एकलो उपादान कारण ते सिद्ध न थाय, माटे निमित्त कारणरूप व्यवहार नय जरूर मानवो अने जो एकलो व्यवहार नय मानिये तो निश्चयनय ओलख्या विना तस्वतुं

१८६

आगमसार.

स्वरूप जाण्युं जाय नहीं माटे तस्व मोक्षमार्ग
 ते निश्चयनय विना पामियें नही अने तस्वज्ञान
 विना मोक्ष नथी एटले निश्चयनय व्यवहार
 नय बे मानवा. जे कारणे आगममां ज्ञान
 क्रियाथी मोक्ष छे, तिहां ज्ञान-हेय उपादेयनी
 परीक्षा, क्रिया जे हेय बंधकारणनो त्याग,
 उपादेय स्वगुण ते लेवा, थिर परिणाम रा-
 खवा एवुं ज्ञान क्रिया ते मोक्षनुं कारण छे
 माटे ज्ञान सहित क्रिया प्रमाण छे. ज्ञान विना
 क्रिया पुण्यनुं कारण छे एम निश्चय विना
 व्यवहार निःफल छे अने निश्चय सहित व्य-
 वहार ते प्रमाण छे. तेनो दृष्टान्त-जेम सोनाना
 आभूषणमां उपधातु अथवा किणजो मिल्यो
 होय ते पण उंचा सोनाने भावें लेइ राखियें

आगमसार.

१८७

छैयें अने जो ते किणजो तथा सोनुं जूढुं करियें तो सहु कोइ सोनाने ले पण कोइ किणजो जे कुधातु ते लीये नही तेम निश्चय नय सोना समान छे माटे निश्चयनय सहित सर्व भला छे अने निश्चयनय विना सर्व अलेखे माटे आगममां निश्चय व्यवहार रूप मोक्षमार्ग छे ते कह्यो.

वली शरीर ऊपर मोह करे नही ते विषे,
 च्छिज्जो भिज्जो जाय खओ,
 जो इहमे हु सरीरं ॥
 अप्पा भावे निम्मलो,
 जं पावं भवतीरं ॥ ९ ॥]

अर्थः-भव्य प्राणी एम चितवे जे ए शरीर छीजजाओ भिजजाओ, क्षय थइ जाओ,

१८८

आगमसार.

विणसी जाओ, ए म्हारुं शरीर पौद्रलिक छे
 परवस्तु छे ते एक दिवसे मूकवुं छे माटे रे
 प्राणी ! तुं आपणा आत्माने निर्मलपणे
 ध्यावतो संसारथी तरीने कांठो पामीश.

ए हिज अप्पा सो परमप्पा,
 कम्मविसेसोइ जायोअप्पा ॥

इमये देवज्जाजुसो परमप्पा,
 बहु तुझे अप्पो अप्पा ॥ १० ॥

अर्थः—अहो भव्यजीव ! एहीज आपणो
 आत्मा छे ते शुद्ध ब्रह्म छे पण कर्मने वश
 पड्यो जन्ममरण करे छे पण ए शरीरमां जे
 जीव छे ते देव छे, परमात्मा छे, माटे तुमे
 आपणो आत्मा ध्यावो, तरण तारण जिहाज
 ए आपणो आत्माज छे एम श्री हेमाचार्ये

आगमसार.

१८९

वीतरागस्तोत्रमां कथ्यो छे.

यः परात्मा परं ज्योतिः,

परमः परमेष्ठिनाम् ॥

आदित्यवर्णं तमसः,

परस्तादामनन्ति यम् ॥ १ ॥

सर्वे येनोदमूल्यन्त,

समूलाः क्लेशपादपाः । इत्यादि ॥

अर्थः—परमात्मा छे, परमज्योति छे, पंच परमेष्ठीथी पण अधिक पूज्य छे. केमके पंचपरमेष्ठी तो मोक्षमार्गना देखाडनारा छे पण मोक्षमां जवावालो तो आपणो जीव छे. अज्ञाननो मिटावनार छे सर्व कर्म क्लेशनो खपावनार छे एवो आत्मा ध्यावो एहिज परम श्रेयनुं कारण छे, शुद्ध छे, परम निर्मल छे.

૧૯૦

આગમસાર.

એહવો આત્મા ઉપાદેય જાણી સદ્દે અને
 જેવો પોતાથી નિરવાહ થાય તેવો ત્યાગ
 વૈરાગ્યમાં પ્રવર્તે એટલે ધન તે પરવસ્તુ જાણી
 સુપાત્રને દાન આપે અને ઇન્દ્રિયના વિકાર તે
 કર્મબંધના કારણ જાણી પરિહેરે, શીલ પાલે,
 જે આહાર છે તે પૌદ્ગલિક પરવસ્તુ છે, શરીર
 પુષ્ટિનું કારણ છે, અને શરીર પુષ્ટ ક્રીધાથી
 ઇન્દ્રિયોના વિપયનો પોષ થાય માટે તે પર
 સ્વભાવ છે, અજ્ઞાન સંસારનું કારણ છે માટે
 આહારનો ત્યાગ કરવો તેને તપ કહિયે. તથા
 પૂજા તે જે શ્રી અરિહંત દેવે મોક્ષમાર્ગ ઉપ-
 દેશ્યો તે આપણે જાણ્યો માટે આપણા
 ઉપકારી છે તે ઉપકારીની વહુમાન સહિત
 ભક્તિ કરિયે. માટે શ્રી અરિહંત દેવા-

आगमसार.

१९१

धिदेवनी पूजा करवी. एम दान, शील, तप, पूजा, सर्व जीव अजीवनुं स्वरूप ओलख्या विना जे करवुं ते पुण्यरूप इंद्रिय सुखनुं कारण छे अने जे जीवने उपादेय करी वांछा विना करे ते निर्जरानुं कारण छे. एम दया पण श्रीभगवती सूत्रमां सातावेदनी कर्मनुं कारण छे. एटले सम्यक् ज्ञाननी सर्व करणी निर्जरारूप छे अने ज्ञान विना सर्व करणी बंधनुं कारण छे, माटे ज्ञाननो वणो अभ्यास करजो ए भगवंते सीखामण दीधी छे.

तथा ज्ञाननुं कारण श्रुतज्ञान छे तेनो वणो भाव राखजो. श्रीठाणांगमां तथा उत्तराध्ययनमां १ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावर्तना, ४ अनुपेक्षा, ५ धर्मकथा, ए

૧૯૨

આગમસાર.

સજ્ઞાય ભણવા ગુણવાનું ફલ મોક્ષ કહ્યો છે. સજ્ઞાય કરવાર્થા જ્ઞાનાવરણી કર્મ સ્વપાત્રે કેમકે વાચનાથી તીર્થધર્મ પ્રવર્તે, મહાનિર્જ્જરા થાય પૂછવાથી સૂત્ર તથા અર્થ શુદ્ધ થાય, મિથ્યાત્વ મોહનીય સ્વપાત્રે, તે જેમ અર્થ વિચાર પૂછે તેમ તેમ સમક્રિત નિર્મલ થાય અને અનુપ્રેક્ષા તે અર્થ વિચારતાં સાત કર્મની સ્થિતિ, રસ પાતલા કરે. અનંતો સંસાર સ્વપાત્રીને પાતલા કરે તથા શ્રુતજ્ઞાનની આરાધનાથી અજ્ઞાન મિટે એવાં ફલ કહ્યાં છે.

માટે વાંચવાં તથા ભણવાનો ઘણો ઉદ્યમ કરવો, કેમકે આજ પાંચમા આરામાં કોઈ કેવળો નથી તથા મનઃપર્યવજ્ઞાની અને અવધિજ્ઞાની પણ નથી, એકમાત્ર શ્રુતજ્ઞાન-આગમનો આધાર છે. યતઃ

आगमसार.

१९३

कहं अम्हारिसा पाणी,
 दुसमादोसदूसिया ॥
 हा अणाहा कहं हुंता,
 न हुंतो जइ जिणागमो ॥ १ ॥

अर्थ—हे भगवंत ! अमसरिखा प्राणीनी
 शी गति थात जे अमें आ दुसम पंचम का-
 लमां अवतार लीधो. हा—इति खेदे, अमे अ-
 नाथ लुं. (छीए) जो जिनराजनां कहेला
 आगम न होत तो आज शुं थात, एटले
 आज आगमनोज आधार छे माटे आगम
 अने आगमधर जे बहुश्रुत तेनो घणो विनय
 करवो. आगममां विनयनुं फल ते सांभलवुं
 अने सांभलवानुं. फल ज्ञान छे, ज्ञाननुं फल
 मोक्ष छे, एम आगम सांभली लेवा योग्य

7

१९४

आगमसार.

लेजो, छंडवा योग्य छोडजो, सहहणा शुद्ध
 राखजो, सहहणा ते मोक्षनुं मूल छे ए इन्द्रिय
 सुख तो आ जीवे अनंतिवार पाम्युं छे. एहवी
 जाति-जन्म-योनि कोइ रही नथी जे आप-
 णा जीवे नहीं करी होय. ए जीवने संसारमां
 भमतां अनंतां पुद्गल परावर्तन थयां पण
 धर्मनी जोगवार्यां मली नहीं तो हवे मनुष्य-
 भव, श्रावककुल, निरोग शरीर, पंचेन्द्रिय
 प्रगट, बुद्धि निर्मल, एटला संयोग मल्या
 वली श्री वीतरागनी वाणीना कहेनारा शुद्ध
 गुरुनी जोगवाइ पामीने अहो भव्यलोको !
 तुमे धर्मने विषे विशेष उद्यम करजो, फरिथी
 एवी जोगवाइ मिलवी दुर्लभ छे माटे प्रमाद
 करशो नहीं. ए शरीर, धन, कुटुंब, आयुष्य

आगमसारः

१९५

सर्व चंचल छे. क्षण क्षण छीजे छे, माटे पांच समवाय कारण मल्यां मोक्षरूप कार्य सिद्ध करवुं ते पंचसमवायनां नाम कहे छे. १ काल, २ स्वभाव, ३ नियति, ४ पूर्वकृत, ५ पुरुषकार. ए पांच समवाय माने ते समकीति छे. एमां एक समवाय उथ्यापे तेहने मिथ्यात्वी कहियें एम सम्मति सूत्रमां कब्यो छे.

कालो सहाय नियइ, पुव्वकथं पुरिसकारणे पंच॥
समवाए सम्मत्तं, एगंते होइ मिच्छत्तं ॥ १ ॥

अर्थः—काल लब्धि विना मोक्षरूप कार्य सिद्ध थाय नही एटले काल सर्वनुं कारण छे. जे कालें जे कार्य थवानो होय ते कार्य ते कालें थाय, ए काल समवाय अंगीकार करी कब्यो. इहां कोइ पूछे जे अभव्य जीव मोक्षे

१९६

आगमसार.

केम जता नथी? तेनो उत्तर जे अभव्यने काल मले पण अभव्यमां मुक्ति जवानो स्वभाव नथी तेथी मोक्षे जाय नहीं.केमके काल स्वभाव ए वे कारण जोइये.तेवारें फरि पूछयुं जे भव्य जीवोमां तो मोक्षे जवानो स्वभाव छे तो सर्व भव्य केम मोक्ष जता नथी तेने उत्तर जे नियत कहेतां निश्चय समकित गुण जागे तेवारें मोक्ष पामे एटले काल स्वभाव नियत ए त्रण कारण मान्या ते वारे फरि पूछयुं जे समकित आदि कारण तो श्रेणिक राजाने हता तो मोक्ष केम न थयो ? तेने उत्तर जे पूर्वकृत कर्म घणां हतां अथवा पुरुषाकार जे उद्यम करचो नही. फरी पूछयुं जे शालिभद्र प्रभुखे तो उद्यम घणो कीधो तेनुं उत्तर जे तेमना पूर्व-

आगमसार.

१२७

कृत शुभकर्म खप्यां नहतां माटे पांच समवाय
 मिल्या कार्यनी सिद्धि थाय, तेवारें फरि
 पूछ्युं जे मरुदेवा माताने तो चार कारण
 मिल्या पण पांचमो पुरुषाकार उद्यम कांइ
 कीधो नही तेने उत्तर जे क्षपक श्रेणि चढ-
 वानो शुक्र ध्यान रूप उद्यम कीधो छे माटे
 पांच समवाय मिल्या मोक्षरूप कार्य सिद्ध
 थाय.

जेवारें केवलज्ञाने करी सर्व द्रव्य जेम
 रहां छे तेम देखे एटले आकाशद्रव्य लोका-
 लोक प्रमाण छे तेमां अलोकमां बीजुं द्रव्य
 कोइ नथी. लोकाकाशना एकेक प्रदेशे धर्मा-
 स्तिकाय, अधर्मास्तिकायनो एकेक प्रदेश
 रह्यो छे तथा अनंता जीवना अनंता प्रदेश

१९८

आगमसार.

रह्या छे, अनंता पुद्गल परमाणुआ रह्या छे.
कालनो समय सर्वत्र वर्त्ते छे.

हवे छ द्रव्यनी फरसना कहे छे. धर्मा-
स्तिकायना एक प्रदेशे धर्मास्तिकायना छ
प्रदेश फरस्या छे ते आवी रीते के चार दि-
शिना चार अने पांचमो नीचे, छट्टो ऊपर
ए छ प्रदेश फरस्या छे तथा एक मूल पोतें
प्रदेश एम सात प्रदेशनो संबंध छे अने धर्मा-
स्तिकायना एक प्रदेशने आकाशद्रव्य तथा
अधर्मास्तिकायना सात सात प्रदेश फरसे छे
ते एक मूलना प्रदेशने बीजा द्रव्यनो
मूलनो प्रदेश फरसे माटे सात प्रदे-
शनी फरसना छे अने धर्मास्तिकायना एक
प्रदेशें जीव पुद्गलना अनंता प्रदेशनी फरसना

આગમસાર.

૧૯૯

છે અને લોકને અંતે જે ધર્માસ્તિકાયના પ્રદેશ છે તેને આકાશ ફરસનાતો છૂંદી દિશીની છે અને એકમૂલ પ્રદેશ સુદ્ધાં સાત પ્રદેશની ફરશના છે અને બીજા દ્રવ્યની ત્રણ દિશીની ફરશના છે એમ સર્વ દ્રવ્યની ફરશના છે અને આકાશથી ધર્મ અધર્મની અવગાહના સૂક્ષ્મ છે ધર્મ અધર્મ દ્રવ્યથી જીવની અવગાહના સૂક્ષ્મ છે જીવથી પુદ્ગલની અવગાહના સૂક્ષ્મ છે.

એમ છ. દ્રવ્યના ગુણ પર્યાય સામાન્ય સ્વભાવ ૧૧ છે. અને વિશેષ સ્વભાવ દશ છે, તે શ્રીસિદ્ધ ભગવંત જ્ઞાનથી જાણે દર્શનથી દેખે. તે ઇગ્યાર સામાન્ય સ્વભાવ કહે છે. ૧ અસ્તિ સ્વભાવ, ૨ નાસ્તિ સ્વભાવ, ૩ નિત્ય

२००

आगमसार.

स्मभाव, ४ अनित्य स्वभाव, ५ एक स्वभाव
 ६ अनेक स्वभाव, ७ भेद स्वभाव, ८ अभेद
 स्वभाव, ९ भव्य स्वभाव, १० अभव्य स्व-
 भाव, ११ परम स्वभाव. ए इग्यार सामान्य
 स्वभाव सर्व द्रव्यमां छे. ए सामान्य उपयोग
 दर्शन गुणथी देखे. हवे दश विशेष स्वभाव
 कहे छे. १ चेतन स्वभाव, २ अचेतन स्वभाव,
 ३ मूर्ति स्वभाव, ४ अमूर्ति स्वभाव, ५ एक
 प्रदेश स्वभाव, ६ अनेक प्रदेश स्वभाव, ७
 शुद्ध स्वभाव, ८ अशुद्ध स्वभाव, ९ विभाव
 स्वभाव, १० उपचरित स्वभाव. ए दश वि-
 शेष स्वभाव छे. ते कोइक द्रव्यमां कोइक स्वभाव
 छे, कोइक द्रव्यमां कोइक स्वभाव नथी, ए
 ज्ञानथी जाणे एटले सिद्ध भगवान् लोकालोक

आगमसार.

२०१.

सर्व ज्ञानोपयोगथी जाणी रह्या छे. दर्शनोपयो-
गथी देखी रह्या छे एहवा अनंत गुणी अरूपी
सिद्ध भगवान् छे ते समान पोताना आत्माने
जाणे उपादेय करी ध्यावे ते समकित जाणवो.

॥ दोहा ॥

अष्ट कर्म वन दाहके, भए सिद्ध जिनचन्द्र ।
ता सम जो अप्पा गणे, वंदे ताको इन्द्र ॥१॥
कर्मरोग औषधसमी, ज्ञान सुधारस वृष्टि ।
शिव सुखामृत सरोवरी, जय २ सम्यक् दृष्टि ॥२॥
एहिज सद्गुरु शीख छे, एहिज शिवपुरमाग ।
लेजो निज ज्ञानादि गुण, करजो परगुण त्याग ॥३॥
ज्ञान वृक्ष सेवो भविक, चारित्र समकित मूल ।
अमर अगम पद फल लहो, जिनवर पदवी फूल ४

२०२

आगमसार.

संवत सत्तर छिहत्तरे, मनशुद्ध फागुण मास ।
 मोटे कोट मरोटमे, वसतां सुख चोमास ॥५॥
 सुविहित खरतर गच्छ सुथिर, युगवर जिन चंद
 सूर ।
 पुण्य प्रधान प्रधान गुण, पाठक गुण पंडूर ॥६॥
 तास शिष्य पाठक प्रवर, मुमतिसार गुणवंत ।
 सकल शास्त्र ज्ञायक गुणी, साधुरंग जसर्वत ॥७॥
 तास शिष्य पाठक विबुध, जिनमत परमत जाण ।
 भविक कमल प्रतिबोधवा, राजसार गुरुभाण ॥८॥
 ज्ञानधर्म पाठक प्रवर, शमदम गुणे अगाह ।
 राजहंस गुरु गुरु शक्ति, सहजग करे सराह ॥९॥
 तास शिष्य आगमरुचि, जैनधर्मको दास ।
 देवचंद आनंदमें, कीनो ग्रंथ प्रकाश ॥१०॥
 आगमसारोद्धार एह, प्राकृत संस्कृत रूप ।
 ग्रंथ कियो देवचंदमुनि, ज्ञानामृत रसकूप ॥११॥

आगमसारं.

२०३

करयो इहां सहाय अति, दुर्गदास शुभचित्त ।
समजावन निज मित्रकुं, कीनो ग्रंथ पवित्त॥१२

धर्ममित्र जिन धर्म रत, भविजन समकितवंत ।
शुद्ध अमरपद ओलखण, ग्रंथ कियो गुणवंत॥१३

तत्त्वज्ञानमय ग्रंथ यह, जोवै बालाबोध ।
निजपर सत्ता सब लिखे, श्रोता लहे प्रबोध॥१४

ता कारण देवचंद्रमुनि, कीनो भाषा ग्रंथ ।
भणशे गुणशे जे भविक, लहेशे ते शिवपंथ॥१५

कथक शुद्ध श्रोतारुचि, मिलजो एह संयोग ।
तत्त्वज्ञान श्रद्धा सहित, बलीय काय निरोग॥१६

परमागमसुं राचजो, लहेशो परमानंद ।
धर्मराग गुरु धर्मसौं, धरजो ए सुखवृंद ॥१७॥

२०४ गुणस्थानकविचार.

ग्रंथ कियो मनरंगसो, सितपख फागुणमास ।
भोमवार अरु तीज तिथि, सफल फली मन
आस ॥१८॥

गुणस्थानकविचार.

हवे गुणठाणानो विचार लखीइं छे.
प्रथम मिथ्यात्वगुणठाणुं १, सास्वादनगुणठाणुं
२, मिश्रगुणठाणुं ३, अविरत समकित गुण-
ठाणुं ४, देशविरति गुणठाणुं ५, प्रमत्तगुण-
ठाणुं ६, अप्रमत्तगुणठाणुं ७, अपूर्वकरण
गुणठाणुं ८, अनिवृत्तिवादर गुणठाणुं ९,
सूक्ष्मसंपराय गुणठाणुं १०, उपशांतमोह गुण-
ठाणुं ११, क्षीणमोह गुणठाणुं १२, सयोगी
केवली गुणठाणुं १३, अयोगीकेवलि गुणठाणुं

गुणस्थानकविचार.

२०५

१४, अरिहंतनां भाख्यां वचन साचां करी सहहेनहिं ते मिथ्यात्व गुणठाणो कहीइं, तेहना भेद पांच छे. अभिग्गहिय मिथ्यात्व जे लीधो हठ मुकी सके नहीं १, अनभिग्रहिक मिथ्यात्व जे देव तथा कुदेव तथा गुरु तथा कुगुरु धर्म अधर्म सरिखा करी माने परीक्षाबुद्धी नहीं २, अभिनिवेशमिथ्यात्व जे खोटाने खोटुं जाणे पण हठ मुकी सके नहीं ३, सांशयिक मिथ्यात्व जे केवलिना भाख्या वचन तेमां संशय उपजे पूरीपरतीत आवे नहीं ४, अनाभोग मिथ्यात्व जे कांई जाणपणुं उपजे नहीं एकेंद्रीविकलेंद्रीनी पेरे तथा श्रीठाणांगसूत्रे मिथ्यात्वना दसबोल कहा छे, जीवने अजीव करी माने ते मिथ्यात्व १, तथा

२०६ गुणस्थानकविचार.

अजीवने जीव करी माने ते मिथ्यात्व २,
 तथा धर्मने अधर्म करी माने ते मिथ्यात्व ३
 तथा अधर्मने धर्म करी माने ते मिथ्यात्व ४,
 मोक्षनोमार्ग ज्ञानदर्शन चारित्र्यतपः तेहने मो-
 क्षमार्ग न माने ते मिथ्यात्व ५, तथा मोक्षनो
 मार्ग नथी संसारनो हेतु छे तेहने मोक्षमार्ग करी
 माने ते मिथ्यात्व ६, तथा मोक्ष गया नथी तेने
 मोक्ष माने ते मिथ्यात्व ७, जे मोक्षे गया तेहने
 मोक्ष न माने ते मिथ्यात्व ८, जे साधु विषय-
 विकार त्यागी तेहने असाधु माने ते मिथ्यात्व
 ९, तथा जे साधु नथी तेहने साधु करी माने
 ते मिथ्यात्व १० ते मिथ्यात्वनी चाल तीन
 प्रकारनी छे देवगत मिथ्यात्व ते कुदेव सरागी
 तेहने देव करी माने १, बीजो गुरुगत जे

गुणस्थानकविचार.

२०७

कुगुरुने गुरु करी माने त्रीजो पर्वगत मिथ्यात्व संसारी पर्वने धर्मना पर्व करी माने ते मिथ्यात्व ते मिथ्यात्वनी स्थिति तीन प्रकारनी छे. अनादि अनंतनी अभव्य जीवने, अनादि सांत भव्यजीवने, सादिसांत पडवाइने, ते जघन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्टी अर्द्धपुद्गलपरावर्त काईक उंणी छे. वीजु गुणठाणुं सास्वादन ते कोईक जीव उपसमसमकितथी पडतो मिथ्यात्व गुणठाणे पोतो नथी वचे छआवलिका रहे ते सास्वादन गुणठाणुं कहीइं. तेहनो दृष्टांत छे कोइ पुरुष खीरखांड घृत जमीने तुरत वमतो होइं ते वमतां काईक स्वाद आवे तिम समकितथी पडतां पिण काईक वासना रहे तेहने सास्वादन कहिइं २ त्रीजो गुणठाणो मिश्र

२०८

गुणस्थानकविचार.

कोई जीव क्षयोपशम समकितथी पडी मिश्र-
मोहनीने उदये मिश्रगुणठाणे आवे अथवा
मिथ्यात्वथी निकली समकित गुणठाणे आ-
वतां वचे मिश्रमोहनीने उदये मिश्र गुणठाणे
आवे ते जीव अंतमुहूर्त्तकालसीम रहे एहने
समकित मिथ्यात्वदृष्टि कहीइं. एहनो दृष्टांत
कहे छे जे कोई जीव नालियरदीपमां वसतो
होइं ते नालियर खाइं तेहने अन्न दीठे राग
न उपजे तेम द्वेष पण न उपजे तिम ए
जीवने जिन धर्म साचो सांभलतां राग पण
न उपजे तेम द्वेष उपजे नहीं एहवा जीवने
मिश्रगुणठाणुं कहीइं, एहनी स्थिति अंतमुहूर्तनी
३ चोथो अविरत समकित, तेहना भेद त्रण
छे, तेहनो पहेलो भेद उपसमसमकित जे

गुणस्थानकविचार.

२०९

जीव अनादि मिथ्यात्व संज्ञीपंचेंद्रीपर्याप्तो कोई कारण पामीने संसारथी उभगे, नरक निगोदथी जनममरणना दुःखथी बीहे तेवारे ए सर्व संसार खोटो जाणे, धर्म जाणवानी रुचि घणी करे, दयापाले, दानदे, तप करे, श्रावकनां वार व्रत पाले, साधुना महाव्रत पाले ते जीव यथाप्रवृत्तिकरणे वर्तता कहीइं, एटली करणीसुधी भव्य तथा अभव्य जीव आवे, नवग्रैवेयकसुधी जाए पण समकित पाम्यो नथी ते माटे लेखामां नावे, तोपण कोई जीव वैराग्य परिणामसहितसंसारने असार जाणतो साचा धर्मनो परीक्षा करतो सातकर्मनी थीति उत्कृष्टी स्वपावे, एक कोडाकोडी सागरोपम बाकी थीति सातकर्मनी रहे तेवारे अपूर्वकरण

२१० गुणस्थानकविचार.

करे तेवारे एक ज्ञान मार्ग साचो करी माने,
 ब्रुद्धिसूक्ष्मभाव जाणवानी विशेष थाई तेवारे
 पळे एक आत्मा पोताना शरीरने विषे रह्यो,
 पण अशरीरी छे, अरूपी छे, अविनाशी छे,
 अनंतज्ञानमयी, अनंत दर्शनमयी, अनंत चारित्र
 मयी, अनंतअगुरुलघुमयी, अनंततपमयी, अनं-
 तवीर्यमयी, निर्मल अलेप अखंड छे तेहना
 प्रदेश अखंख्याता छे, प्रदेशे २ अनंता गुण
 अनंता पर्याय छे, उपयोग लक्षण ते माहरो
 धर्म छे, ए धर्म जे जे करतां प्रगट थाये,
 गुणीश्रीअरिहंत, सिद्ध, आचारज, उपाध्याय,
 साधु तथा सिद्धांत तेहनो विनय तथा वैया-
 वच्च करवो, अरिहंतना आगम प्रमाणप्रतीत
 राखे ते समकित कहीईं, ते समकितना तिन

गुणस्थानकविचार.

२११

भेद छे, उपसम समकित ? क्षयोपशम समकित
 २ क्षायिकसमकित तिहां अनंतानुबंधिकषाय
 ४ मिथ्यात्वमोहनी, मिश्रमोहनी, समकितमो-
 हनी एसातप्रकृति उदये आवे ते खपावी अने
 उदये नथी आवी ते विपाकेउपसमावी छे,
 प्रदेसे उदये छे, समकितमोहनी उदय आकरो
 छे तेणे समकितमां अतिचार लागे छे तेहने
 क्षयोपशम समकित कहीईं, एहवी स्थिति
 जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त छे उत्कृष्टि ६६ छासठि-
 सागरोपम केतलाएक मनुष्यभव अधिक
 एतली स्थिति रहे ए समकितने पांच अति-
 चार लागे तेहनां नाम ॥ संका जे आगममां
 कह्यो ते साचो पिण कांईक संदेह उपजे ?,
 अतिचार ॥ कंखा बीजा मतना शास्त्र तथा

२१२ गुणस्थानकविचार.

देव हरिहरादिक सरागि तथा ते मतना गुरुस-
 विकारी तेहने कांईक रुडापणे जाणि वांछा
 करिए २ अतिचार, वितिगिछाजे धर्मअरिहं-
 तनो कह्यो करीइं पण एहनो फल थासे के
 नही थाय अथवा जिनसासनथी बीजा मतनी
 करणी रुडी छे एहवो परिणाम आवे ते
 त्रीजो ३ अतिचार॥ पसंस जे परमतनी परसंभा
 करे जे बीजा मतना देव तथा लिंगीयाना
 कष्टकरणी तथा कोई चमत्कार देखीने ते
 उपर राग आवे तेहने पंग लागे तेहना गुण
 बोले ए चोथो ४ अतिचार जाणयो ॥ संथवो
 जे बीजा मतना देव तथा गुरु तथा ते मतना
 जे सेवक तेडनो परिचय मेलाप घणो करे
 बीजा मतनी वात करे सांभले तेपांचमो अति-

गुणस्थानकविचार.

२१३

चार ॥ ए क्षयोपशम समकित एक जीवने असंख्यातीवार आवे अने वली असंख्याती-वारजाए, जे आगमने आधारे राखे तेहने रहे तेपळे क्षायिक समकित थाईं ते क्षायिकनो अर्थ लिखीईं छे. अनंतानुबंधी च्यार ४ मिथ्यात्व मोहनी १ मिश्रमोहनी २ समकित-मोहनी ३ ए सात प्रकृति सर्वथा जे जीव खपावीने निरमलीपरतीतकिधी ते क्षायिकस-मकित्ती कहीईं. ए आव्या पळे जाय नहीं. ए समकितवाला जीवने दस जातिनी रुचि उपजे ते लिखीईं छे. निसर्गरुचि नव तत्त्व ९ छ द्रव्य तेहना ४ निक्षेपा सातनय पोतानी बुद्धिथी साचा जाणे ते निसर्गरुचि १ अभिगमरुचि जे जिनागमनासुक्ष्म अर्थ जाणवानी रुचि

२१४ गुणस्थानकविचार.

गुरुना मुखथी उपदेशथी जाणे ते उपदेशरुचि
 २ श्रीअरिहंतकेवलीना कक्षा वचननी आणा
 प्रमाण करे ते आणारुचि ३ सूत्ररुचि जिन-
 सूत्र सांभलतां साचा मारगनी परतीत उपजे
 समकित पाभे ४ बीजरुचि सिद्धांतनुं एकपद
 सांभलतां बधावोलनुं जाणपणुं आवे श्रद्धा-
 समीथाई ५ अभिगमरुचि जे ११ अंगादिक
 ८४ आगम तथा निर्युक्तिभाष्य चूर्णिटीकाना
 अर्थ जाणे सर्व बोलना परमार्थ जाणवानी
 रुचि ६ विस्ताररुचि ६ द्रव्यनाभाव ४ निक्षे-
 पेसातनये करी च्यार प्रमाणे करी जाणे
 ७ क्रिया रुचि जे जीव जिनशासननी क्रिया
 साची करी सूत्रमां कही ते रीते करे आधी-
 पाछी न करे ८ संक्षेपरुचि, जे जीव सिद्धां-

गुणस्थानकविचार.

२१५

तना जाणगीतार्थ आगमने अनुसारे जे अर्थ
 कहे ते साचा करी माने ९ धर्मरुचि, आतमानो
 धर्म ज्ञानदर्शन चारित्रमयी अरूपी आतमानो
 परिणाम भावदया प्रमुख गुणी श्री अरिहंतादि-
 कनो बहुमान वैयावच ते धर्म करी माने
 बीजा बाह्य तपबाह्यकिरिया जे आगममां कह्या
 परमाणे करे ते धर्मनो कारण करी माने ते
 धर्मरुचि, समकित मोक्षमार्ग मूल छे, समकित
 विना जे करणि ते संसार खाते छे (पण)
 मोक्षमार्ग न जाणे ए चोथो गुणठाणो कह्यो
 ४ पांचमो देशविरति गुणठाणो इहां जीवने
 व्रतपचखाण आवे, जघन्ये एक नवकारसी-
 पचरकाण तथा कंदमूलना पचखाण साची
 श्रद्धा सहीत थया होवे तेहने श्रावक कहीईं,

२१६ गुणस्थानकविचार.

उत्कृष्टे इंद्रिसुखनी वांछा विना श्रावकनां
 बारव्रतपाले ते उत्कृष्टो श्रावक कहीइं बार-
 व्रतनां नाम १ स्थूलप्राणातिपात विरमण,
 जे त्रस जीवने निरापराध हणे नहि २ स्थूल-
 मृषावाद विरमण, जे मोटका पांच कन्या-
 लीक १, गवालीक २, भौमालिक ३, थापि-
 णमोसो ४, कुडीसाख न बोले ५ ॥ ३ थूल-
 अदत्तादान विरमण, जे चोरी कीधे राजा दंडे
 तथा च्यार रुडां माणस ठवको दे अथवा
 पोताने भय लागे अथवा सामाना जीवने
 ध्रास्को पडे ते मोटी चोरी करवी नहि ४
 थूलमैथुन विरमणव्रत, जे परस्त्री मनुष्यणी
 तथा तिर्यचणी तथा देवतानी भोगववी नहीं.
 पांच इंद्रिना स्वाद घणा मगनपणे सेवे नहीं

गुणस्थानकविचार.

२१७

५ थूलपरिग्रह विरमण जे धनादिक नव भेदनो परिग्रहनो पञ्चक्खाण करे, ईच्छा परिमाण करे अथवा पोता पासे जे धन होइं ते राखी बीजानो पञ्चक्खाण करे ६ दिक् परिमाणव्रत जे च्यार दिशा तथा ऊंचो तथा नीचो दिसी जावानो मान करे ७ भोगोपभोग परिमाण व्रत जे नीम साचवे, पन्नर कर्मादान न करे, जे पोताने खावेपीवे तथा वस्त्रोनुं मान राखे ८ अनर्थ दंड विरमणव्रत, ते जे मोटका पाप, रंगवां, खेतर खेडवां, भाठो जे चूना प्रमुख न करवानां पञ्चक्खाण करे ९ सामायिकव्रत जे जघन्य २ घडी सुद्धी संसारनां काम मूकी कुटुंब धननो राग तजी कोइथी द्वेष न करवो एहवो समपरिमाण राखवो ते

२१८

गुणस्थानकविचार.

सामायिक कहिं १० देशावगासिकव्रत जे बे
घडीथी च्यार पोहोरथी उणुंकाल दिसनुं
मानकरिथीरचित्तसमतापणे रहेवुं ते देसावगा-
सिकव्रत जाणवुं ११ पौषधव्रत च्यार पोहर
अथवा आठ पोहोर सूधी समतापणे साधुपेरे
श्रावकवरते, मन वचन काया समताई राखे ते
पौषधव्रत कहीइं १२ अतिथिसंविभाग वारमुं
व्रत जे श्रावक ते साधुने विहरावीने पछे जिमवुं
जो तेहवा साधुनो योग न मिले तो साधर्मिक
श्रावकने जीमाडीने जमवा बेसवुं बेठा पछे थो-
डीसीकवार साधुजीनी वाटजोवी इंग करतां
साधुजी नाव्या तो एहवी भावना भाववी जे
धन्य ते श्रावक जे साधुजीने वहोरावीने जिमता
हस्ये इंग चितवी जमवा बेसे ए वारव्रत धरे

गुणस्थानकविचार.

२१९

ते श्रावक कहीइं श्रावकने जघन्य ३ वार उत्कृष्टे ७ वार चैत्यवंदन करवुं, अरिहंतदेव-सिद्ध भगवंतने वंदना करवी तथा नित्य पडिकमणुं बे वार करवुं जो नित्य न थाय तो पाखीनो पडिकमणुं नियमा करवुं तथा पञ्चक्खाण प्रभातना नोकारसी अवस्य साच-ववी, रात्रि चउविहार तिविहार दुविहार ए ३ मांहि एक पञ्चक्खाण अवस्य करवुं ए पांचमा गुणठाणानी स्थितिः जघन्य अंतमु-हूर्त्त उत्कृष्टं देशे उणी पूर्वकोडी वर्षनी जाणवी. ए जीव अठार पाप स्थानक आलोइने निर्मल थयो चारित्रफरसे ते कहे छे, अथ अठारे पाप स्थान लिखीइं छे. कोइ भव्य जीव अव-सर पामीने जैनागम सूणतां संसारथी उभग्यो

२२०

गुणस्थानकविचार.

थको मोक्ष सुखनो अभिलाष करे पण आलंबन विना कार्य नीपजवो दुकर छे तेथी प्रथम देवतत्त्व श्री वीतराग अनंत ज्ञानमय अनंत-दर्शनमय शुद्ध स्वरूपी आत्म ऋद्धिभोगी आत्मालंबी आत्मपरणामी जेहने अवलंबीने अनंता जीव अव्याबाध सुख वरे ते देवतत्व तेहने सेववे सर्व जीव संसारभयथी छुटे तथा निग्रंथपंच महाव्रतधारी संवरस्वरूपी एक निर्मल मोक्षमार्गने विषे जेहनी दृष्टि छे, शरीर इंद्रिय, कषाय, योगनी प्रवृत्तिजीपता मुनिराज अतीतकाल विषय संभालता नथी, वर्तमान विषयमां रमता नथी, अनागतकाल विषयनी आसंसा नथी, पोताना अनंतगुणपर्याय निर्मल करवाने उत्कृष्ट उद्यमवंत छे ते साधु महात्मा

गुणस्थानकविचार.

२२१

गुरूपणे धारवा, तथा धर्मतत्त्व जे जीव द्रव्य
 असंख्यात प्रदेशी स्याद्वाद रीते पोतानी गुण-
 पर्याय परणति ते धर्म श्री सिद्ध भगवानने
 प्रगट छे, श्री अरिहंते उपदिश्यो आचार्य ते
 धर्म साधवाने ज्ञानादिक पंचाचार पाले छे,
 श्रीउपाध्यायजी ते धर्मनी घोषणा करे छे,
 साधुनिग्रंथ ते धर्म साधवाने राज्य तजी इंद्रिय
 विषय तजी वनमां साधु टोला मध्ये अथवा
 एकल वासी वनवासी गुफानिवासी पर्वतनी
 शीला उपर उनाले आतापना शीतकाले
 नदीने तटे शीत खमे छे, जगत्रयथी अव्याक-
 पणे रागद्वेष वारता समतामई श्रुतसंपन्न चा-
 रित्रसंपन्न विचरे छे तथा देशविरति ते सुद्ध
 धर्म प्रगट करवा वास्ते देसविरती लेइ सर्व

२२२

गुणस्थानकविचार.

विरतीनी इहा करतो संसार कार्य ते विष
पाननी पेरे उदासीनपणे करे छे, सम्यग्दृष्टि
ते धर्मनी इहा करतां

कईयासिद्धीलंभो कईयासवेगुणनिरावरणा
कईयाअद्वावाहं, सुहंससुहंसमयेसिजे ॥ १ ॥
कईयापुग्गलरहियो, रमामिसिवमयल
निरुवमसहावो, पासंतोसवपयं भुजंतो-
अप्पणोभावं ॥ २ ॥

ए भावना भाविने धर्मनी अभिलाष
करतां संसारप्रवृत्ति तन्न लोहपद धरवानी रीते
करे छे संसारसंपदा बालक रमवानां धूलघर
समान जाणे छे, ते धर्म प्रगट करवानी रुचि
सर्व जीवे करवी, पण ते धर्म आठ कर्म आ-
वर्यो छे ते आठ कर्मने क्षये प्रगटे ते आठ

गुणस्थानकविचार.

२२३

कर्मनो क्षय, पापस्थान आलोयतां थाये ते पापस्थाननी आलोयणा करवी जे माहरे जीवे संसार भमतां स्वस्वरूपनी भूले हिंसा पापस्थान कर्यो आपणा ज्ञानादिक प्राण हण्या ते भावहिंसा अने रागद्वेषे असंयमे परना प्राण हण्या ते द्रव्यहिंसा ते लौकिक रीते पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय हण्या, संताप्या, छेद्या भेद्या, तपाव्या, परने संक्लेश उपजाव्यो, परणति संकल्पे प्रवर्त्ते हे श्रीवीतराग तुमें सर्व जाणो छो, ते हिंसाने धर्म करी मान्यो हिंसामध्ये राच्यो ए रीते हिंसा पोते ए भवे पाछले अनंतेभवे जे जे हिंसा परणति करी, करावी, करतां, अनुमोदि मने वचने कायाए ते सर्व श्रीप्रभुजीनीसाखे

२२४

गुणस्थानकावेचार.

गुरुसाखे मिच्छामिदुक्कडं ए प्रथम पापस्थान ॥
 हवे वीजो पापस्थान ते मृषावाद जे जूठुं
 बोलवुं, लौकिक संसारकाममध्ये लोकोत्तर
 धर्मकार्यमध्ये ते पिण भाव मृषावाद स्वस्वरू-
 पशुद्ध अध्यात्मभाव पोतानी परणतिने पो-
 तानी न माने, शरीर इन्द्रिय धन कुटुंब ते
 परभाव संसार हेतु दुष्टता मूल तेहने पोताना
 कहे क्रोधेमृषा बोले, भयेमृषा बोले, लोभेमृषा
 बोले ते सर्व माहरे जीवे संसार भमतां चार
 गतिमांही जे मृषावाद घाल्या होय, बोलाव्या
 होय, बोलता अनुमोद्या होय, ते मने वचने
 कायाए ते सर्व श्रीप्रभुजीनी साखे गुरुसाखे
 आत्मसाखे मिच्छामिदुक्कडं २ हवे वीजो
 पापस्थानक अदत्तादान ते जे पारकी वस्तु

गुणस्थानकविचार.

२२५

अणदीधी लेवी ते लौकिक जे संसारी असंय-
मीना धनकंचन द्विपद् चतुःपद् आदिक अण
दीधा लेवा, लोकोत्तर ते जे चैत्यउपगरण
पूजाउपगरण चारित्रउपगरण तेहनो चोरवो
बाह्य वस्तुनो लेवो, ते द्रव्य, भाव ते जीवपर
पुद्गल स्वधादिकनो आत्मानेविषे ग्राहकतारुप
परिणमन करच्यो हवे, कराव्यो, हवे, करतां
अनुमोच्यो हवे, ते मन वचन कायाए ते सर्व
श्रीप्रभुजीनी साखे गुरुसाखे आत्मसाखे मि-
च्छामिदुक्कडं ३ हवे चोथो पापस्थान मैथुन
जे कामी भोगीपणे इंद्री विषे पुद्गलना वर्णा-
दिकनो भोगवचो लोकोत्तर धर्मलिगे धर्मी
महाजन साधु साध्वी धर्मोपकरण चैत्यादिने
विषे इंद्रीनी पोषणा करवी ते वली द्रव्यथी

२२६ गुणस्थानकविचार.

वेद ३ उदये जे कामविकारीपणे भोगविला-
 सादिक, भावथी आत्मपरिणति परभोगीपणे
 पर वस्तु अशुचिपरिणाममध्ये रमणीकता ते
 माहारे जीवे, एकेन्द्रियपणे बेरिन्द्रियपणे, तेरि-
 न्द्रियपणे, चोरिन्द्रियपणे, पंचेन्द्रियपणे फरसन
 १ रसन २ घ्राण ३ चक्षु ४ श्रोत्रेन्द्रिय
 ६ इन्द्रिना त्रेवीस विषय वांच्छ्या सेव्या
 सेवाव्या सेवतां अनुमोद्या होइं ते मन वचन
 कायाए करी श्रीप्रभुजीनी साखे आत्मसाखे
 मिच्छामिदुकुडं ४ हवे पांचमो पापस्थान परि-
 ग्रह जे कोई आत्मधर्मथी अन्यभाव संरक्षणा
 परिणामे राखवा ते, लौकिक परिग्रह द्विपद
 चतुःपद धनधान्य गृहखेत्र वस्त्रप्रमुख, लोको-
 त्तर परिग्रह सम्यक्त्वनो हेतु मोक्षकारण श्री-

गुणस्थानकविचार.

२२७

अरिहंतनो चैत्य तथा जिनविंशे तथा ज्ञाननो
कारण पुस्तक नवकारवाली प्रमुखचारित्र्यां
उपगण तेहने ममत्वभावे ग्रहे, द्रव्य परिग्रह
पुद्गल खंघादि ममत्वभावे ग्रहे, भावपरिग्रह
क्रोधादिक अशुद्ध परिणाम परभावस्वामित्व-
ग्राहकत्वादिक परिणति ते परिग्रह राख्यो
हवे परद्रव्यनी इच्छा करी हवे, परिग्रह सुख
मान्यो हवे, परिग्रह वासते धर्मआचरण करच्यो
हवे ते परिग्रह पापस्थान मने बचने कायाए
करो सेव्यो, सेवाव्यो होय सेवतां अनुमोद्यो
होवे ते श्रीअरिहंतनी साखे गुरुसाखे आत्म-
साखे मिच्छामिदुक्कडं ५ हवे छट्टो पापस्थानक
क्रोधतप्त परिणाम क्षमानो रोधक ते लौकिक
भाई पिता प्रमुख कुटुंब उपर तथा अन्य

२२८

गुणस्थानकविचार.

जीव उपर क्रोध परिणाम लोकोत्तर देवगुरु
 साधर्मिक उपर क्रोध परिणामते द्रव्यतः तथा
 सकंठोरंता भाव रुद्र परिणाम ते जो कोई
 रीतनो अप्रशस्त क्रोध कर्यो होवे कराव्यो
 होवे करतां अनुमोद्यो होवे ते श्री त्रिभुवन-
 पति निरंजन देवनीसाखे गुरुसाखे आत्मसाखे
 मिछामिदुक्कडं. हवे सातमो पापस्थान मान,
 अहंकार ? रूपनो, धननो, राज्यनो, परिवारनो,
 बलनो, तपनो, विद्यानो, कुलनो तथा गुणो
 नहीं ने गुणीनो मान आचार्य उपाध्याय
 साधुपणानो अभिमान संसारकार्य यशाभि-
 लाषे मान, धर्मकार्ये संघयात्राचैत्य प्रमुखनो
 कराव्या रखवाल्यानो मान कर्यो हवे, लौ-
 किक बाह्यलोकोत्तर गुणनो गुणीथी, महत्त्व

गुणस्थानकविचार.

२२९

कर्यो हवे ते सर्व मने वचने कायाइं करि
 कर्यो हवे कराव्यो होवे करता अनुमोद्यो होवे
 ते श्रीप्रभुजीनी साखे आत्मसाखे मिछामि-
 दुक्कडं ७ हवे आठमो पापस्थान माया कपट
 वक्रता जे कोइथी वचननो द्रोह ठगाईं करवी
 ते माया अलौकिक संसारी संबंधथी लोको-
 त्तर आचार्य साधु साधर्मिकथी धर्म पद्धतिनो
 कपट करवो ते द्रव्यतः कोइने वंचवो, भावतः
 आर्जवता रहित परिणामे जे माहरे जीवे
 कर्यो कराव्यो करतां अनुमोद्यो ते मने वचने
 कायाये करी श्रीजगवत्सल परम करुणानि-
 धिनी साखे गुरु यथार्थवादिनी साखे, आत्म
 साखे मिछामि दुक्कडं ८ हवे नवमो पापस्थान
 लोभ, लालची परिणाम इच्छा शृद्धता ते

२३० गुणस्थानकविचार.

लौकिक, बाह्य पोताने इष्ट वस्तु तेहनी लालच जे घणी जडे, इंद्रिय सुख प्रमुख आवे एहवो परिणाम ते लोभ, लोकोत्तर धर्मलिंगे धन विषय जसनो लाभ वांछे ए द्रव्यतः कहुं, जे भावतः परभावाभिलाष सर्व ते जे माहारे जीवे कर्यो कराव्यो करतां अनुमोद्यो ते मने करि वचने करि कायाये करि श्री प्रभुजीनी साखे गुरु साखे आत्म साखे मिच्छामिदुकुडं ९ हवे दसमो पापस्थान रागप्रीत परिणाम वाल्हास जे जीव अजीव पोताने विषे पोषणीये लौकिक तथा लोकोत्तरथी द्रव्य तथा भावथी ते राग परिणति अनंती आत्माथी उपनी अन्य द्रव्यने विषे तेना उदिकनी रीझ ते माहारे जीवे करी करावी

गुणस्थानकविचार.

२३१

करतां अनुमोदि ते सर्व मने करी वचने
 कायाए करी श्रीअरिहंतनी साखे गुरुनी
 साखे मिछामिदुक्कडं १० हवे अग्यारमो पाप-
 स्थानक द्वेष अप्रीति परिणाम जीव तथा
 अजीव उपर पोतानी विषयादि इष्टताये
 अपूरातां जे असूहामणां ते लौकिक उपर
 द्वेष तथा लोकोत्तर उपर द्वेष जे कर्यो होवे
 कराव्यो होते करताप्रत्ये अनुमोद्यो होवे ते
 मने वचने कायाये करी ते श्रीसर्वज्ञनी साखे
 गुरु साखे मिछामिदुक्कडं ११ हवे बारमो
 पापस्थान कलह वढवाड कोईथी द्रव्य वासते
 जस वडाई वासते आक्रोश कुपचनादिक
 करवा तथा धर्म मध्ये नामगावा वासते,
 कुयुक्तिये पोतानो मत थापवाने जे कलह

२३२

गुणस्थानकविचार.

करवे प्रशस्त करतां अप्रशस्त थयुं होवे ते सर्व मने वचने कायाए करी कर्तुं कराव्युं अनुमोद्युं ते देवसाखे गुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामिदुक्कडं १२ तथा तेरमो पापस्थान अभ्याख्यान कुडोआल देवो द्वेषे तथा हास्ये गुणीना गुण ओलववा, आगलाने सहसात्कारे हिणो वचन कहेवो तथा वस्तुगते लोपीने फट्कार करवो ते लौकिक अन्यजीवने संसारी रीते, लोकोत्तर अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु साधर्मिक देशविरति समकृती तेहनी औदयि चाल देखी कलंक देवो ते अभ्याख्यान कर्या होवे, कराव्या होवे करतां अनुमोद्या होवे ते मने वचने कायाए करी श्रीप्रभुजीनीसाखे गुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छा-

गुणस्थानकविचार.

२३

मिदुक्कडं १३ हवे सोळमो पापस्थान परंपरिवाद.
 पारकी निंदा ते द्वेषे पारका अवगुण कहा,
 कोइना अपजस वास्ते पारकी कुथली करी
 अथवा सामा मनुष्यने खिसाणो पाडवा वासते
 जे निंदा करी ते मध्ये लौकिक ते जे संसारी
 जीवनी, लोकोत्तर गुणी जैनमार्ग अवलंबता
 मार्गानुसारिथी मांडी सिद्धभगवान लगे जे अव
 र्णवाद बोलवो ते बोलयो होवे बोलाव्यो होवे
 बोलताने अनुमोद्यो होवे ते मन वचन कायाए
 करीने श्रीप्रभुजीनी साखे, गुरु साखे, आत्म
 साखे मिछामिदुक्कडं १४ पन्नरमो पापस्थान
 रति तथा अरति उपजे असाता दुःखवियोग
 हानि प्रमुख उपजे जे अरति आकुलता किहां-
 इ सुहाय नही ते अरति लौकिक विषयनी

२३४

गुणस्थानकविचार.

ऊणी असुहामणे, तथा लोकोत्तर आगम सुण-
तां देवयात्राये तप सामायकपोसह भणवो
प्रमुख ते मध्ये अरति करि होवे तथा रति,
इंद्री विषयमध्येरीझ सुहामण रक्तता विश्राम
ते रति लौकिक, तथा लोकोत्तर चैत्य पुस्त-
कादिकनी सुंदरता देखीने जे इंद्री विषे रीझ
पांमे ते रीझ ए नचां कर्म बांधवाने आकरि
चिकणता जे माहरे जीवे करी, करावी, क-
रतां अनुमोदी ते मने वचने कायाये करी
श्रीपरमात्मानी साखे गुरुनी साखे आत्म
साखे मिळामिदुक्कडं १५ हवे चउदमो पापस्थान
पैशुन्य पारकी चाडी करवी ते जे द्वेषे थाये
आगल्पा जीवनेकष्ट असातानो हेतु राजा
तथा आचार्यादिक अधिक आगल तेहना छता

गुणस्थानकविचार.

२३५

अथवा अच्छता दोष कही तेहनो आश्रय भां-
जवो ते पैशुन्य कहिये ते जे माहारे जीवे
करचो कराव्यो करतां अनुमोद्यो मनेवचने
कायाए करी श्रीप्रभुजोनी साखे, आत्मसाखे
गुरुसाखे मिछामिटुकुंडं १६ हवे सत्तरमो
पापस्थान माया मृषा कपटे परने ठगवा वास्ते
मिटुं बोले, कोइ कपटलिंग बंगलानी पेरे दे-
खाडीने गुणी नहि ने गुणी रीते वंदाववो,
पूजाववो मनाववो कराववो अथवा लौकिक
वचने व्यापार प्रमुख मध्ये कपटे मृषा
बोले तथा धर्मचाले जैनागम मध्ये कपट रीते
प्रवृत्ति करवी ते लिंगी जीव प्रमुख करवां ते
जे माहारे जीवे करचां कराव्यां करतां अनु-
मोद्या ते मने वचने कायाए करी श्रीप्रभुजीनी

२३६

गुणस्थानकविचार.

साखे गुरु साखे आत्म साखे मिछामिदुकुंडं
 १७ हवे अठारमो पापस्थान मिथ्यात्व जे
 कुदेव विषयी कर्माधीन परिग्रही पुण्यप्रकृति
 भोगि तेहनं देव माने, कुगुरु चारित्रधर्म रहि-
 त जे अन्य लिंगी तथा स्वलिंगी गुणभ्रष्ट
 परिग्रहनो लोभी अठार पापस्थान भरच्या ते
 गुरु करी माने, धर्म यथार्थ आत्मपरिणति
 विना अथवा तेहना साधन विना धर्म माने
 तथा जीवादिक नव तत्त्व जिम वस्तुधर्म वस्तु-
 पणे पोतानी परिणति छे, षट्द्रव्ये जिम पोता-
 नो परिणति गुणपर्याय स्वभाव स्याद्वाद रीते
 जिम छे तिम न सदहे कल्पित रीते सदहे
 तेने मिथ्यात्व कहे छे, तेहना मूल भेद ५
 अभिग्रहमिथ्यात्वं-खोदोकदाग्रह ज्ञात्यो मूके

गुणस्थानकविचार.

२३७

नहि १ अनभिग्रह मिथ्यात्व गुणभवगुण
 परख्या विना सर्व सरिखा माने २ अभिनि-
 वेश मिथ्यात्व. जाणीने खोटो कदाग्रह खेचे
 ३ संशयमिथ्यात्व जे सर्व संशय मध्ये रहे
 ४ अनाभोग मिथ्यात्व जे कांइ जाणे
 नहि तथा साध्य साधन निमित्त तथा
 उपादान उत्सर्ग अपवाद विपर्यास रीते करि
 एहवी अशुद्ध सद्वहणा जे वेदांतादिकनी ते
 सर्व मिथ्यात्व जाणवो, ते जे सेव्यो होवे,
 सेवाव्यो होवे सेवतां अनुमोद्यो होवे मने
 वचने कायाए करीने ते श्रीप्रभुजीनी साखे
 गुरुसाखे आत्मसाखे मिच्छामिदुक्कडं, ते मि-
 थ्यात्व जीवने महादुःखकारी छे, अनादि सं-
 सारनो बीज छे, लोकोत्तर श्रीजिनेंद्रनो कण्ठो

२३८ गुणस्थानकविचार.

शुद्धमार्ग जीव पासे नहीं ते मिथ्यात्व महापाप-
 स्थान छे ते थकां धर्म करणी विण साधक न
 थाय ते माटे मिथ्यात्वनो पश्चात्ताप वणो करवो
 ते मिथ्यात्व टलतो नथी ते जे पूर्व जीवे गुणीनी
 आशातना तथा गुणनो अनादर कर्यो छे ते
 महागुणी अरिहंत देखे तेहनी भक्तिने काजे
 उत्तम भव्यजीवे जे धनादिक रह्यो थको
 पोताना आत्माने तथा अन्य संसारी जीवने
 सिण (स्नेह) सरागता, परिग्रहता हिंसादि-
 कनो हेतु थाये तिणे गुणीनी भक्ति जोडतो
 निरधिकरणी थाये ते माटे जे अरिहंतनी
 भक्ति कारजे कर्यो जे धनादिक ते देवको
 कहिये ते जे स्वाधो होवे अथवा पोते विण-
 साड्यो होवे अथवा उवेख्यो होवे ते सर्वे

गुणस्थानकविचार.

२३९

देवकाना दूषण थयो ते माटे देवका दोषनी आलोयणा करवी ते लखीये छे जे माह्वरे जीवे एकेंद्री पृथ्वीकायपणे जिनबिंबादिकनी आशातना करी अथवा पृथ्वीकायपणे मुक्यां जे शरीर तेहथी जे गुणी अथवा गुणीनी थापना चैत्यादिक तेहने व्याघात थयो तथा अप्कायपणे पाणिमे चैत्य बहेवराव्या पाड्या जिन बिंब वहाव्यां तथा अग्निकायपणे जे चैत्यबिंबादिक बाल्या होवे, तथा वायुकायपणे चैत्य पाड्यो होवे, तथा वनस्पतिकायपणे जे चैत्य मध्ये रुखडा झाड खापणे उगीने चैत्य पाड्या होवे, त्रसकायपणे चैत्यमध्ये मालादिक करी रह्या हवे पंखीने भवे चैत्य तथा जिनबिंब उपर बेसी असमंजस आचरण कर्यां होवे, तथा

२४०

गुणस्थानकविचार.

देवकाद्रव्य मनुष्यपणे जाणि तथा जाण्या
 विना खाधा होवे अथवा अविधि वावर्या
 होवे तथा देवका उपर अन्याय हुंकम कर्या
 होवे, अथवा देवकी वस्तु वावरीने पोताना
 यश बोलाव्या होवे, देवका दोकडा व्याजे
 राखी थोडो व्याज भरी आप्यो होवे अने
 घणो लाभ लीयो होवे, तथा बीजो पण
 देवथी इंद्री सुख यशवडाई प्रमुख जे करी
 होवे तथा अरिहंत देव प्रते सांसारिक कामे
 मान्या इच्छ्या होवे ते मने वचने कायाए
 करी मिच्छामिदुक्कटं. हिवे माहार ए कार्य
 अशुद्धाचरणरूप न करवुं आज पछी माहारो
 आत्मा अनंतगुणमयी प्रगट करवानी रुचि
 करवी श्रीअरिहंतनो कखो मार्ग तहत्त करी

गुणस्थानकविचार.

२४१

सद्दहवो, अन्य सर्व मिथ्या, श्रीवीतरागे कह्यो
 निग्रंथे आचर्यो समकित्ती जीवे सद्दह्यो श्री-
 गणधर देवे आगम मध्ये गुंथ्यो शुद्ध धर्म
 माहरो तथा सर्व जीवनो हित छे ते माहारे
 प्रमाण ते सद्दहवो. ते जाणवो ते आदरवो ते
 नीपजाववो. जे समये समये गुणस्थान चढी
 कर्मक्षय करी संलेशी अंते पोतानी सिद्ध
 संपदा प्रगट् थास्ये ते समयसार मानवो अने
 जेने ए मारगनी परतीत प्रगटी तेने शरणे
 रहेवो तथा साध्य शुद्धसत्ता साधन गुणठाणे
 चढी ते रत्नत्रयी परणमवी ए मार्ग माहरो
 सदा अविद्वड होज्यो इति ॥

२४२

गुणस्थानकविचार.

॥ दूहा ॥

परम अध्यात्मने लखे, सद्गुरुकेरे संग;
 तिणकुं भव सफलो होव, अविहड प्रगटे रंग. १
 धर्मध्यानको हेत यह, शिव साधनको खेत;
 ऐसो अवसर कव मिले, चेत सके तो चेत. २
 वक्ता श्रोता सम मिले, प्रगटे निजगुणरूप;
 अक्षय खजानो ज्ञानको, तीन भूवनको भूप. ३
 एह पत्र अनुपहे, समझे जे चित्तलाय;
 देवचंद्रकवि इंमकहे, निज आतम थिर थाय. ४

इति अठार पापस्थान जाणवां. हवे छठो
 गुणठाणो प्रमत्त साधु एहवे नामे कहीये जे
 प्रत्याख्यानी चोकडीनो उदय टलयो सर्व
 विरति प्रगटी, संयम साधन माटे पौद्गलिक

गुणस्थानकविचार.

२४३

भावे ग्रहेपण पुद्गलने भोगिपणे ग्रहे नहीं. स्वरूपरमणी आत्मधर्म थिरता रूप सर्वपरभाव उपर अग्राहकतारूप चारित्रधर्म प्रगटयो छे ते साधु उत्सर्ग अपवाद मार्गेपंचमहाव्रत पाले छे, तिहां द्रव्यभाव पंच महाव्रत सहित पांच समिति तीनगुपतिना दश यति धर्मना पात्रथका निराशंसी एक आत्मा निर्मल करवाना उद्यमथकी विचरे ते पंच महाव्रत, तिहां पहेलो महाव्रत सव्वाओपाणाईवायाओविरमणं ” विवहारे छकायना जीवना द्रव्य प्राण १० हणे नहीं हणावे नहीं हणताने अनुमोदे नहीं. मन वचन कायाए करीने, निश्चयथी ज्ञानदर्शन चारित्र सुख प्रसुख भावमाण पोताना परना कर्म

२४४

गुणस्थानकविचार.

आवरणपणे हणे नहि, हणावे नहि, हणतां अनुमोद्ये नहीं, तथा बीजे महाव्रते, सव्वाओ मोसा वायाओ वेरमणं. द्रव्यत क्रोधे माने मायाए लोभे स्रक्षमवादर लौकिक तथा लोकोत्तर जूठुं पोते बोले नही बोलावे नहि बोलता अनुमोद्ये नहि मन वचन कायाए करी, भावथी सर्व द्रव्य पर्यायनो यथार्थ जाणवो, सत्य भासनरूप ज्ञायकता शक्ति सार्धि ज्ञान सत्यपणे पाले तथा श्री वीतरागना आगम प्रमाणे अर्थ भाव ले तेहनी सझाय करे जेहथी पोताना ज्ञानदर्शन चारित्र निर्मल थाये ते भाषा बोले. त्रीजो महाव्रत सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं” जे द्रव्य ते व्रणतुस मात्र पण अण दीधो लेवे नही, लेवरावे

गुणस्थानकविचार.

२४५

नही, जे लेवे तेहने सारो कहे नही, मने वचने कायाए करीने लौकिक चोरी जे संसारी जीवनी वस्तु चोरी लेवी, लोकोत्तर चोरी जे तीर्थकर आणमे जे न लेवानो कह्यो ते लेवो ते चोरी न करे, भावथी आत्मानी ग्राहकता शक्ति ते स्वरूप ग्रहणरूप कार्यना कर्ता छे ते अनादिनी परभाव ग्राहकता करी रह्युं छे ते निवारीने स्वरूप ग्राहकपणे परण-मावे, ते अदत्तादान विमरणव्रत थयो ते अदत्तादान चार भेदे छे ते तीर्थकर अदत्तजे तीर्थकरनी आणामे न लेवो कह्यो सर्व परभाव ते लेवे १ बीजो गुरुअदत्त जे गुरु परंपरा विनासूत्र अर्थ कहेवा २ तीजो स्वामी अदत्त जे वस्तुनो जे धणी होवे तेनी अणदीधी जे

२४६ गुणस्थानकविचारः.

वस्तु लेवी ते ३ चोथुं जीव अदत्त जे कोइ जीव एम कहो नथी जे माहरा प्राणहणो अने पोतानेइंद्रीसवाद माटे परजीवना प्राणहणे ते जीव अदत्त ४ तथा प्रशस्त काम करतां कोइ जीवना प्राणघात थाये ते श्री भगवंते हिंसा कही नथी, ते त्रिनय तथा वैयात्रच्चमां गण्युं छे ए द्रव्यभाव अदत्तादान त्रिविधि त्रिविधिपणे होवे. चोथे महाव्रते “सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं” जे द्रव्यथी पांच इंद्रिना त्रेवीस विषय सेवे नही, सेवतां अनुमोदे नहीं, मनुष्य तिर्यच देवताना विषयनी वांछा न करे, न करावे, अनुमोदे नहीं, भावथी जे आत्मा द्रव्य आत्म गुणनो भोगी छे ते पण करम करवा माटे परभावने भोगवे

गुणस्थानकविचार.

२४७

ते भाव मैथुन छे, ते सर्व परभाव भोगीपणे भोगवे नही, ते आत्मानिःकर्मा करवा माटे, परभाव साधनपणे ग्रहे पण अभोग्य अग्राह्यपणे अरमणिक माने जे माहरी आत्मा आत्मानंदनो भोगी ते परभाव अनंत जीवे अनंतवार लेइ भोगवीने वम्यो ते मने ग्रहवो भोगववा घटे नही ए अनंत जीवे अनंतीवार भोगवी जे अँठ जडचल तेहने हुं भोगवुं नहीं इम सर्व परभाव भोगीपणो तजी स्वभाव भोक्तापणे रहेवो ते द्रव्यथी मैथुनना कारणरूपी खंध तथा रूपी खंध मिल्या जीवनो, खेत्रथी मैथुन तीन लोकने विवे इंद्दीना सवादनी ईच्छा, कालथी मैथुन दिवस तथा रात्री, भावथी मैथुन रागथी तथा द्वेषथी, ते

२४८

गुणस्थानकविचार.

सर्वथी सेववो नहीं तेहनी वाड नवे पालवी १
 वाडे जे थानके स्त्री पशु पंडक रहे ते थानके
 ब्रह्मचारीए रात्रीये रहेवुं नहीं. बाजी वाडे स्त्री
 साथे हासि तथा कामकथा करवी नहीं, त्रंजी
 वाडे जे पीठ पाटले स्त्री बेठी होये ते पाटले
 बे घडी लगे ब्रह्मचारी पुरुषे बेसवुं नहीं, स्त्रीये
 तीन पहोर लगे बेसवुं नहीं, चोथी वाडे
 स्त्रीनुं रूप नजर जोडीने जोवुं नहीं. पांचमी
 वाडे जिहां स्त्री भरतार काम भोग भोगवता
 होवे ते भीतने अंतरे ब्रह्मचारीये राते रहेवुं
 नहीं, तेहना शब्द काने पडवा देवा नहीं.
 छठी वाडे गृहस्थपणे जे भोग भोगव्या ते
 संभारवा नहीं. सातमी वाडे सरस आहार
 जेहथी काम दीपे ते आहार करवो नहीं, आ-

गुणस्थानकविचार.

२४९

ठमी वाडे अतिमात्राए आहार करवो नहीं,
 नवमी वाडे शरीर सिणगार लूगडानो तथा
 घरेणानो करवो नहीं, सनान उगटना न क-
 रवा, एकली स्त्री साथे एकलुं वाटे चालवुं
 नहीं, तथा नानुं बालक तथा बालिकाथी एक
 शय्याए सुवुं नहीं, सात वरस पछी, पांचमे
 महाव्रते “सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं” जे
 द्रव्यथी परिग्रह सूक्ष्मवादर राखे नहीं रखावे
 नहीं, राखे तेहने अनुमोदे नही, जे संयम
 पालवा माटे सुखे सिझाय थाये ते माटे उपक-
 रण १४ राखे, कारणे अधिको जोइए तो
 गृहस्थनाथका पाडेहं वापरे ए थिरकल्पीनो
 विवहार छे, जिनकल्पी कोई उपगरण न राखे,
 अपवादे दस उपगरण राखे, बार कषाय

२५० गुणस्थानकविचार.

उदय टल्या तेहने छट्टो गुणठाणो कहीये साधु कहीये. पण ५ परमाद सेवे निद्रा १ विकथा २ आहार ३ अल्पविषय ४ मानादिक ५ ए अल्प सेवे अनाभोगे जाणे, सेवे नहीं, ए छट्टा गुणठाणानी स्थिति जघन्ये एक समय उत्कृष्टे अंतर्मुहूर्त ए गुणठाणे तीन चारित्र सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि ए तीन चारित्र छे. तेहनो स्वरूप जे परभाव परत्यागे स्वरूप एकत्वते चारित्र कहीये ते मध्ये जे तजवा योग्य भाव तजे ते द्वेष विना अने रत्नत्रयीजे आत्मधर्म ते ग्रहे स्वधर्म माटे पण लौकिकादिक इष्टता राग विना एहवो समपरिणाम ते सामायिक कहीए, तथा जे सामायिक मध्ये संज्वलनना तीव्रोदये जे आकरा

गुणस्थानकविचार.

२५१

अतिचारे अथवा वार कषायने उदये असंज-
मपरिणाम फरसे जे पूर्व पर्याय छेनीने अभि-
नव निर्मल पर्यायनो अंगीकार करवो ते छे-
दोपस्थापनीय कहिये, अने छेदोपस्थापनीचा-
रित्र भरत ५ तथा ऐरवत ५ ते मध्ये प्रथम
चरम तीर्थकरना साधुजीने होवे तथा तीर्थ-
कर तथा गणधरजीना शिष्य नव पूर्वथी
उपरांत श्रुतवंत मध्य युवानवयि प्रथम संघ-
यणे अठार मासनो उग्रतप ते अप्रमादी निद्रा
रहित नवजणा वनवासी थका जे तप करे ते
परिहार विशुद्ध चारित्र कहिजे, दशमे गुण-
ठाणे शुक्लध्यान तथा सूक्ष्म लोभनो उदय छे
ते सूक्ष्म संपराय चारित्र कहिजे, तथा सर्वथा
कषायनो उदय नथी ते यथाख्यात चारित्र

२५२

गुणस्थानकविचार.

कहिजे ते मध्ये ११ मे गुणठाणे उपशांत यथाख्यात छे १२, १३, १४ मे गुणठाणे क्षायिक यथाख्यात छे, हवे सातमो अप्रमत्त गुणठाणो लिखीये छे, छठे गुणठाणे जे भाव साधुजीना कहा ते सर्व होवे पण पांच प्रमाद न होवे, ते माटे अप्रमाद, ए छठे गुणठाणे वरततो साधुजिन शासनने कामे लब्धि फोर वे पण सातमे गुणाठणे वरततो साधु लब्धि न फोरवे, एहनी स्थिति जघन्य एक समय-उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्तनी छे. छठे तथा सातमे गुणठाणे मिलीने साधु देशे उणी पूर्व कोडी रहे. श्री भगवती सूत्रे ए वे गुणठाणानी देशे उणी पूर्व कोडी स्थिति जूदी कही छे. ते व्यवहार नये छे, समय तथा वे समय वच्चे

गुणस्थानकविचार.

२५३

गुणठाणो पलटे ते गवेह्यो नथी ते माटे अंतर्मु-
 हूर्तनी स्थिति कही. छठे, सातमे बे गुणठाणे
 सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय तथा परिहार
 विभुद्धि चारित्र छे, तथा सातमे गुणठाणे
 साधु लब्धि फोरवे नहीं अने छट्टा गुणठा-
 णाना साधु जिनशासनने काजे लब्धि
 फोरवे तेनुं साधुपणुं जाय नहीं ७ आठमो
 अपूर्वकरण गुणठाणो जे जीव भावनाभा-
 वतो आत्मानो स्वरूप अनंतज्ञानमयी, अ-
 नंतदर्शनमयी, अनंतचारित्रमयी, अनंतदान-
 मयी, अनंतलाभमयी, अनंतभोगमयी, अनं-
 तउपभोगमयी, अनंतवीर्यमयी, अनंतअव्या-
 वाधसुखमयी, परमआनंदमयी, अरूपी, अवे-
 दी, अकपाई, अलेसी, अशरीरी, अनाहारी,

२५४

गुणस्थानकविचार.

सर्वआनंदरूप माहरो धर्म छे ए शरीर, आहार तेहुंनहीं, एहवी भावनामांहे परणम्यो जीव शुद्धध्याननो पेहलो पायो ध्यावे, इहां पांच अपूर्वकरणकरे पूर्वे किंवारे नकरथां होय ते करे तेहनां नाम पेहलो अपूर्वकरण थितिघात जे जीव कने असंख्याता थित जघन्य थोकडा हता ते करमथिति सघली खपावी अथवा उपशमावी बीजो अपूर्वसंघात जे कर्मना रस चीकणास हती ते खपावी पातलुं करवुं, त्रीजो अपूर्वगुण श्रेणि जे जीवने सत्तामांहे करमदल हतां ते सरवे विखेरी नाखवा, चोथो अपूर्वगुणसंक्रम आत्मना गुणमे रमवो, पांचमो अपूर्व जे नवोस्थितिबंध न करवो एहवा

गुणस्थानकविचार.

२५६

परिणामथी कषाय स्वपावीने आतमा शीतल
 परिणामे परगम्यो करम निर्जरा करे
 ते ए गुणठाणे जघन्य एक समय उत्कृष्ट
 अंतमुहूर्तनी स्थिति छे, ए गुणठाणे चारित्र
 सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय ए वे छे ८
 नवमो गुणठाणो अनिवृत्तिवादर छे ते शुद्ध
 ध्याननो पहेलो पायो तेथी आवे, ए गुणठाणे
 वर्तता जाव एक अध्यवसाये जेटला होवे
 तेटला सर्वनो एक सरखो परिणाम एक
 सरखो संवर, एकसरखी निर्जरा, एहने
 सामायिक तथा छेदोपस्थापनीय ए वे चारित्र
 होवे, एहने अंते तीन वेद जाये तथा तीन
 कषाय संजलनो क्रोधमान माया लोभ जाये ए
 गुणठाणे संख्याता जीव होये. ए गुणठाणानी

२५६

गुणस्थानकावेचार.

स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतमुहूर्त्तनी
 छे. ९ दशमो गुणठाणो सूक्ष्म संपराय इहां
 सूक्ष्म संज्वलननो लोभ उदय होवे. इहां वे
 जातना जीव पापीवे, उपशम श्रेणि तथा
 क्षपक श्रेणि. करमने उपशमावे क्षपकश्रेणि
 कर्म मोहनने स्वपावे, ए गुणठाणे एक सूक्ष्म
 संपराय चारित्र होवे, ध्यान शुद्ध होवे परि-
 णाम निरमल होवे, ते अवेदी छे एहनी स्थिति
 जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतमुहूर्त्तनी छे. १०
 इग्यारमो गुणठाणो उचशांतमोह तिहां जे जी-
 व उपशम श्रेणि आठमेछतोघोलना परिणाम-
 शांत मोह कर्मनी प्रकृतिउपशमावतो जाय. ते-
 हनो उठाणधुरथीज उपशमावानो छे ते नवमे
 आवी मोहप्रकृति उपशमावी दशमे लोभ उप-

गुणस्थानकविचार.

२५७

शमावीने कषायना उदयरहीत छे ते इग्यारमे आवे ते थयथाख्यात चारित्र पामे, एहने चौबीस संपरायकी क्रिया उतरी एकइरिया-वहिकी क्रिया रहे. प्रकृति तथा परदेश ए बंध रह्या छे हेतु न वांछे, बंध एक सातावेदनीनो छे, ध्यान शुक्ल छे ए गुणठाणे जे जीव मरण पाम्या पछी चोथे गुणठाणे आवे ते देवता लवसत्तमीया थाए, एकावतारी थाए. अथवा कोइक जीव अगीयारमे गुणठाणे उपशांत अद्राते जई पाछो पडे ते इग्यारमाथी दशमे आवे दशमाथी नवमे आवे नवमेथी आठमे आवे आठमेथी सातमे आवे सातमेथी

१ पडी पाछो क्षमक श्रेणिये चढी.

२२८

गुणस्थानकविचार.

छठे आवे. इहार्थी पाछो पडे नचहे तो पाछो पांचमे गुणठाणे आवे, पांचमार्थी चांथे आवे, जो क्षायक समकित्ती होए तो चोथे गुणठाणे टके अने उपशम समकित्ती होए तो चांथार्थी पडी बीजे सास्वादन गुणठाणे थईने पहेले मिथ्यात्व गुणठाण आवे, कांइ एक जीव अंतमुहूर्त रहे, कांइक जीव देश आणोअर्थ पुद्गल परावर्त मिथ्यात्वीपणे रहे पळे समकित पामे, एअर्गायारमो गुणठाणो एक जीव च्यारवार पामे, एक जीव एकभवमांहि ववार पामे, एहनी स्थिति जघन्य एक समय उत्कृष्ट अंतमुहूर्तनी छे. एअर्गायारमो, हवे बारमो क्षीणमोह गुणठाणो ते जे जीव आठमा गुण-ठाणार्थी कर्म स्वपावतो तात्र बीज निरमल

गुणस्थानकविचार.

२५९

उपयोग शुद्ध शुद्ध ध्यानने बले नवमे दशमे गुणठाणे मोहनी कर्म स्वपावी बारमे गुणठाणे आवे, एह शुद्ध ध्याननो बीजो पायो एकत्व-वितर्क अप्रविचार ध्यावे, एहथी आयु बले धनघाता तीन कर्म ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय स्वपावे, एहनी स्थिति अंतमुहूर्तनी छे. १२। तेरमो गुणठाणो सयोगी केवली जे जीव वारमाने अंते ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ए स्वपे केवलज्ञान केवलदर्शन प्रगटे, लोक अलोकना सर्व भाव अर्तातकाल अनागतकाल वर्तमानकाल सर्व प्रत्यक्ष आत्मवले इन्द्रिय विना जाणे देखे, इहां जे अंतगड केवली होवे ते केवली समुद्घात करीने मोक्ष जाय अने जे केवलीनो

२६० गुणस्थानकाविचार.

आऊखो घणो होवे ते अनेक जीवने उपगार करतां अनेकदेशना देता विचरे देशे उणीपूर्व कोडी लगे विचरे. तथा जे तीर्थंकरदेव केवलीपणे विचरे ते चोत्रीश अतिशय तथा आठ प्रातिहारज विराजमान थका नवा सोनाना कमले पग थापता चाले, योजनप्रमाण मांडले-समोसरणे सोनाने सिंहासने तीन छत्र माथे वीराजता वे पासे चामरनी जोड विज्ञता हजार धजा इंद्रधजा लहेकता देशना देता जघन्य बहोतेर वरसने आऊखे उत्कृष्टे चौ-रासी लाख पूरवने आऊखे विचरे, अनेक जीवने धरम उपदेश दे, गणधर थापना करे, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ए च्यार संघ थापे, द्वादशांगी सिद्धांत प्ररूपे. अने सामान्य

गुणस्थानकविचार.

२६१

केवलीने अतिशय नहोवे ते छेडे आवरजी-
करण करे पछी जो आऊखो अने बीजा
करम सरखां होवे तो केवली समुद्घात न
करे, अने जो आऊखेथी (अन्य) करम घणा
होवे तो केवली समुद्घात करे तेहने आठे समय
लागे, ए तेरमा गुणठाणानी स्थिति जघन्य
अंतर्मुहूतनी छे उत्कृष्टे देश उणीपूर्ण कोडी
वर्षनी छे १३ ॥ चउदमे गुणठाणे अयोगी
केवली ते जे जीव तेरमे गुणठाणे जोगरोध
करवा मांडे, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाते शुक्ल
ध्याननो त्रीजो पायो ध्यावतो ते चउदमे
गुणठाणे चढे तिहां प्रथमथी बादर मनोजोग
रोके पछी बादर वचनजोग रोके पछी बादर
कायाजोग रोके पछी सूक्ष्म मनोयोग केरो

२६२

गुणस्थानकविचार.

पछी सूक्ष्म वचनजोग रोके पछी मृक्ष्म काया-
जोग रोके शरीररहित थाए जेटलो देहमान
होवे जघन्य वे हाथनो उत्कृष्टो पांचसे धनु-
षनो त्रीजे भागे घटाडे, तेवारे जघन्य वत्रीस
आंगुलनी उत्कृष्ट तीनसेतेत्रीस धनुष वत्रीस
आंगुलनी अवगाहना रहे, तेवारे आत्मा
अयोगी अक्रिय, अलेसी, अनाहारी, अश-
रीरी, शुक्ल ध्याननो चौथो पायो थईने
अघाती करम च्यार, वेदनाकर्म १ आउखो-
कर्म २ नामकर्म ३ गोत्रकर्म ४ नो क्षय
करीने मोक्ष जाय ॥ इतिश्री चउदसुं गुणस्था-
नकं संपूर्णम् ॥

पंडित श्रीदेवचन्द्र गणि विरचित

॥ अध्यात्मगीता ॥

श्री संवेगीसिरदार शिरोमणि जिन उत्तम
पदपंकज रूप, शिष्य अभीकुंवर कृत बाला-
बोध सहिता ॥

॥ ढालभंवरगाथानी ॥

प्रणमिये विश्वहित जिनवाणी ।
महानंद तरु सींचवाऽमृत पाणी ॥
महा मोहपुर भेदवा वज्रपाणी ।
गहन भवफंद छेदन कृपाणी ॥ १

२

अध्यात्मगीता.

अर्थः—प्रणामिये कहेतां नमस्कार प्रते करिये छे. केहने नमस्कार करिये छे? के विश्वहित जिनवाणी. एटले विश्व कहेतां जग-त्रयना जीव, तेहने हेतना करणवाली जिनवाणी कहेतां जिनेश्वर देवनी वाणी, तेहने नमस्कार प्रते करिये छे. एटले वली जिनवाणी केहवी छे? के महानंद तरु सींचवा अमृत पाणी. एटले माहा कहेतां जे मोटो, अने नंद कहेतां जे आणंदमयी, एहवो मोक्षरूपीयो तरु कहेतां वृक्ष, तेहने सींचिने नव पल्लव करवाने जिनवाणी केहवी छे? के अमृत समाणी कहेतां अमृत समान जाणवी. एटले वली जिनवाणी केहवी छे? के माहा मोहपुर भेदवा वज्रपाणी. एटले महा कहेतां जे मोटो,

अध्यात्मगीता.

३

मोह रूप पुर कहेतां जे नगर, तेहनें भेदवानें
जिनवाणी केहवी छे ? के वज्रपाणि कहेतां
इंद्र समान जाणवी. एटले जिम वज्रे करीने
इंद्र असुरादिकना नगर प्रते विदारे तिम,
इहां जिनेश्वर देवनी वाणी रूप वज्रे करी
सित्तेर कोडाकोड मोहनी कर्म रूप स्थात छे
तेहने विदारी, एक कोडाकोडिनी मांहिली
पासे आणी भेले, ए परमार्थ. एटले वली
जिनवाणी केहवी छै ? के गहन भमफंद छे-
दन कृपाणी. एटले गहन कहेतां जे आकरी,
एहवी भवरूप फंद कहेतां जे अटवी, छेदवा
नें जिनवाणी केहवी छे ? के कौवाड़ी समान
जाणवी ॥ १ ॥

૫

અધ્યાત્મગીતા.

॥ ચાલ સૂરતી મહિનાની ॥

દ્રવ્ય અનંત પ્રકાશક, ભાસક તત્ત્વ
 સ્વરૂપ । આતમ તત્ત્વ વિવોધક,
 શોધક સચ્ચિદ્રૂપ ॥ નય નિક્ષેપ
 પ્રમાણે, જાણે વસ્તુ સમસ્ત । ત્રિ-
 કરણ યોગે પ્રણમું, જૈનાગમ સુ-
 પ્રશસ્ત ॥ ૨ ॥

અર્થ:—વલી જિનવાણી કેહવી છે ?
 કે દ્રવ્ય અનંત પ્રકાશક. ઇટલે દ્રવ્ય અનંત
 કહેતાં ઉદય ભાવને જોગે કરી જીવ અજીવ
 રૂપ અનંતા દ્રવ્ય જગત્રયને વિષે રહ્યા છે, તે-
 હને જિનવાણી કેહવી છે ? કે પ્રકાશના કર-
 ણવાલી છે. અને ભાસક તત્ત્વ સ્વરૂપ ઇટલે

अध्यात्मगीता.

५

भासक कहेतां आत्म तत्त्वना भासननी कर-
णवाली छे. आत्म तत्व विबोधक शोधक
सच्चिद्रूप. एटले वली जिनवाणी केहवी छे ?
के आत्म तत्त्व विबोधक कहेतां आत्म
तत्त्वना बोधनी करवावाली छे एटले जिनवाणी
सांभलतां थकां आत्मा बोध बीजनी प्राप्ति प्रते
पामे. अने वली जिनवाणी केहवी छे ? के
शोधक सच्चिद्रूप. एटले शोधक सच्चिद्रूप कहे-
तां ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण
आत्माने विषे शक्ति पणे रह्या छे तेहने जिन-
वाणी केहवी छे ? शुद्धनी करवावाली जाणवी.
जिम सोनाने विषे मेल रह्यो छे ते सोनो,
अग्निने जोगे करी शुद्ध थाय तिम, आत्मा
ने विषे कर्म रूप मेल रह्यो छे ते आत्मा,
जिनवाणीने जोगे करी शुद्ध थाय छे. ए पर-

६

अध्यात्मगीता.

मार्थ जाणवो. नयनिक्षेप प्रमाणे जाणे वस्तु समस्त. एटले वली जिनवाणी केहवी छे ? के नय कहतां नैगमादि सात नये करी, अने निक्षेप कहतां नामादि च्यार निक्षेपे करी अने प्रमाणे कहतां प्रत्यक्ष परोक्ष वे प्रमाणे करी, जिनवाणी केहवी छे ? के समस्त वस्तु पदार्थनां जाणपणाना करणवाली छे. त्रिकरण योगे प्रणमूं, जैनागम सुप्रशस्त एटले अन्य-मतिना शास्त्र छे ते तो अप्रशस्त छे, अने जिनमतिना आगम छे ते प्रशस्त छे, एहवो जैनागम, तेहने त्रिकरण जोगे कहतां मने करी, वचने करी, कायाये करी प्रणमूं कहतां नमस्कार प्रति करूं छुं ॥ २ ॥ इति श्री जिन-वाणीने नमस्कार जाणवा ॥

अध्यात्मगीता.

७

हवे अध्यात्मगीतानो उपदेश करच्यो ते मुनिप्रति ओलखावे छे. एटले अध्यात्मगीताना उपदेशक, ते मुनि केहवा छे ?

ढालः—

जिणे आतमा शुद्धताये पिछाण्यो ।
 तिणे लोक अलोकनो भाव जाण्यो ॥
 आत्मरमणी मुनि जगवदीता ।
 उपदिश्यूं तेणे अध्यात्मगीता ॥३॥

अर्थः--एटले वली ए मुनि केहवा छे ? के जिणे आतमा शुद्धताये पिछाण्यो. एटले जिणे पोताना आतमाने शुद्ध रीते पिछाण्यो कहेतां जाण्यो ओलख्यो छे. तिणे लोका-लोकनो भाव जाण्यो, एटले ते मुनिये लोका-

८

अध्यात्मगीता.

लोकना भाव प्रत्यक्षपणं जाणया दीठा.
 आतमरमणी मुनि जगवदीता. एटले वली ए
 मुनि केहवा छे ? के आतमरमणी कहेतां जिणे
 पोताना आतम स्वरूपनेविषै सदा काल
 रमण प्रति करच्यो छे एवा मुनि कहेतां जे
 मुनि, अने जगवदीता कहतां जगत्त्रयने विषे
 चावा छे. उपदिश्यूं तेणे अध्यात्मगीता.
 एटले उपदिश्यू कहेतां ते मुनिय अध्यात्म-
 गीता नो उपदेश प्रतै करच्यो छे. कर्त्ता कहे
 हूं कर्त्तो नथी ॥ ३ ॥

चालः—

द्रव्य सर्वना भावनो जाणग पासग
 एह । ज्ञाता, कर्त्ता, भोक्ता, रमता,

अध्यात्मगीता.

९

परणति गेह ॥ ग्राहक, रक्षक,
व्यापक, धारक धर्मसमूह । दान,
लाभ, वल, भोग उपभोगतणो जे
व्यूह ॥ ४ ॥

अर्थ:-एटले वली ए मुनि केहवा छे ?
के द्रव्य सर्वना भावना जाणग पासगएह.
एटले द्रव्य सर्व कहेतां धर्मास्तिकाय अधर्मा-
स्तिकाय आदि षट द्रव्यना भावना जाणग
कहेतां भिन्न भिन्न प्रकारे करी जाणे छे, अने
पासग कहेतां देखे छे. ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता,
रमता, परणतिगेह. एटले वली ए मुनि
केहवा छे ? तोके ज्ञाता कहतां ज्ञाने करीनें
अनेक ज्ञेय पदार्थने जाणे छे, अने पीताना

१०

अध्यात्मगीता.

आत्म स्वरूपनें पिण जाणे छे. अने वली ए मुनि केहवा छे के ? कर्त्ता कहेतां शुभाशुभ रूप विभाव दशाना अकर्त्ता छै, अने पोतानी ज्ञानादि अनंत गुण रूप जे लक्ष्मी तेहना कर्त्ता छे. अने वली ए मुनि केहवा छे के ? भोक्ता कहेतां शुभाशुभ रूप पर पुद्गलना भोग थकी रहित छै, अने पोताना ज्ञानादि अनंत गुण रूप जे पर्याय तेहना भोगनें विषे सदा काल निरंतरपणे वर्ते छे. अने वली ए मुनि केहवा छे ? रमता परणति गेह. एटले रमता परिणति गेह कहेतां पोतानी स्वपरणति रूप गेह कहेतां जे घर, तेहनें विषे सदा काल निरंतरपणै जेणै रमण प्रति करचो छे, पिण पर परणतिमां पेसी रमण प्रतै करता नथी. ग्राहक,

अध्यात्मगीता.

११

रक्षक, व्यापक, धारक धर्मसमूह. एटले धारक धर्मसमूह कहेतां ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण रूप जे धर्म पोतानी आत्म सत्ता विषे रह्यो छै, तेहना ग्राहक कहेतां जेणे ग्रहण प्रति करच्यो छै. अने वली ए मुनि केहवा छै ? तो के रक्षक कहेतां ते धर्मनी रक्षा प्रतै करे छै. अने वली ए मुनी केहवा छै ? के व्यापक कहेतां तेह धर्मने विषे सदा काल व्यापी रह्या छै. दान, लाभ, बल, भोग, उपभोग तणो जे व्यूह. एटले वली ए मुनि केहवा छै ? के जेहने दानादिक पांच लब्धिनो व्यूह कहेतां समुदाय प्रतै प्रगच्च्यो छै. त्यारे (शिष्य कहे छे के) दानादिक पंचलब्धि ते श्युं कहिये ? त्यारे (गुरु कहे.) भो शिष्य !!!

१२

अध्यात्मगीता.

दानअंतराय कर्म क्षय गयो त्यारे अनंतो
दान प्रगट्यो । १ । अने लाभ अंतराय कर्म
क्षय गयो त्यारे अनंतो लाभ प्रगट्यो । २ ।
अने भोग अंतराय कर्म क्षय गयो त्यारे
अनंतो भोग प्रगट्यो । ३ । अने उपभोग
अंतराय कर्म क्षय गयो त्यारे अनंतो उपभोग
प्रगट्यो । ४ । अने वीर्यअंतराय कर्म क्षय
गयो त्यारे अनंतो वीर्य प्रगट्यो । ५ । त्यारे
(शिष्य कहे छे के) दान ते कोने दिये छे ?
अने लाभते श्यानो थयो ? अने भोग ते श्युं
भोगवे छे ? अने उगभोग ते श्युं कहिये ?
अने वीर्य किहां फोरवे छे (त्यारे गुरु कहे)
भो शिष्य ! दानपोताना ज्ञानादि अनंत गुणनें
विषे दीये छे अने लाभ पोताना स्वरूपनो

अध्यात्मगीता.

१३

थयो. अने भोग कहेतां पोताना ज्ञानादि अनंत गुण रूप जे पर्याय तेहनो समे समे अनंतो भोग भोगवे छे. अने उपभोग ते पोताना गुणनो कहिये. वीर्य पोताना ज्ञानादि अनंत गुणने विषे फोरवे छे. इति सामान्य प्रकारे दानादि पंच लब्धिनो विचार जाणवो ॥ ४ ॥ एणी रीते श्रीअध्यात्मगीताना प्रकाशकरूप कर्त्तानी स्तुति करी. हवे कर्त्ता, शिष्य ऊपर कृपा करी साते नये जीवनो स्वरूप प्रति ओलखावे छे:-

दाल:-

संग्रहे एक आया वखाण्यो ।
नैगमे अंशथी जे प्रमाण्यो ॥

१४

अध्यात्मगीता.

दुविध व्यवहार नय वस्तु विहचे ।
अशुद्ध वलि शुद्ध भासन प्रपंचे ॥५॥

अर्थः—संग्रहे एक आया वखाण्यो क-
हेतां संग्रह नयना मतवालो सत्तानो ग्रहण करे
छे. एटले सर्व जीव सत्ताये एक रूप सरीखा
छे. माटे संग्रह नयने मते सर्व जीव सत्ताये
एक रूप जाणवा. अने नैगमे अंशथी जे
प्रमाण्यो. एटले नैगमै अंसथी जे प्रमाण्यो
कहेतां, नैगम नयना मतवालो एक अंश ग्र-
हीने सर्व वस्तुनो प्रमाण प्रते करे छे. माटे
सर्व जीवना आठ रुचक प्रदेश, सदा काल
सिद्ध समान निरावरणपणे वर्ते छे. एटले
नैगम नयने मते अंशथकी सर्व जीव एक रूप

अध्यात्मगीता.

१५

सरीखा जाणवा. दुविध व्यवहार नय वस्तु विहचे. एटले व्यवहार नयना मतवालो वैहचण करीने वोल्यो के एम नहिं; जीव ना वे प्रकार जाणवा. अशुद्ध वलि शुद्ध भासन प्रपंचे. एटले एक अशुद्ध प्रकारे अने बीजा शुद्ध प्रकारै. एटले ए अशुद्ध शुद्ध रूप भासन करवा जाणपणारूप ओलखाण करवा सारू, वैहचण करी दिखाडे छे. एटले जीवना वे भेद—एक सकल कर्म क्षय करी लोकने अंते विराजमान ते सिद्ध, अने वाकी बीजा संसारी. ते संसारी ना वे भेद—एक अयोगी ने बीजा सयोगी. एटले चउदमा गुण स्थानना जीव ते अयोगी, वाकी बीजा सयोगी. ते सयोगीना वे भेद—एक केवली.

૧૬

અધ્યાત્મગીતા.

બીજા છદમસ્થ. એટલે તેરમા ગુણસ્થાનના
 જીવ તે કેવલી. બાકી બીજા છદ્મસ્થ. એટલે
 છદ્મસ્થના વે ભેદ—એક ક્ષીણ મોહી, અને
 બીજા ઉપસંત મોહી. એટલે વારમા ગુણસ્થાનના
 જીવ તે ક્ષીણ મોહી, અને બાકી બીજા ઉપસંત
 મોહી તે ઉપસંતમોહીના વે ભેદ—એક અકષાયી
 અને બીજા સકષાયી. એટલે અગ્યારમા ગુણ-
 સ્થાનના જીવ તે અકષાયી, અને બાકી બીજા
 સકષાયી. તે સકષાયીના વે ભેદ—એક સૂક્ષ્મ
 કષાયી અને બીજા વાદર કષાયી. એટલે
 દસમા ગુણસ્થાનના જીવ તે સૂક્ષ્મ કષાયી
 અને બાકી બીજા સર્વ વાદર કષાયી. તે
 વાદર કષાયી ના વે ભેદ—એક શ્રેણિ પ્રતિ-
 પન્ન અને બીજા શ્રેણી રહિત. એટલે આઠમા

अध्यात्मगीता.

१७

नवमा गुणस्थानना जीव ते श्रेणि प्रतिपन्न
 अने बाकी बीजा श्रेणिरहित. ते श्रेणिरहितना
 वे भेद—एक अप्रमादी अने वाकी बीजा
 सर्व प्रमादी. एटले सातमा गुण स्थानना
 जीव ते अप्रमादी, अने बीजा सर्व प्रमादी. ते
 प्रमादीना वे भेद—एक सर्व विरति अने
 बीजा देश विरति. ते देश विरतिना वे भेद—
 एक विरति परिणामी अने बीजा अविरति
 परिणामी. ते अविरतिना वे भेद—एक अविरति
 सम्यक्त्वी अने बीजा मिथ्यात्वी. ते मिथ्या-
 त्वीना वे भेद—एक भव्य बीजा अभव्य. ते
 भव्यना वे भेद—एक गंठी भेदी अने भीजा
 जीव गंठी अभेदी. एटले एणी रीते व्यवहार
 नयना मत वालो जेहवो देखे तेहवा भेद

१८

अध्यात्मगीता.

विहचे ॥ ५ ॥

चालः—

अशुद्धपणे पणसयतेसठी भेद
 प्रमाण । उदय विभेदे द्रव्यना भेद
 अनंत कहाण ॥ शुद्धपणे चेतनता
 प्रगटे जीव विभिन्न । क्षयोपशमिक
 असंख क्षायिक एक अनन्न ॥ ६ ॥

अर्थः—वली व्यवहार नयने मते अ-
 शुद्ध प्रकारे करी जीवनो स्वरूप ओलखावे
 छे. अशुद्धपणे पणसयतेसठी भेद प्रमाण,
 एटले पणसयतेसठी कहतां जीवद्रव्यना पांच-
 सैने त्रेसठ भेदनो प्रमाण जाणवो. उदय

अध्यात्मगीता.

१९

विभेदै द्रव्यना भेद अनंत कहाण. एटले उदय विभेदे कहेतां उदय भावनें जोगे करीने जोतां तो द्रव्यना भेद अनंत कहाण केहेतां जीव द्रव्यना अनंता भेद जाणवा. शुद्धपणे चेतनता प्रगटे जीव विभिन्न एटले शुद्धपणे केहेतां शुद्ध प्रकारे करीनें, अने चेतनता कहेतां जीवनी चेतना, अने प्रगटे कहेतां निपजे, अने विभिन्न कहेतां अभेदात्मपणे करी जाणवी. क्षयोपसमिक असंख क्षायिक एक अनन्न. एटले क्षयोपसमिक कहेतां क्षयोपसम भावना असंख कहेतां असंख्याता भेद कहिये. अने क्षायिक एक अनन्न. एटले क्षायिक कहेतां क्षायिक भावनो एक भेद जाणवो ॥ ६ ॥

२०

अध्यात्मगीता.

ढालः—

नामथी जीव चेतन प्रबुद्ध ।
 क्षेत्रथी असंख देशी विशुद्ध ॥
 द्रव्यथी स्वगुण पर्याय पिंड । नित्य
 एकत्व सहजी अखंड ॥ ७ ॥

अर्थः—हवे च्यार निक्षेपे करी जीवनो
 स्वरूप ओलखावे छे. नामथी जीव चेतन प्रबुद्ध
 एटले नाम थकी जीवने चेतन कहिये. एटले
 चेतना लक्षणो ते जीव. चेतनाते श्युं के ज्ञान,
 दर्शन चारित्र, तप, वीर्य, अने उपयोग ए
 जीवनी चेतना. अने प्रबुद्ध कहेतां एहवी
 रीते जाणवी. क्षेत्रथी असंख देशी विशुद्ध.

अध्यात्मगीता.

२१

एटले क्षेत्रथकी कहेतां जीवने स्वक्षेत्र रूप असंखप्रदेशी कहिये. अने विशुद्ध कहेतां शुद्ध निर्मलपणे करी जाणवो. द्रव्यथी स्वगुण पर्याय पिंड. एटले द्रव्य थकी कहेतां जीव द्रव्यने स्वगुणने स्वपर्याय तेहनोज पिंड कहिये. नित्य एकत्व सहजी अखंड. एटले नित्य कहेतां भावथकी जीव सदा काल शास्वतो नित्य वर्ते छे. अने एकत्व पणे वर्ते छे. अने सहजी अखंड कहेतां सहज थकी जीव अखंड छे, कोईनो छेद्यो छेदाय नहीं, भेद्यो भेदाय नहीं, निर्लेप अखंड सदा काल शास्वतो छे ॥ ७ ॥

चालः—

रुजु सूये विकल्प परिणामी जीव

२२

अध्यात्मगीता.

स्वभाव । वर्तमान परिणतिमय व्यक्ते
 ग्राहक भाव ॥ शब्द नये निज सत्ता
 जोतो इहतो धर्म । शुद्ध अरूपी
 चेतन अणग्रहतो नव कर्म ॥ ८ ॥

अर्थः—रिजु सुये विकल्प परिणामी
 जीव स्वभाव. एटले रिजु सुये कहतां ऋजुमूत्र
 नयने मते अने विकल्प परिणामी जीव स्व-
 भाव. एटले जीव नो स्वभाव कहतां जीव
 विकल्प रूप परिणामी भावने ग्रहे छे. वर्तमान
 परणतिमय व्यक्ते ग्राहक भाव. एटले वर्त-
 मान केहतां वर्तमान समय जे जीवनो जेहवो
 उपयोग वर्ते ते समय ते जीवने, ए नयना
 मत वालो तेहवो कहि बोलावे. शब्द नये

अध्यात्मगीता.

२३

निज सत्ता जोतो इहतो धर्म. एटले शब्द न-
 यने मते निज सत्ता केहतां पोतानी आत्म
 सत्तानें जोतो, अने इहतो धर्म केहता ज्ञान,
 दर्शन, चारित्र आदि अनंतो धर्म पोतानी आ-
 त्म सत्तानें विषे रब्यो छे तेहनी प्रगट करवानी
 इहा (इच्छा) करतो. शुद्ध अरूपी चेतन
 अणग्रहतो नव कर्म. एटले शुद्ध कहतां निर्मल
 कर्मरूप मलथकी रहित, अने अरूपी कहतां
 पुद्गलादि विभाव दशाना रूप थकी रहित,
 अने चेतन कहतां ज्ञानादि चेतना रूप लक्षण
 करीने सहित, अणग्रहतो नव कर्म. एटले अ-
 णग्रहतो नव कर्म कहतां जे समय जे जीवनी
 एहवो उपयोग व्रतें ते जीवनें नवा कर्मनो ग्र-
 हण न जाणवो ॥ ८ ॥

૨૬

અધ્યાત્મગીતા.

ઢાલ:—

ઇણિ પરે શુદ્ધ સિદ્ધાત્મ રૂપી । મુ-
ક્તપર શક્તિ વ્યક્ત અરૂપી ॥ સમ-
કિતી દેશવ્રતિ સર્વ વિરતી । ધરે
સાધ્ય રૂપે સદા તત્ત્વ પ્રીતિ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ઁટલે વલી જીવ કેહવો છે ?
કે ઇળ પરે શુદ્ધ સિદ્ધાત્મ રૂપી. ઁટલે ઁળી
પરે શુદ્ધ કહતાં નિર્મલ કર્મ રૂપ લેપ થકા
રહિત છે. અને સિદ્ધાત્મરૂપી કહતાં નિશ્ચય
નયને મતે જીવ સત્તાયે સિદ્ધ સમાન અરૂપી
છે. મુક્તપર શક્તિ વ્યક્ત અરૂપી ઁટલે મુક્ત
પર કહતાં જે સમય જે જીવનો ઁહવી રીતે
શુદ્ધ ઢાસન રૂપ ઉપયોગ વર્તે તે સમય તે

अध्यात्मगीता.

२५

जीव मुक्तपर कहतां कर्मथकी मुकाय छे. अने एहवी रीते कर्मथकी मुकाय त्यारे शक्त, व्यक्त, अरूपी एटले शक्त कहतां अनंता गुण पोतानी आत्मसत्ताने विषे शक्ति पणे रह्या छे, ते व्यक्त कहतां व्यक्तिरूप अरूपी पणे प्रगट थता जाय छे. एटले ए किहा किहा जीव ? एहवा रीते जाणपणो कोने थयो ? एहवी रीते भासन कोने थयो ? एहवी रीते रमण कोण करे छे ? के सम्यक्त्वी देश विरति सर्व विरति. एटले सम्यक्त्वी कहतां चोथा गुण स्थान वाला जीव, अने देश विरति कहतां पांचमा गुण स्थान वाला जीव, अने सर्व विरति कहतां छठा सातमां गुण स्थान वाला जीव, तेहनें एहवी रीते

૨૬

અધ્યાત્મગીતા.

જાણપણા રૂપ ભાસન રમણ થયો છે. અને
 ધરૈ સાધ્ય રૂપૈ સદા તત્ત્વ પ્રીતિ. એટલે ધરૈ
 સાધ્ય રૂપૈ કહેતાં પોતાનો આત્મતત્ત્વ નિરા-
 વરણ કરવા જોવે જો ત્યાં જેહની પ્રીતિ પ્રતેં
 લાગી છે, અને એહવી રીતે પ્રીતિ પ્રતેં લાગી
 ત્યારે ॥ ૯ ॥

ચાલ:—

સમભિરૂઢ નયે નિરાવર્ણી જ્ઞાના-
 દિક ગુણ મુખ્ય । ક્ષાયિક અનંત
 ચતુષ્ટય ભોગી મુગ્ધ અલક્ષ ॥ એવં
 ભૂતે નિર્મલ સકલ સ્વધર્મ પ્રકાશ ।
 પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટે પૂર્ણશક્તિ વિ-
 લાસ ॥ ૧૦ ॥

अध्यात्मगीता.

२७

अर्थः—समभिरूढ नये निरावर्णी ज्ञानादिक गुण मुख्य. एटले समभिरूढ नयनें मते शुक्ल ध्यान रूप अग्निये करी घाति कर्मने क्षये, निरावर्णी कहेतां कर्मरूप आवरणने अभावे, ज्ञानादिक अनंत गुण रूप लक्ष्मी प्रते प्रगटे. अने क्षायिक अनंत चतुष्टय भोगी मुग्ध अलक्ष. एटले क्षायिक अनंत चतुष्टय कहेतां अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत चारित्र, अनंतवीर्य, ए चार अनंत चतुष्टयरूप क्षायिक भावे प्रगटे. अने भोगी कहेतां तेहना भोगने विषे सदा काल निरंतर पणे जेहनो उपयोग प्रते वर्ते छे. अने मुग्ध कहेतां जे भोला लोक, अने अलक्ष कहेतां तेहना लख्यामें ए स्वरूप न आवे, एवंभूते

૨૮

અધ્યાત્મગીતા.

નિર્મલ સકલ સ્વધર્મ પ્રકાશ. એટલે એવંમૂત નયને મતે નિર્મલ કહેતાં કર્મરૂપ મલ થકી રહિત, અને સકલ કહેતાં સમ્પૂર્ણ, અને સ્વ કહેતાં પોતાનો, અને ધર્મ કહેતાં જ્ઞાનાદિ અનંતગુણરૂપ જે ધર્મ, અને પ્રકાશ કહેતાં તેહનો સત્તાગતનેવિષે પ્રકાશપ્રતે પ્રગટે. અને એહવી રીતે જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણ રૂપ ધર્મનો પ્રકાશપ્રતે પ્રગલ્યો ત્યારે, પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટે પૂર્ણ શક્તિ વિલાસ. એટલે પૂર્ણ કહેતાં સંપૂર્ણ અને શક્તિ કહેતાં પર્યાય રૂપ શક્તિના વિલાસપ્રતે ભોગવે ॥ ૧૦ ॥

હાલ:—

એમ નય ભંગ સંગે સનૂરો। સાધના

अध्यात्मगीता.

२९

सिद्धता रूप पूरो ॥ साधक भाव
 त्यां लगे अधूरो । साध्य सिद्धे
 नही हेतु सूरु ॥ ११ ॥

अर्थः—हवे साध्य साधन रूप जाण
 पणो करवा सारु जीवनो स्वरूप ओलखावे
 छे, माटे एम नय भंग संगे सनूरो. एटले
 एम नय कहेतां नैगमादि सात नयरूप
 नैगम १ संग्रह २ व्यवहार ३ रुजुसूत्र ४
 शब्द ५ समधिरूढ ६ अने एवंभूत ७ एणी
 रीते साते नयै करी, अने तेहना अठ्ठावीस
 उपनय कहेतां नैगमना त्रणभेद एटले प्रथम
 वर्तमाने अतीत आरोपणी नैगम १, अने
 वर्तमाने अनागत आरोपणि नैगम २ अने

૩૦

અધ્યાત્મગીતા.

વર્તમાન નૈગમ ૩ અને સંગ્રહ નયના બે ભેદ
 -એક સામાન્ય સંગ્રહ ૪ અને વીજો વિશેષ
 સંગ્રહ ૫ અને વ્યવહાર નયના બે ભેદ-એક
 શુદ્ધ વ્યવહાર ૬ અને વીજો અશુદ્ધ વ્યવહાર
 ૭ અને રુજુસૂત્ર નયના બે ભેદ-એક સૂક્ષ્મ
 રુજુ ૮ અને વીજો વાદરુજુ ૯ શબ્દનયનો
 એક ભેદ ૧૦ સમભિરુદ્ધ નયનો એક ભેદ
 ૧૧ અને એવંભૂત નયનો એક ભેદ ૧૨ હવે
 દશ દ્રવ્યાસ્તિક નય કહતાં નિત્ય દ્રવ્યાસ્તિક
 ૧૩ એક દ્રવ્યાસ્તિક ૧૪ સત્દ્રવ્યાસ્તિક, ૧૫
 વક્તવ્યદ્રવ્યાસ્તિક ૧૬ અશુદ્ધ દ્રવ્યાસ્તિક
 ૧૭ અન્વય દ્રવ્યાસ્તિક ૧૮ પરમ દ્રવ્યાસ્તિક
 ૧૯ શુદ્ધ દ્રવ્યાસ્તિક ૨૦ સત્તા દ્રવ્યાસ્તિક
 ૨૧ પરમભાવદ્રવ્યાસ્તિક ૨૨ હવે પર્યાયાસ્તિક

जध्यात्मगीता.

३१

नयना ६ भेद कहे छे—एटले प्रथम द्रव्यपर्याय
 २३ द्रव्य व्यंजन पर्याय २४ गुण पर्याय २५
 गुणव्यंजनपर्याय २६ स्वभाव पर्याय २७ अने
 विभाव पर्याय २८ एणी रीते अठावीसउप-
 नयनो स्वरूप जाणवो. अने भंग कहतां एक
 एक नयना सो सो भांगा कहतां ७ नयना
 सातसो (७००) भांगा जाणवा. अने संगे
 कहतां तेहने संगे करीने सनूरो कहतां जी-
 वने दीपतो कहिये. अने साधना सिद्धता
 रूप पूरो. एटले जीव ने पूरो क्यारे कहिये ?
 के साधना कहतां शुद्ध व्यवहार नयने मते
 चोथा गुणस्थानथी मांडी यावत् तेरमा चउ-
 दमा गुणस्थान पर्यंत साधक भावे करी नि-
 श्रय नयने मते सिद्धिरूप कार्य प्रते नीपजे

३२

अध्यात्मगीता.

त्यारे जीवने पूरो कहिये. अने साधक भाव त्यां लगे अधूरो. एटले जीवने अधूरो केम कहिये ? के साधक भाव कहतां शब्द समभिरूढ नयने मते देशविरति सर्वविरति रूप साधक भाव छे त्यांलगे जीवने अधूरो कहिये. अने साध्य सिद्धे नहीं हेतु सूरो. एटले साध्य कहतां पोतानो आत्मा निरावर्ण करवा रूप जीवे जो अनेसिद्ध कहतां शुद्ध निश्चय नय सिद्धि रूप काय प्रते नीपजै. त्यारै नहीं हेतु सूरो एटले नहीं हेतु कहतां जीवने साधन रूप कोई हेतु नो प्रयोजन न रह्यो ॥ ११ ॥

चालः—

काल अनादि अतीत अनन्ते जे

अध्यात्मगीता.

३३

पर रक्त । संग्गांगी परिणामे वर्ते
 मोहाशक्त ॥ पुद्गल भोगे रींइयो
 धारे पुद्गल खंध । पर कर्ता परि-
 णामे बांधे कर्म नो बंध ॥ १२ ॥

अर्थः—हिवै जीवनो स्वरूप निगोद-
 थकी मांडीनें देखावै छे. एटले काल अनादि
 अतीत अनंत जे पररक्त एटले अतीत कहतां
 अनादि काल नूं जीवनें पर पुद्गलादि वि-
 भाव दशानें विषे रक्त परिणाम वर्ते छे. ते-
 स्येणै करीनें ? तो कै संग्गांगी परिणामै वर्ते
 मोहाशक्त. एटले संग्गांगी कहतां जीवै करचो
 संग, त्यारै मोहै दीधो अंग एटले संग्गांगी
 परिणाम थया तेणै करीनें स्यो विगाड़ थयो ?

2

३४

अध्यात्मगीता.

तोके पुद्गल भोगे रींइयो धारे पुद्गलं खंध.
 एटले पुद्गल भोगे रींइयो कहतां पुद्गलना
 भोग नें विषै जीव रींइयो, एटल जिम २
 पुद्गलना भोग मिले तिम तिम जी-
 वनें अधिक २ रींइ उपजे. अने एहवी रीते
 पुद्गलना भोगनें विषै रींइ उपजी त्यारे,
 धारे पुद्गल खंध. एटले धारे पुद्गल खंध
 कहतां पुद्गलना खंध ने मेलवानी वंच्छारूप
 प्रणाम प्रतें वर्ते. अने एहवी रीते पुद्गलना
 खंध नें मेलवानी वंच्छा रूप प्रणाम वत्यां
 त्यारे, परकर्ता परिणामे बांधे कर्म नो बंध.
 एटले पर कर्ता कहतां जीव पर नो कर्ता
 थयो अने एहवी रीते पर नो कर्ता थयो
 त्यारे बांधे कर्म बंध. एटले बांधे कर्म नो बंध

अध्यात्मगीता.

३६

कहतां जीव कर्म रूप पुद्गलना बंध प्रते बंध-
वा मांड्या ॥ १२ ॥

बालः—

बंधक वीर्य करणे उदेरे । विपाकी
प्रकृति भोगवे दल विखेरे ॥ कर्म
उदयागता स्वगुण रोके । गुण वि-
ना जीव भवो भव ढोके ॥ १३ ॥

अर्थः—बंधक वीर्य करणे उदेरे. एटले
बंधक कहतां जीव नना नना कर्मनां बंध प्रते
केम बांधे ? तोके वीर्य करणे उदेरे. एटले
वीर्य कहतां पराक्रम, अने करण कहतां इंद्रि,
अने उदेर कहतां तेहनी प्रेरणाये करीने,

૩૬

અધ્યાત્મગીતા.

વિપાકી પ્રકૃતિ ભોગવે દલ વિચેરે. ઇટલે વિપાકી કહતાં શુભાશુભ પ્રકૃતિ રૂપ વિપાક ના દલીયા જીવની સત્તાયે રહ્યા છે, તે ઉદે આવે તે ભોગવી ને વિચેરે કહતાં ચેરવે. અને તેહને વિષે પરિણામ રૂપ મનની ચિકાસે કરી નવા કર્મના બંધ પ્રતે બાંધે, અને ઇહવી રીતે નવા કર્મના બંધ પ્રતે બાંધ્યા ત્યારે. કર્મ ઉદય ઉદયતા સ્વગુણ રોકે. ઇટલે કર્મ ઉદય કહતાં ઇહવી રીતે તે કર્મ ને ઉદય કરી ને સ્વ કહતાં પોતાના ગુણ તેહને રોકે કહતાં ઢાંકે, અને ઇહવી રીતે પોતાના ગુણ ને ઢાંકે ત્યારે ગુણ વિના જીવ ભવોભવ ઢોકે. ઇટલે ગુણ વિના કહતાં ગુણ વિનાનો જીવ નિર્ગુણી થયો ત્યારે ભવોભવ ને વિષે ઢોકે કહતાં

अध्यात्मगीता.

३७

आथडे (भ्रमण करे) त्यारे शिष्य कहे केम
आथडे ? ॥ १३ ॥

चालः—

आत्म गुण आवर्णे न ग्रहे आत्म
धर्म । ग्राहक शक्ति प्रयोगे जोडे
सर्म ॥ पर लाभे पर भोग ने योगे
थाये पर कर्तार । एह अनादि
प्रवर्त्ते वाधे पर विस्तार ॥ १४ ॥

अर्थः—एटले आत्म गुण आवर्णे न
ग्रहे आत्म धर्म. एटले आत्म गुण कहतां
एहवी रीते पोताना आत्मगुणने कर्म रूप
आवर्ण प्रते लाग्यो, त्यारे न ग्रहे आत्म धर्म.

૩૮

અધ્યાત્મગીતા.

ઇટલે ન ગ્રહે આત્મ ધર્મ કહતાં જ્ઞાન, દર્શન,
 ચારિત્ર આદિ અનંતો ધર્મ આત્માને વિષે
 રહ્યો છે, તેહનો ગ્રહણ પ્રતે ન કરે અને ઇહવી
 રીતે આત્મગુણનો ગ્રહણ પ્રતે ન કરે ત્યારે,
 ગ્રાહક શક્તિ પ્રયોગે જોડે પુદ્ગલ સર્મ, ઇટલે
 ગ્રાહક શક્તિ કહતાં આત્માની ગ્રાહકતા રૂપ
 જે શક્તિ, અને પ્રયોગે કહતાં તેણે કરીને
 જોડે પુદ્ગલ સર્મ. ઇટલે જોડે પુદ્ગલ સર્મ
 કહતાં કર્મરૂપ પુદ્ગલના સ્વંધ પ્રતે જોડવા
 માંડ્યા, અને ઇહવી રીતે કર્મરૂપ પુદ્ગલના
 સ્વંધ પ્રતે જોડવા માંડ્યા ત્યારે, પરલાભે પર-
 ભોગને જોગે થાયે પર કર્તાર. ઇટલે પરલાભે
 કહતાં શુભાશુભ રૂપ પર પુદ્ગલના લાભ
 મિલ્યા તેહને વિષે લાભ પળો માન્યો ? અને

अध्यात्मगीता.

३९

दान कहतां शुभाशुभ रूप पर पुद्गलनो दान देईने तेहने विषे दान पणो मान्यो २ अने भोग कहतां शुभाशुभ रूप पर पुद्गलना भोग मिल्या, तेहने विषे भोगपणो मान्यो ३ अने उपभोग कहतां शुभाशुभ रूप पर पुद्गलना उपभोग मिल्या, तेहने विषे उपभोग पणो मान्यो ४ अने ए दानादिक चार लब्धिने विषे वीर्यनी शक्ति हती ते फोरववा मांडी. एटले ए पंच लब्धि स्वरूप अनुजाइ पणे जीव भूल्यो. त्यारे पर अनुजाइ पणे अवली (उलटी) फोरववा मांडी. अने एहवी रीते अवली फोरववा मांडी, त्यारे जोगे थाये पर कर्त्तार. एटले जोगे कहतां तेहने जोगे करीने जीव परनो कर्त्ता थयो अने परनो कर्त्ता

४०

अध्यात्मगीता.

थयो त्यारे, एह अनादि प्रवर्ते वाधे पर
 विस्तार. एटले एह अनादि कहतां एहवी
 रीते अनादि कालनी जीवने अवला प्रवर्ती,
 थई त्यारे वाधै पर विस्तार, एटले वाधै पर
 विस्तार कहतां जीवने कर्म रूप पर पुद्गलनो
 विस्तार प्रते वधवा मांड्यो, त्यारे शिष्य कहे
 कर्मरूप पर पुद्गलनो विस्तार प्रते केम वधवा
 मांड्यो ? ॥ १४ ॥

हालः—

एम उपयोग वीर्यादि लब्धि । पर
 भाव रंगी करे कर्म वृद्धि॥ परदया-
 दिक यदा सुह विकल्पे । तदा तदा
 पुण्य कर्म तणो बंध कल्पे ॥ १५ ॥

अध्यात्मगीता.

४१

अर्थः—एटले एम उपयोग वीर्यादि लब्धि कहतां एहवी रीते वीर्यादि पंचलब्धि ने विषे जीवनो अवलो उपयोग वत्यो, अने एम अवलो उपयोग वत्यो त्यारे पर भाव रंगी करे कर्म वृद्धि. एटले पर भाव रंगी कहतां जीव पर स्वभाव रूप विभाव दशा ने विषे रंगाणो अने एहवी रीते पर स्वभाव रूप विभाव दशाने विषे रंगाणो त्यारे करे कर्म वृद्धि कहतां ते जीवे नवा नवा कर्मनी वृद्धि प्रते करवा मांडी. अने पर दयादिक यदा सुह विकल्पै. एटले यदा कहतां जेवा रे जीवनो पर दयादि शुभ विकल्प थयो. तदा पुण्य कर्म तणो बंध कल्पै. एटले तदा कहतां तिवारे जीव पुण्य रूप कर्मनो बंध प्रते

४२

अध्यात्मगीता.

बांधे, अने एहवी रीते शुभाशुभ रूप कर्मना
बंध प्रते बांध्या त्यारे ? ॥ १५ ॥

चालः—

तेहिज हिंसादिक द्रव्याश्रव करतो
चंचल चित्त । कटुक विपाकी चेतन
मेलै कर्म विचित्त ॥ आत्म गुण नें
हणतो हिंसक भावे थाय । आत्म
धर्मनो रक्षक भाव अहिंसक क-
हाय ॥ १६ ॥

अर्थः—तेहिज हिंसादिक द्रव्याश्रव
करतो चंचल चित्त. एटले तेहिज हिंसादि
कहतां ते जीव पहिले गुणस्थान अणा उप-

अध्यात्मगीता.

४३

योगे मिथ्यात्व भावै, एहवी रीते हिंसादि
 आश्रव रूप प्रणामे चंचळ स्वभावै शुभाशुभ
 रूप आश्रवने दलीये करी पोताना गुणने
 ढांके कहतां हणे, अने एहवी रीते पोताना
 गुणने हण्या त्यारे, कटुक विपाकी चेतन
 मेलै कर्म विचित्र. एटले कटुक विपाकी
 कहतां ते जीव कडवा विपाक प्रते भोगवै;
 अने मेले कर्म विचित्र एटले मेले कर्म विचित्र
 कहतां जीव विचित्र विचित्र प्रकारना कर्म
 प्रते मेलवा (ग्रहण करवा) मांड्या, अने
 एहवी रीते कर्म प्रते मेलववा मांड्यां त्यारे,
 आत्म गुणने हणतो हिंसक भावे थाय.
 एटले आत्म गुणने हणतो कहतां एहवी रीते
 जे पोताना आत्माना गुणने हणे तेहने भाव

४४

अध्यात्मगीता.

हिंसा लागे. अने आत्म धर्मनो रक्षक भाव अहिंसक कहाय. एटले आत्म धर्मनो रक्षक कहतां शुभाशुभ विभाव दशा रूप पर पुद्गलनी वंच्छा थकी रहित, अने एक पोतानी आत्म सत्ताये ज्ञानादि अनंतगुण रूप धर्म रह्यो छे, तेहनी रक्षा प्रते करे छे, ते जीवने भाव अहिंसक कहतां भाव दया कहिये. अने एहवी रीते भाव दया रूप प्रणामवर्त्यात्यारे ? ॥ १६ ॥

बालः—

आत्म गुण रक्षणा तेह धर्म । स्व-
गुण विध्वंसणा ते अधर्म ॥ भाव
अध्यात्म अनुगत प्रवृत्ति । तेहथी
होय संसार छित्ति ॥ १७ ॥

अध्यात्मगीता.

४५

अर्थ:—आत्म गुण रक्षणा तेह धर्म. एटले धर्म कोने कहिये ? तोके एहवी रीते जे पोताना आत्म गुणने निरावर्ण कहतां प्रगट करवानी वांछा रूप प्रणाम प्रते वर्ते छे, अने जे गुण प्रगट्या छे ते गुणनी रक्षा करे छे ते जीवने धर्मी कहिये. अने स्वगुण विध्वंसणा ते अधर्म. एटले अधर्म ते कोने कहिये तो के स्व कहतां पोताना गुण तेहने विध्वंसणे कहतां कर्म रूप आवर्णे करि हणें ते जीवने अधर्मी कहिये. अने भाव आध्यात्म प्रवृत्ति. एटले भाव अध्यात्म कहतां अउ. एहवी रीते जेहने चाण पणो थयो छे, एहवी रीते जेहने भासन थयो छे, एहवी रीते जे रमण करे छे, ते जीवने भाव अध्यात्मी क-

४६

अध्यात्मगीता.

हिये. अने एहवीरीते भाव अध्यात्म रूप गुण प्रणम्यो त्यार, अनुगत प्रवृत्ति एटले अनुगत कहतां एहवा रीते जे पीताना आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति कहतां रमण प्रते करे छे. अने एहवी रीते रमण प्रते करे त्यारे तेहथी होय संसार छित्ति. एटले ते जीव संसारनो छेह यहतां पार प्रते पांमिं त्यारे शिष्य कहे एहवी रीते संसारनो पार प्रते कैय जामे ? ॥ १७ ॥

चालः—

एह प्रबोधनो कारण तारण सद्-
गुरु संग । श्रुत उपयोगी चरणानंदी
कर गुरु रंग ॥ आत्म तत्त्वालंबी

अध्यात्मगीता.

४७

रमता आत्म राम । शुद्ध स्वरूप
नें भोगे जोगे जसु विश्राम ॥ १८ ॥

अर्थ:—एटले एह प्रबोध कहतां एहवी रीते प्रतिबोध किहां पामीये ? अने कारण कहतां एहवी रीते प्रतिबोधनो कारण किहां मिले ? अने तारण कहतां एहवी रीते प्रतिबोध देईने संसार थकी कोण तारे ? तोके सद्गुरु संग. एटले सद्गुरु संग कहतां जे भला गुरु तेहनो संग करतां तेहनी सेवा कहतां, तेहनी भक्ति करतां संसार समुद्र नो पार प्रते पामीये. वली सद् गुरु केहवा छै तोके श्रुत उपयोगी चरणा-नंदी कर गुरु संग. एटले श्रुत उपयोगी कहतां श्रुत ज्ञान नें विषे सदाकाल निरंतर पणे उप-

૪૮

અધ્યાત્મગીતા.

યોગ જેહનો વર્તે છે. અને વલી સદ્ગુરુ કેહવા છે ? તોકે ચરણાનંદી એટલે ચરણાનંદી કહતાં ચારિત્રને વિષે સદા કાલ નિરંતર પળે જેહનો આનંદ પળો વર્તે છે; અને કર ગુરુ રંગ. એટલે કર ગુરુ રંગ કહતાં જો એહવા ગુરુનિહારે રંગ લગાવીયે તો સંસાર સમુદ્રનો પાર પ્રતે પામીયે. અને વલી સદ્ગુરુ કેહવા છે ? તો કે આત્મતત્ત્વાલંબી રમતા આત્મ રામ. એટલે આત્મ તત્ત્વાલંબી કહતાં સદા કાલ નિરંતર પળે જે પોતાના આત્મ સ્વરૂપના આલંબનને વિષે વર્તે છે. અને વલી સદ્ગુરુ કેહવા છે ? તોકે રમતા આત્મ રામ. એટલે રમતા આત્મ-રામ કહતાં સદાકાલ નિરંતર પળે જે પોતાના આત્મ સ્વરૂપને વિષે રમણ પ્રતે કરે છે. વલી

अध्यात्मगीता.

४९

सद्गुरु केहवा छे ? तो के शुद्ध स्वरूपने विषे भोगे जोगे जसु विश्राम. एटले शुद्ध कहतां जे निर्मल कर्म रूप मल थको रहित एहवो पोतानो स्वरूप, अने भोगे कहतां तेहना भोगने विषे अने जोगे कहतां मन वचन कायाना जोगनो विश्राम पणो वर्ते छे. अने वली सद्गुरु केहवा छे ? ॥ १८ ॥

हाल:—

सद्गुरु जोगथी बहुल जीव । कोइ वली सहजथि थइ सजीव ॥ आत्म शक्ति करी गंठिभेदी । भेद ज्ञानी थयो आत्म वेदी ॥ १९ ॥

૫૦

અધ્યાત્મગીતા.

અર્થ:—એટલે વહુલ કહતાં ઘણા જીવ
 એહવી રીતે સદ્ગુરુના જોગ મિલ્યા થકી
 સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પ્રતે પામે, અને કોઈ વહી
 સહજથિ થઈ સર્જાવ. એટલે કોઈક જીવ
 સહજ થકી સર્જાવ થઈને ચાર પ્રત્યેક બુદ્ધની
 પરે ષિળ સમકિત ધર્મો. ષિળ આત્મશક્તિ
 કરી ગંઠી ભેદી. એટલે જિહાં ગંઠી ભેદ કરવો
 તિહાં તો પોતાના આત્માની શક્તિયે અપૂર્વ
 કરણ રૂપ વીર્યે કરીને જો ગંઠીને ભેદીયે
 તો સમકિતની પ્રાપ્તિ પ્રતે પામીયે, અને એહવી
 રીતે સમકિતની પ્રાપ્તિ પ્રતે પામ્યો ત્યારે. ભેદ
 જ્ઞાની થયો આત્મવેદી. એટલે ભેદજ્ઞાની કહતાં
 જીવ અજીવની ઓલલાણે, સ્વ પરની વૈચળ
 રૂપ તે જીવને ભેદજ્ઞાન પ્રગટે, અને એહવી

अध्यात्मगीता.

५१

राते भेदज्ञान प्रगख्यो त्यारे ? तोके थयो
 आत्मवेदी कहतां पोताना आत्मानो स्वरूप
 प्रगट करवो तेहना वेदने विषे सदा काल
 निरंतर पणे उपयोग जेहनो वर्ते, अने एहवी
 रीते उपयोग प्रते केम बर्त्यो ? ॥ १९ ॥

चालः—

द्रव्ये गुण पर्याय अनंतनी थई पर-
 तीत । जाण्यो आत्म कर्ता भोक्ता
 गइ परभीत ॥ श्रद्धा योगे उपनो
 भासन सुनये सत्व । साध्यालंबी
 चेतना बलगी आत्म तत्व ॥२०॥

अर्थः—एटले द्रव्ये गुण पर्याय अनंत
 नी थई परतीत, एटले द्रव्य कहतां धर्मास्ति-

૬૨

અધ્યાત્મગીતા.

કાય ૧ અધર્માસ્તિકાય ૨ આકાસ્તિકાય ૩
 પુદ્ગલાસ્તિકાય ૪ કાલ ૫ અને જીવ ૬ એ
 છ; દ્રવ્ય અને ગુણ પર્યાય કહતાં તેહના
 અનંતા અનંતાગુણ ને અનંતા પર્યાય
 તેહનો ભાસન કહતાં જાણપણા રૂપ પ્રતીત
 પ્રતે પ્રગટે, અને એહવી રીતે પ્રતીત પ્રતે પ્ર-
 ગટે. જાણ્યો આત્મ કર્તા ઓક્તા ગઈ
 ગઈ ત્યાં જાણ્યો આત્મ કર્તા કહતાં
 પરમીત. એટલે જાણ્યો શુભાશુભ રૂપ
 વ્યવહાર નયને મતે જીવને શુભાશુભ
 વિભાવ દેશાનો કર્તા કહિયે અને નિશ્ચય
 નયને મતે જિવને પોતાની જ્ઞાનાંદ અનંત
 ગુણ રૂપ જે લક્ષ્મી તેહનો કર્તા કહિયે અને
 ઓક્તા કહતા વ્યવહાર નયને મતે જીવને
 શુભાશુભ રૂપ પર પુદ્ગલનો ઓક્તા કહિયે.

अध्यात्मगीता.

५३

अने निश्चय नये जीवनें पोताना ज्ञानादि अनंत रूप जे पर्याय तेहनो भोक्ता कहिये. अने एही रीते निश्चय व्यवहार नये पोताना आत्माने कर्ता भोक्ता जाण्यो त्यारे, गइ पर भीत. एटले गइ परभीत कहतां ते जीवनें भव ना भय प्रते टले, एटले भवना भय प्रते केम टल्या ? तोके श्रद्धा योगे उपनो भासन सुनये सत्य. एटले श्रद्धा कहतां श्रद्धानें योगे अने सु नय कहतां भले नये करीने सत्य भासन रूप प्रतीत प्रतें प्रगटे. अने एही रीते सत्य भासन रूप प्रतीत प्रतें प्रगटी त्यारे. साध्यालंबी चेतना बलगी आत्मतत्व. एटले साध्य कहतां पोतातो आत्मा निरावर्ण करवा रूप जेवे जो, अने

५४

अध्यात्मगीता.

चेतना बलगी कहतां त्यां जेहनी चेतना प्रते
 लागी. अने एहवी रीते चेतना लागी
 स्यारे ? ॥ २० ॥

ढालः—

इंद्र चंद्रादि पद रोग जाण्यो ।
 शुद्ध निज सिद्धता धन पिछाण्यो॥
 आत्म धन अन्य आपै न चोरे ।
 कोण जग दीन बली कोण जोरे
 ॥ २१ ॥

अर्थः—इंद्र चंद्रादि पद रोग जाण्यो.
 एटले इंद्र चंद्रादि कहतां इंद्र चंद्र आदि चक्र-
 वर्ती वासुदेवना, बलदेवना इंद्रीजनित पुद्गलीक

अध्यात्मगीता.

५५

जे सुख, तेहनें रोग समान करी जाणै. एटले एहवी राते इंद्री जनित पुद्गलीक सुखने रोग समान करी केम जाण्यां ? तो के शुद्ध निज सिद्धता धन पिछाण्यो. एटले शुद्ध कहतां जे निर्मल कर्म रूप मलथकी रहित, एहवो पोताना आत्मानो सिद्धि रूप जे धन, तेहने पिछाण्यो कहतां जाण्यो. एटले एहवी रीते पोताना आत्मानो सिद्धि रूप धन प्रतें ओलख्यो त्यारे. आत्म धन न आपे न चोरे. एटले आत्म धन कहतां पोताना आत्मानो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण रूप जे धन, न आपे न चोरे. एटले न आपे कहतां ए कोईने आप्यो अपाय नहीं, अने न चोरे कहतां ए कोईना लीधो लेवाय नहीं.

५६

अध्यात्मगीता.

कौण जग दीन वली कोण जोरे. एटले जगत
 मे कोई दीन पिण नथी जे तेहने आपे, अने
 जगतमे कोई जोरावर पिण नथी जो खेंची
 लेवे. एटले निश्चय नयने मते सर्वे जीव
 सत्ताये एक रूप सरीखा ज्ञानादि अनंत गुण
 रूप लक्ष्मीना धणी जाणवा एटले लाली
 मेरे लालकी, ज्यां देखूं त्यां लाल. (इसमें
 कौन है कंगाल ?) तोकै दिलकी गांठ
 खोलत नहीं ताते फिरै कंगाल ॥ २१ ॥

चालः—

आत्म सर्व समान निधान महा
 सुख कंद । सिद्धतणा साधर्मी
 सत्तायै गुण वृंद ॥ जेह स्वजाति

अध्यात्मगीता.

५७

तेहथी कोण करै वधं वंघ । प्रग-
 त्यो भाव अहिंसक जाणै शुद्ध
 प्रबंध ॥ २२ ॥

अर्थ:—एटले आत्म सर्व समान कहतां
 सर्वे जीव सत्ताये एकरूप सरीखा सामान्य
 पणे करी जाणवा, अने निधान कहतां निश्चय
 नयने मते सर्वे जीव सत्ताये ज्ञान, दर्शन,
 चारित्र, रूप निधाने करीने सहित छे अने
 महा सुख कंद. एटले महा सुख कंद कहतां
 निश्चय नयने मते सर्वे जीव सत्तायै सुखना
 कंद कहतां मूल सामान्य करी जाणवा. सिद्ध
 तणा साधर्मी सत्तायै गुण वृंद. एटले सिद्ध
 तणा साधर्मी कहतां निश्चय नयने मते सर्व

५८

अध्यत्मगीता.

जीवनो धर्म सत्ताये सिद्ध समान एक रूप
 सरीखी करी जाणवो अने गुण वृंद कहतां
 निश्चय नयने मते सर्वजीव सत्ताये ज्ञान,
 दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुण रूप वृंद
 कहतां जे समूह तिणै करीने सहित छे. अने
 एहवी रीते जेह स्वजाति तेहथी कौण करे
 वध बंध. एटले स्वजाति कहतां सर्व जीव
 सत्ताये एकरूप सरीखा छे, एक ठिकाणेथी
 आव्या, अने एक ठिकाणे जासे. तेहथी कौण
 करे वध बंध. एटले तेहथी वध बंध कहतां
 तिण सूं म्हारै छेदन भेदन रूप विरोध भाव
 करवो न घटे. एटले एहवी रीते विरोध भाव
 केम न करे ? तो के प्रगट्यो भाव अहिंसक
 जाणे शुद्ध प्रबंध. एटले प्रगट्यो भाव अहिं-

अध्यात्मगीता.

५९

सक कहतां ते जीवने भाव दया रूप अहिंसक
 णणे प्रगटे. अने एहवा रीते भाव दया रूप
 अहिंसकणो प्रगटे अने एवी रीते भाव दया
 रूप अहिंसकणो प्रगट्यो त्यारे. जाणे शुद्ध
 प्रबन्ध.एटले जाणे शुद्ध प्रबन्ध कहतां ते जीवने
 शुद्ध प्रतिबोधनो लाभ प्रते जाणवो अने एहवी
 रीते शुद्ध प्रतिबोधनो लाभ थयो त्यारे? ॥२२॥

ढाल:—

ज्ञाननी तीक्ष्णता चरण तेह । ज्ञान
 एकत्वता ध्यान मेह ॥ आत्मता
 दात्मता पूर्ण भावे । तदा निर्मला-
 नंद संपूर्ण पावे ॥ २३ ॥

अर्थ:—ज्ञाननी तीक्ष्णता चरण तेह.

६०

अध्यात्मगीता.

एटले चरण कहतां चारित्रवंत जीव ते कोने कहिये ? तो के जीव अजीव रूप नव तत्व, षट् द्रव्य, नय, निक्षेप, प्रमाण, उत्सर्ग, अपवाद, निश्चय, व्यवहार, द्रव्य, भावनो स्वरूप जाणि, जीव सत्ताने ध्यावे; अजीव सत्तानों त्याग करे. ज्ञान, दर्शण, चारित्र रूप शुद्ध निश्चय नय ज्ञाननी तीक्ष्णता रूप उपयोग जेहनो वर्ते, तेह जीवने चारित्रवंत कहिये ज्ञान ध्यान गेह. एटले ध्यान नो गेह कहतां घर ते कोने कहिये ? तो के एहवी रीते जे पोताना आत्म स्वरूपना ज्ञान रूप ध्यानने विषे एकत्वपणे, सदाकाल निरंतर पणे, जेहनो उपयोग वर्ते ते जीवने ध्याननो गेह कहतां घर प्रते कहिये. एटले एहवी रीते ज्ञान ध्यान

अध्यात्मगीता.

६१

रूप जीवनी उपयोग वर्यो त्तारे; आत्मता-
 दात्मता कहतां आत्मानो तद्रूप स्वरूप
 जेहवो सत्ताये रह्यो छे तेहवो, अने ता पूर्ण
 भावे. एटले ता कहतां तिमज अने पूर्णभावे
 कहतां शुद्ध निश्चय नय सम्पूर्ण भावे करीनें
 सहित. तदा निर्मलानंद सम्पूर्ण पावे. एटले
 तदा कहतां तिवारे अने निर्मल कहतां कर्म
 रूप मलथकी रहित अने नंद कहतां आनंद
 मयी, अने सम्पूर्ण पावे कहतां सिद्धि रूप
 कार्य प्रते सम्पूर्ण भावे करीने नीपजे अने
 एहवी रीते सिद्धि रूप कार्य सम्पूर्ण भावे
 करीनें नीपजे त्तारे ? ॥ २३ ॥

चालः—

चेतन अस्ति स्वभाव में जेह न

६२

अध्यात्मगीता.

भासे भाव । तेहथि भिन्न अरोचक
 रोचक आत्म स्वभाव ॥ सम्यक्त
 भावे भावे आत्म शक्ति अनंत ।
 कर्म नाशनो चिंतन नांणे ते मति-
 वंत ॥ २४ ॥

अर्थः—चेतन अस्ति स्वभाव में जेह
 न भासे भाव. एटले चेतननो अस्ति स्वभाव
 कहतां शुद्ध निश्चय नय पोतानी आत्म सत्ता
 नें विषे ज्ञानादि अलंतगुण रूप स्फाटिक रत्न
 समान अस्ति स्वभाव रह्यो छै; तेहनी कोई
 काले नास्ति पणो नथी; जेह न भासे भाव
 एटले जेह न भासे भाव कहतां ए अस्ति

अध्यात्मगीता.

६३

स्वभाव में शुभाशुभ रूप विभाव दशानो नास्ति पणो जाणवो; एटले ए शुभाशुभ रूप विभाव दशा जीवने अनादिकालनी लागी छे, ते व्यवहार नयनें मते, पण नास्तिपणे जाणवी. तेहथि भिन्न अरोचक रोचक आत्म स्वभाव. एटले तेहथि भिन्न कहतां ए शुभाशुभ विभाव दशा रूप कर्मथकी भिन्न कहतां जुदो छे; अने अरोचक कहतां ए विभाव दशाथकी एहवी दृष्टि वाला जीवनो अरुचि भाव वत्ते छे त्यारे शिष्य कहे रुचि किहां वत्ते छे ? तोके रोचक आत्म स्वभाव, एटले रोचक आत्म स्वभाव कहतां एहवी रीते जाणवण रूप रमण जेहनें थयो छे, तेह जीवनें एक शुद्ध चिदानंद परमज्योति पूर्णब्रह्म

૬૪

અધ્યાત્મગીતા.

રૂપ નિર્મલાનંદ એહવો પોતાના આત્માનો સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા; રોચક કહતાં રુચિ જેહની વર્તે છે. અને એહવી રીતે રુચિ પ્રત્તે વર્તી ત્યારે; સમ્યક્ત ભાવે ભાવે આત્મશક્તિ અનંત. એટલે સમ્યક્ત ભાવે કહતાં એહવી રીતે જાણપણા રૂપ સમ્યક્ત ભાવે કરીને જેણે પોતાના આત્માની અનંતી શક્તિ પ્રત્તે જાણી છે; અને એહવી રીતે અનંતશક્તિ પ્રત્તે જાણી ત્યારે, કર્મ નાશનો ચિંતન નાણે તે મતિવંત. એટલે મતિવંત કહતાં એહવી નિર્મલ બુદ્ધિના ધણી શુદ્ધ ભાસન રૂપ જાણપણે કરીને, જેણે પોતાના આત્માને કર્મ રૂપ ઉપાધિ થકી રહિત, શુદ્ધ ચિદાનંદ નિર્મલ પરમજ્યોતિ સત્તાયે સિદ્ધ સમાન, એહવી રીતે જેણે નિશ્ચય

अध्यात्मगीता.

६५

नयनें मते जाणपणा रूप अन्तरंग प्रतीत करी
 छे, ते जीव कर्म नाशनी चिंतन नाणे; कहतां
 शुद्ध निश्चय नय करीनें. जोतांतो स्फटिक
 रत्न समान आत्मानो स्वभाव निर्लेप छे.
 एटले जिम स्फटिक श्याम डंकन जोगे करी
 नें श्याम दीखे अने राता डंकनें जोगे करी
 नें रातो दीखे; पिण ए डंकनें अभावे जोतांतो
 स्फटिक निर्मलो छे, तिम आत्मानो स्वभाव
 शुद्ध निर्मल स्फटिक समान छे. पिण शुभा-
 शुभ पुण्य पाप रूप डंकनें जोगे करी कर्मरूप
 आभा (प्रतिबिम्ब) पडी छे; पिण ए कर्म
 रूप डंकने अभावे करी नें जोतांतो आत्मा
 शुद्ध निर्मल परम ज्योति सत्ताये सिद्ध समान
 छे. (गाथा) जिम निर्मल तारे रत्न

६६

अध्यात्मगीता.

स्फटिक तणी, तिम जे जीव स्वभाव ॥ ते
 जिन वीरेरे, धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय
 अभाव ॥ इतिश्री जशप्रियजा कृत सवा सो
 गाथाना स्तवन मध्ये परमार्थ जाणवो. एहवी
 रीते शुद्ध भासन रूप जाण पणाना धणी
 तेह जीव कर्म नाशनो चिन्तन कहतां कायर
 पणो चित्तन विषे न लावे जे म्हारे कर्म की
 वारे टले. अने एहवी रीते कायर पणो केम
 न लावे ? ॥ २४ ॥

ढालः—

स्वगुण चिन्तन रसे बुद्धि घाले ।
 आत्म सत्ता भणोजे निहाले ॥
 शुद्ध स्याद्वाद पद जे संभाले ।

अध्यात्मगीता.

६७

पर घरें तेह मति केम वाले ॥२५॥

अर्थ:—स्वगुण चिन्तन रसे बुद्धि घाले एटले स्वगुण कहतां पोतानी आत्म सत्तानें विष ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंता गुण रखा छे. अने चिन्तन रसे बुद्धि घाले. एटले चितन कहतां तेहना चितन नें विषे रसे करी नें युक्त बुद्धि जेहनी वर्ते छे अने एहवी रीते रसे करी नें युक्त बुद्धि वर्ती तयार; आत्म सत्ता भणी ते निहाले. एटले आत्म सत्ता कहतां ज्ञानादि अनन्त गुण रूप पोतानी आत्म सत्ता नें अन्तर दृष्टिये करीनें निहाले कहतां निरखी नें जोवे छे. अने एहवी रीते पोतानी आत्म

૬૮

અધ્યાત્મગીતા.

સત્તા નેં જોવે ત્યારે. શુદ્ધ સ્યાદ્વાદ પદ જે સંભાલે. એટલે શુદ્ધ કહતાં નિર્મલ કર્મ રૂપ લેપ થકી રહિત અને સ્યાદ્વાદ કહતાં સ્યાદ્વાદ રૂપ નિત્ય ૧ અનિત્ય ૨ એક ૩ અનેક ૪ સત્ય ૫ અસત્ય ૬ વક્તવ્ય ૭ અવક્તવ્ય ૮ ણીરીતે આઠ પક્ષે કરીને સહિત, અને પદ કહતાં એહવો પોતાના પદ પ્રતેં, અને સંભાલે કહતાં જાણે દેખે છે. ત્યારે શિષ્ય કહે, નિત્ય અનિત્યાદિ આઠ પક્ષે કરીને પોતાનો પદ પ્રતેં કેમ સંભાલે કહતાં જાણે દેખે છે ? ત્યારે ગુરુ કહે મો ? શિષ્ય સ્યાદ્વાદ મંજરી મેં કહ્યો છે:— નિત્યા નિત્યાદ્યનક ધર્મ સર્વલેક વસ્તુ, મ્યુપગમત્ત્વં સ્યાદ્ વાદત્વં ॥ ત્યારે શિષ્ય કહે એ નિત્ય અનિત્યાદિ આઠ પક્ષે કરી

अध्यात्मगीता.

६९

जीवनो स्वरूप कैम जाणिये ? त्यारे गुरु कहे,
 व्यवहार नयनें मते उदय भावनें जोगे करी
 जे गति में जीव वर्त्ते छे, ते गति में नित्य
 छे. अने समय समय आउखो घटे छे यातें
 अनित्य कहिये; पिण ते अनित्यपणा में पोते
 नित्य पणे वर्त्ते छे. एटले ए नित्य में अनित्य,
 अनित्य में नित्य, ए व्यवहार नयनें मते
 भरमार्थ जाणवो । १ ।

हिंवे निश्चय नयनें मते नित्य अनित्य
 पक्ष करी जीवनो स्वरूप देखाइ छै. एवले
 निश्चय नयनें मते जावना चार गुण ज्ञान,
 दर्शन, चारित्र, अने वीर्य, ए चार गुण,
 अने पर्याय में अव्यावाध अमूर्ति अने अण-
 अवगाह, एटले ए चार गुण अने त्रण पर्याय

७०

अध्यात्मगीता.

जीवना नित्य छे. अने एक अगुरु लघु पर्याय जीव नें सर्वे गुणमां हानि वृद्धि रूप उपजवो विणसवो करे छे, माटे अनित्य कहिये. अने ए अगुरु लघु पर्याय सर्व गुण में हानि वृद्धि रूप उपजवो विणसवो करे छे तेहमां ए ज्ञानादि चार गुण ते नित्य पणै वर्ते छे. एटले ए नित्य में अनित्य, अने अनित्य में नित्य पक्षनो विचार निश्चय नयनें मते जाणवो ॥ २ ॥

हिचे व्यवहार नयनें मते एक अनेक पक्षे करी जीवनो स्वरूप देखाड़े छे. एटले व्यवहार नयनें मते उदय भावनें जोगे करी जे गति में जीव वर्ते छे, ते गति में एक छे; पिण कोई नो बेटो, कोई नो बाप, कोई नो

अध्यात्मगीता.

७१

काको, कोई नो मामो, कोई नो भाई, कोईनो भत्रीजो, एम अनेक प्रकार जीव में बेटापणो, काकापणो, मामापणो, भाईपणो भत्रीजपणो, रह्यो छे. माटे एणी रीते अनेक पण कहिये. पिण ए बेटा, बाप, काका, मामा, भाई, भत्रीज पणामें पोता पणोते एक वत छे. एटल ए एक में अनेक. अने अनेक में एक, पक्षनो विचार व्यवहार नयने मते जाणवो । ३ ।

हवे निश्चय नय करी जीवम एक अनेक पक्ष प्रते देखाड़े छे. एटले निश्चय नय करी सर्व जीवनो धर्म सत्ताये एक रूप सरीखो छे माटे सर्व जीव एक कहिये; अने गुण पर्याय नें प्रदेश अनेक छे. एटले गुण अतन्ता, पर्याय अनन्ता. अने प्रदेश असंख्याता, माटे

૭૨

અધ્યાત્મગીતા.

અનકે પિણ કહિયે; અને એ ગુણ પર્યાયને પ્રદેશ
 અનેક છે, પિણ તેહમાં જીવપણો એક સરીખો
 છે. મોટ એહવી રીતે અનેકમેં એક પણ કહિયે.
 એટલે એહવી રીતે નિશ્ચય નય કરી એક મેં
 અનેક, અને અનેકમેં એક પક્ષનો વિચાર
 જાણવો. । ૪ ।

હિવે વ્યવહાર નયને મતે જીવમેં સત્ય
 અસત્ય પક્ષ મતે દેખાડે છે. એટલે વ્યવહાર
 નયને મતે જીવ પોતે પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર,
 કાલ, ભાવપણે કરીને સત્ય છે. અને પરદ્રવ્ય,
 પરક્ષેત્ર, પરકાલ, અને પરભાવ પણ કરીને
 અસત્ય છે. એટલે વ્યવહાર નયને મતે દ્રવ્ય-
 થકી જીવ દ્રવ્ય જે મતિમે પોતે વિરાજમાન
 થકો વર્તે છે ? અને ક્ષેત્ર થકી કહતાં જેટલો

अध्यात्मगीता.

७३

क्षेत्र पोते अवगाहि कहतां मर्यादारूप पोतानो
 करीने रोक्वो छे; २ अने कालथकी कहतां
 समय रूप पोताना आऊखा प्रमाणे काल
 जाय छे. ३ अने भाव कहतां सर्व जीव पोते
 पोताना शुभाशुभ रूप भावमें रह्यो वर्त्ते छे.
 एटले एहदी रीते व्यवहार नयनें मते सब
 जीव पोते पोताना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावे
 करीने सत्य छे. अने परद्रव्य, परक्षेत्र, पर-
 काल, परभाव पणे करीने असत्य छे, पिण
 ए असत्य पणामे पोतानो सत्य पणो वर्त्ते छे.
 एटले सत्य में असत्य, अने असत्य में सत्य
 पक्षनो विचार व्यवहार नयनें मते करी
 जाणवो । ५ ।

हिये निश्चय नय करी जीवमे सत्य

૭૪

અધ્યાત્મગીતા.

અસત્ય પક્ષ પ્રતે દિસ્વાવે છે. એટલે નિશ્ચય નયને મતે જીવ પોતે પોતાના સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર સ્વકાલ, સ્વભાવ પળે કરીને સત્ય છે. અને પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ, પરભાવ પળે કરી ને અસત્ય છે. એટલે નિશ્ચય નયને મતે જીવ મેં સ્વદ્રવ્ય કહતાં જ્ઞાનાદિ ગુણ જાણવા ૧ અને સ્વક્ષેત્ર કહતાં જીવ પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશ રૂપ સ્વક્ષેત્ર અવગાહિ રહ્યો છે ૨ અને સ્વકાલ કહતાં પોતાનો અગુરુલઘુ પર્યાય સદાકાલ હાનિ વૃદ્ધિ રૂપ ઉપજાવો વિણસવો કરે છે ૩ અને સ્વભાવ કહતાં પોતાના ગુણ પર્યાય ૪ તેળે કરીને જીવ સત્ય છે. અને પરદ્રવ્ય, પરક્ષેત્ર, પરકાલ, પરભાવ પળે કરી જીવ અસત્ય છે. પિળ એ અસત્યપણામે પો-

अध्यात्मगीता.

७५

तानो सत्य पणो वर्ते छे. एटले ए सत्य में असत्य, अने असत्य में सत्य पक्षनो विचार निश्चय नयनें मते करी जाणवो । ६ ।

हिवे निश्चय व्यवहार नये वक्तव्य, अवक्तव्य रूप पक्षे करी जीवनो स्वरूप प्रते देखावे छे. एटले उदय भाव नें जोगे करी व्यवहार नयनें मते जीव पहिले गुण-स्थान सुं मांडी यावत् तेरमा चवदमा गुण-स्थान पर्यंत वर्ते छे, ते जीवना जेटला गुण केवली भगवानना परुपवामें आवे ते वक्तव्य अने केवली भगवानना परुपवामें न आवे ते अवक्तव्य. । ७ ।

अने निश्चय नयनें मते सिद्ध परमात्मा गुणस्थान वर्जित लोकनें अंते विराजमान

૭૬

અધ્યાત્મગીતા.

વર્તે છે, તેહના જેટલા ગુણ કેવલી ભગવાનનાં પરુપવામે આવે તે વક્તવ્ય, અને કેવલી ભગવાનના પરુવવામે ન આવે તે અવક્તવ્ય. એહવી રીતે નિશ્ચય વ્યવહાર નય વક્તવ્ય, અવક્તવ્ય રૂપ પક્ષે કરી જીવનો સ્વરૂપ જાણવો ૮ ઇતિ આઠ પક્ષે કરી જીવનો સ્વરૂપ ઓલખવો.

અને પદજે સંભાલે. એટલે એહવું પોતાનો પદ પ્રતે સંભાલે કહતાં જાણે, ઓલખે છે, અને એહવી રીતે પોતાનો પદ પ્રતે સંભાલે કહતાં જાણે, ઓલખે ત્યારે, પર ઘરે તેહ મતિ કેમ વાલે. એટલે પર ઘર કહતાં શુભાશુભ વિભાવ દશા રૂપ જે જડ સ્વભાવ તિહાંથકી મતિ નિવારી ને પોતાનો જ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણ રૂપ જે ઘર તિહાં જેહની માત પ્રતે વર્તે

अध्यात्मगीता.

७७

छे. अने एहवी रीते मति प्रते वृत्ती त्यारे ? ॥२५॥

चालः—

पुण्य पाप वे पुद्गल दल भासे
 परभाव । परभावे पर संगति पामें
 दुष्ट विभाव ॥ ते माटे निजभोगी
 योगीश्वर सुप्रसन्न । देव नरक
 तृणमणि सम भासे जेहनें मन्न
 ॥ २६ ॥

अर्थः—पुण्य पाप वे पुद्गल दल
 भासे परभाव. एदले पुण्य पाप कहतां पहिले
 गुणस्थाने गिथ्यात्व भावनो पुण्य छे तेतो
 जीवनं शुभ प्रकृति रूप कर्मनो उदय छे.

७८

अध्यात्मगीता.

अने पाप छे तेतो जीवनें अशुभ प्रकृति रूप कर्मनो उदय छे. अने ए शुभाशुभ प्रकृति रूप कर्मना पुद्गल जीवनें अनादि काल ना लागा छे, ते पर स्वभाव रूप मोक्ष नगरे जातां जीवनें विघ्न नाकरणहार जाणवा. अने एहवी रीते विघ्नना करणहार थया त्यारे; परभावे पर संगति पामे दुष्ट विभाव. एटले परभावे पर संगति कहता ए परस्वभाव रूप विभाग दशा ने संगे करीनें, पामे दुष्ट विभाग. एटले पामे दुष्ट विभाग कहतां एहवी रीते जीव संसार में फिरतां अनेक प्रकारे कर्म विटंबना रूप दुःख विपाक प्रते भोगवे. ते माटे निज भोगी योगीश्वर सुप्रसन्न. एटले निजभोगी कहतां ए पर स्वभाव रूप विभाव

अध्यात्मगीता.

७९

दशाना भोग थकी जीव रहित छे. अने निश्चय नयनें मते निज कहतां पोताना ज्ञानादि अनन्त गुण रूप जे पर्याय प्रते प्रगटे तेहनो जीव भोगी छे. अने योगीश्वर एटले योगीश्वर सुप्रसन्न कहतां एहवी निर्मल बुद्धिना धणी योगीश्वर मुनिराज, सुप्रसन्न कहतां भली तरह चित्त जेहनो सदा काल प्रसन्न पणे वर्ते छे. अने वली योगीश्वर सुप्रसन्न एटले योगीश्वर सुप्रसन्न कहतां शुद्ध निश्चय नये करी नें जोतांतो मन, वचन, काया रूप पुद्गलना योगथकी जीव रहित छे. अने पोताना ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप जे योग तेहनें जागे करी नें जीव योगीश्वर छे; अने सुप्रसन्न कहतां तेह जोग नें विषे

૮૦

અધ્યાત્મગીતા.

સદાકાલ જીવ સુકહતાં ભલી તરહ પ્રસન્ન
 પળે વર્તે છે. અને એહવી રીતે સુકહતાં ભલી
 તરહ પ્રસન્ન પળે વચ્ચો ત્યારે; દેવ નરક તૃણ
 મણિ સમ ભાસે જેહને મન. એટલે દેવ નરક
 તૃણ મણિ સમ કહતાં ભવનપતિ, વ્યંતર,
 જ્યોતિષી, વૈમાનીક, નવગ્રૈવૈયક, અનુત્તરવે-
 માનનાં જે સુખ, અને નરક કહતાં સાત
 નરક ના જે દુઃખ, અને તૃણ મણિ કહતાં
 તૃણ (ઘાસ) અને મણિરત્ન સમ કહતાં એ
 સર્વે ડપર તે જીવને સમ ભાવ પળે ચિત્ત
 વર્તે છે. અને એહવી રીતે સમભાવ પળે ચિત્ત
 વચ્ચો ત્યારે ? ॥ ૨૬ ॥

ચાલ:—

તેહ સમતારસો તત્વ સાથે ।

अध्यात्मगीता.

८१

निश्चलानन्द अनुभव आराधे ॥
 तीव्र घन घाती निज कर्म तोड़े ।
 सन्धि पड़ी लेहिनें ते विछोड़े ॥२७॥

अर्थ:—तेह समतारसी तत्व साधे. एटले एहवी रीते शुद्ध भासन रूप जाणपणें करीनें तेह कहतां ते मुनिराज, अने समतारसी कहतां समताना रसिया प्रतें होवे. अने एहवी रीते समता ना रसिया प्रतें होवे, त्यारे तत्व साधे. एटले तत्व कहतां पोताना आत्मतत्त्वनें अने साधे कहतां संपूर्ण भावे करी नीपजावे. अने एहवी रीते संपूर्ण भावे करी केम नीपजावे ? तोके, निश्चलानन्द अनुभव आराधे. एटले निश्चल कहेतां अचल आव्योथको जाय नहीं,

૯૨

અધ્યાત્મગીતા.

અને નંદ કહતાં આનંદમયી; અનુભવ આરાધે, ઇટલે અનુભવ કહતાં એહવી રીતે અનુભવરૂપી અમૃતનો આરાધે કહતાં તે જીવ સદા કાલ આસ્વાદન પ્રતે કરે. અને એહવી રીતે આસ્વાદન પ્રતે કરે, ત્યારે, તીવ્ર ઘનઘાતી નિજ કર્મ તોડે. ઇટલે તીવ્ર કહતાં આકરા અને ઘનઘાતી કહતાં પોતાના આત્મગુણને ઘાતના કરણહાર એહવા જ્ઞાનાવર્ણાદિ ચાર કર્મ અને નિજ કર્મ તોડે. ઇટલે નિજ કહતાં પોતાના કર્મ અને તોડે કહતાં તેહને ધ્યાન રૂપ અગ્નિયે બાલીને ક્ષય કરે. અને એહવી રીતે ધ્યાન રૂપ અગ્નિયે બાલીને ક્ષય કરે, ત્યારે, સંધિ પડિ લેહિને તે વિછોડે. ઇટલે સન્ધિ કહતાં સીમ મર્યાદાનો અંત તેહને છેડો કહિયે. ઇટલે બારમાં ગુણ-

अध्यात्मगीता.

८३

स्थाननो छेडो फरसीघाती कर्मनें विछोडे
कहतां विखेरे. त्यारे शिष्य कहे घाती कर्मनें
केम विखेरे ? ॥ २७ ॥

चालः—

सम्यग् रत्नत्रयी रस राच्यो चेतन
राय । ज्ञानाक्रिया चक्रे चकचूरी सर्व
अपाय ॥ कारक चक्र स्वभावथी
साधे पूरण साध्य । कर्ता कारण
कार्य एक थया निराबाध्य ॥ २८ ॥

अर्थः—सम्यग् रत्नत्रयी रस राच्यो
चेतनराय. एटले सम्यग् कहतां भली प्रकारे,
अने रत्नत्रयी कहतां ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप

८४

अध्यात्मगीता.

जे रत्नत्रयी, रस राच्यो चेतनराय, एटले चेतनराय कहतां चेतन महाराज रूप जे राजा, अने रस कहतां तेहना रसने विषे, अने राच्यो कहतां एकत्वपणे वच्च्यो. अने एहवी रीते एकत्वपणे वच्च्यो त्यारे, ज्ञान क्रिया चक्रे चकचूरी सर्व अपाय. एटले ज्ञान क्रिया चक्रे कहतां ज्ञान क्रिया रूप चक्रे करीने घाती कर्म रूप अपाय कहतां जे वेरी जीवने अनादि कालना शत्रुभूत थईने लागा हता, तेहने चकचूरी कहतां चूरी वालीने क्षय करे, अने एहवी रीते चूरी वालीने क्षय केम करे? तोके, कारक चक्र स्वभावर्था साधे पूरण साध्य. एटले कारक चक्र कहतां कर्ता १ कारण २ कार्य ३ संभदान ४ अपादान ५ अने अधि-

अध्यात्मगीता.

८५

करण ६ ए षट्कारक रूप जे चक्र तेणे करीने, साथे पूर्ण साध्य. एटले साथे पूर्ण साध्य कहतां ते जीव पोतानुं कार्य प्रते साथे कहतां सम्पूर्ण नीपजावे. त्यारे शिष्य कहे—ए षट्कारक रूप चक्रे करीने पोतानो कार्य प्रते केम साथे ? त्यारे गुरु कहे—कर्त्ता जीव ? अने कारण रूप समकित गुण २ अने कार्य करवो छे केवल ज्ञान रूप ३ अने अपादान कहतां कर्म रूप अशुद्धताना आवर्ण टलता जाय ४ अने संप्रदान कहतां गुणश्रेणी रूप निर्मलता संपजती (प्रगटती) जाय ५ अने आधार कहतां ए केवल ज्ञान रूप कार्यमें, छोये (छकारक) आधारभूत ज्ञानवा ६ एणी रीते षट्कारक रूप चक्रे करी ते जीव पोतानो

८६

अध्यात्मगीतां.

कार्य प्रते नीपजावे. अने एहवी रीते षट् कारक रूप चक्रे करी पोतानो कार्य प्रते नीपजावे, त्यारे कर्त्ता कारण काय एक थया निराबाध्य. एटले कर्त्ता चेतन, अने कारण ज्ञानादि गुण, अने कार्य कहतां अनेक ज्ञेय पदार्थ जाणवा, देखवा रूप. अने एक थया कहतां ए त्रण एकतापणे निराबाध्य कहतां अबाधा रहित नीपजे. एटले एहवी रीते अबाधा रहित केम नीपजे ? ॥ २८ ॥

ढालः—

स्वगुण आयुधथकी कर्म चूरे ।
 असंख्यात गुणी निर्जरा तेह पूरे ॥
 टले आवरणथी गुण विकाशे ।

अध्यात्मगीता.

८७

साधना शक्ति तिम २ प्रकाशे

॥ २९ ॥

अर्थः—स्वगुण आयुधथकी कर्म चूरे.
 एटले कर्मने केम चूरे ? तोके, स्वगुण आयु-
 धथकी, एटल स्वगुण कहतां पोताना ज्ञानादि
 गुण रूप, आयुध कहतां जे हथियार, तणे
 करीने कर्म चूरे अने एहवी रीते कर्म नें चूरे.
 त्यारे असंख्यात गुणी निर्जरा तेह पूरे.
 एटले असंख्यात गुणी कहतां ते जीव समय
 समय असंख्यात गुणा निर्जरा प्रते करे, अने
 एहवी रीते निर्जरा करे, त्यारे, तेह पूरे.
 एटले तेह कहतां ते जीव, अने पूरे कहतां
 पोताने स्वगुणे करी आत्माने पूरे. अने

૮૮

અધ્યાત્મગીતા.

એહવી રીતે આત્માને કેમ પૂરે ? તો કે, ટલે
 આવરણે ગુણવિકાસે એટલે ટલે આવરણે
 કહતાં જિમ જિમ કર્મ રૂપ પુદ્ગલના
 આવરણ ટલતા જાય, અને ગુણ વિકાસે
 કહતાં તિમ તિમ આત્મગુણ વિકસ્વર કહતાં
 પ્રગટ પળે થતા જાય. ત્યારે શિષ્ય કહે ?
 આત્મગુણ કેમ વિકસ્વર થાય ? ત્યારે ગુરુ
 કહે—સૂર્ય આંડા વાદલાં આવે, ત્યાર, સૂર્યની
 ક્રાંતિ પ્રતે દબાય, અને વાદલા જિમ જિમ
 પવનને જોરે વિસ્વરતા જાય, તિમ તિમ સૂર્યની
 ક્રાંતિ પ્રકાશ પ્રતે પામતી જાય, તિમ ઇહાં એ
 દૃષ્ટાંતે આત્મ ગુણને કર્મ રૂપ વાદલા આંડા
 આવ્યા, ત્યારે આત્માની ગુણ રૂપ ક્રાંતિ પ્રતે
 દબાણી, પિળ અંતરને વિષે આત્માને ગુણરૂપ

अध्यात्मगीता.

८९

क्रांति सूर्यनी पेरे देदीप्यमान छे माटे शुक्ल
 ध्यान रूप वायराने जोगे करी, जिम जिम
 कर्म रूप वादला विखरता जाय, तिम तिम
 आत्माने गुण रूप क्रांति प्रकाश प्रते पामती
 जाय. अने एहवी रीते गुण रूप क्रांति प्रकाश
 प्रते केम पामे ? तोके, साधना शक्ति तिम
 तिम प्रकाशे एटले साधना कहतां पोतानो
 आत्म गुण रूप कार्य प्रते साधवुं, तेहने विषे
 निश्चलता रूप प्रणाम अने शक्ति कहतां परा-
 क्रम रूप वीर्यनो उलास तेणे करीने, अने
 तिम तिम प्रकाशे कहतां, श्रेणी रूप प्रकाश
 प्रते बधतो जाय. अने एहवी रीते श्रेणी रूप
 प्रकाश प्रते वधयो त्यारे ॥ २९ ॥

चालः—

९०

अभ्यात्मगीता.

प्रगट्या आत्म धर्म थया सबी सा-
 धन रीत । बाधक भाव ग्रहणता
 भागी जागी नीत ॥ उदय उदी-
 रणा ते पिण पूर्व निर्जरा काज ।
 अनभि सन्धि बंधकता निरस
 आत्मराज ॥ ३० ॥

अर्थः—एटले एहवी रीते आत्मानी
 शक्ति प्रते जागी त्यारे, प्रगट्या आत्म धर्म
 थया सबी साधन रीत. एटले प्रगट्या आत्म
 धर्म, कहतां कर्मरूप आवरणने अभावे, अनंत
 गुणरूप आत्मिक धर्म प्रते प्रगटे. अने एहवी
 रीते अनंत गुणरूप आत्मिक धर्म प्रते केम
 प्रगटे ? तोके, थया सबी साधन रीत, एटले

अध्यात्मगीता.

९१

थया सवि साधन रीत कहतां, आत्मनी कर्तृत्वता भोक्तृत्वादि पंचशक्ति ते अनादि कालनी पर अनुजाइ पणे अवली प्रणमी हती; तिहांथकी निवारीने पोताना स्वरूप अनुजाइ रूप साधन पणे प्रणमावी. त्यारे शिष्य कहे, ए पांच शक्ति स्वरूप अनुजाइ रूप साधन पणे केम प्रणमी ? त्यारे गुरु कहे,—आत्मानी कर्तृत्वता रूप जे शक्ति ते अनादि कालनी परकर्तापणे अवली प्रणमी हती, तिहां थकी निवारीने पोताना स्वरूप कर्तारूप साधनपणे प्रणमावी. १अने आत्मानी भोक्तृत्वता रूप जे शक्ति ते अनादि कालनी पर पुद्गलादि विभाव दशाना भोगने विषे प्रणमी हती, तिहां थकी निवारीने पोताना

९२

अध्यात्मगीता.

स्वभाव भोगीपणे प्रणमावी. २ अने आत्मानી रक्षकत्वा रूप जे शक्ति ते अनादि कालनी पर पुद्गलादि विभाव दशाना रक्षक पणे प्रणमी हती, तिहां थकी निवारिने पोताना स्वभाव रक्षकपणे प्रणमावी. ३ अने आत्मानी व्यापकत्वा रूप जे शक्ति ते अनादि कालनी पर स्वभाव रूप विभाव दशाने विषे व्यापी रही हती, तिहां थकी निवारिने पोताना स्वभाव व्यापक पणे प्रणमावी. ४ अने आत्मानी ग्राहकता रूप जे शक्ति ते अनादि कालनी पर ग्राहकपणे अवली प्रणमी हती, तिहां थकी निवारिने पोताना स्वभाव ग्राहक पणे प्रणमावी. ५ एहवी रीते ए पांच शक्ति अनादि कालनी पर अनुयाईपणे अवली

अध्यात्मगीता.

९३

प्रणमी हती, तिहां थकी निवारीने पोताना स्वरूप अनुयाई रूप साधन पणे प्रणमावी, अने एहवी रीते स्वरूप अनुयाई रूप साधन पणे प्रणमी, त्यारे, बाधक भाव ग्रहणता भागी जागी नीत. एटले बाधक भाव कहतां अनादि काळनो ए पर स्वभाव रूप विभाव दशानि हारे, जावने बाधक भाव रूप ग्रहणपणो हतो, ते भाग्यो कहतां टल्यो. अने एहवी रीते बाधक भाव टल्यो त्यारे, जागी नीत, एटले जागी नीत कहतां पर ग्रहण रूप अनित्यपणो टल्यो. अने स्वरूप ग्रहण रूप नित्यतापणो प्रगट्यो, त्यारे, उदय उदीरणा ते पिण पूर्व निर्जरा काज. एटले उदय कहतां स्थिति पाके उदय भावने जोगे करी

९४

अध्यात्मगीता.

जे कर्म उदय आवे, ते भोगवीने निर्जरा प्रत्ये करे. अने उदीरणा कहतां जीवनी सत्ताये बंध रूप कर्मना पुद्गल लागा छे ते खेंची कहतां उदेरी-उदय आणी भोगवीने निर्जरावे. अने एहवी रीते निर्जरावे त्यारे, अनभि सन्धि बंधकता निरस आत्मराय. एटले अनभि कहतां अनुक्रमे, अने सन्धि कहतां सीम मर्यादानो अंत, तेहने छेडो कहिये. एटले बारहमां गुणस्थानने छेडे. अने आत्मराय कहतां चेतन महाराज रूप जे राजा तेहनी सत्ताये बंधक कहतां बंध रूप कर्मना पुद्गल रह्या छे; ते निरस कहतां कषाय रूप रसथकी रहित लूखा जाणवा, अने एहवी रीते कषाय रूप रसथकी रहित लूखासपणे

जध्यात्मगीता.

९५

वर्त्या ल्यारे ॥ ॥ ३० ॥

ढालः—

देशपति जब थयो नितरंगी । तदा
कुण थायै कुनय चाल संगी ॥ यदा
आत्मा आत्म भावै रमाव्यो । तदा
बाधक भाव दूरै गमाव्यो ॥ ३१ ॥

अर्थः—देशपति जब थयो नितरंगी.
एटले देशपति कहतां जिम देशनो धणी,
अने पति कहतां राजा, जब थयो नितरंगी.
एटले जब कहतां जिवारे, अने थयो नितरंगी
कहतां जेहनो चित्त नित मार्गने विषै रंगाणो,
अने नित मार्गनो चालणहार थयो तदा
कुण थाये कुनय चाल संगी. एटले तदा

९६

अध्यात्मगीता.

कहतां तिवारे, अने कुनय कहतां ए कूडा नयरूप अनित्य मार्गिनो चालणहार कुण होय ? एम इहां ए देशपति कहतां असंख्यात प्रदेश रूप जे देश, अने ते देशने विषै ज्ञानादि अनंत गुण रूप लक्ष्मी रही छे, तेहनो पति कहतां धणी, एहवो जे चतन महाराजा, जब थयो नित्यरंगी एटले जब कहतां जिवारे, अने थयो नित्यरंगी कहतां ए पर स्वभाव रूप अनित्य मार्ग मूकीने, पोताना स्वरूप भे रमण करवा रूप नित्य मार्ग प्रते पकड़यो. अने एहवी रीते नित्य मार्ग प्रते पकड़यो, त्वारे, तदा कुण थाये कुनय चाल संगी. एटले तदा कयतां तिवारे अने कुनय कहतां ए कूडा (खोटा) नय

अध्यात्मगीता.

९७

रूप अनित्य मार्ग प्रतें केम चलवे ? एटले जे मार्गे पोते चाले ते मार्गनो पर ने पिण उपदेश प्रतें करे. एटले एहवी रीते शुद्ध मार्गनो परनें उपदेश प्रतें कोण करे ? तोके, यदा आत्मा आत्म भावे रमाव्यो. एटले यदा कहतां जिवारे, अने आत्म भावे रमाव्यो कहतां जेणे पोताना आत्माने आत्मभावने विषे रमाव्यो कहतां रमाड्यो ते करे. अने एहवी रीते आत्मभावने विषे रमाड्यो त्यारे तदा बाधक भाव दूरे गमाव्यो. एटले तदा कहतां तिवारे, अने बाधक भाव कहतां अनादि कालनो ए पर स्वभावरूप विभाव दशा निहारे जीवने बाधक भावरूप ग्रहणपणो हतो ते दूरे गमाव्यो, एटले दूर गमाव्यो कहतां

4

९८

अध्यात्मगीता.

तेहनो नाश प्रतें करच्यो. अने एहवी रीते
बाधक भावनो नाश प्रतें कैम करच्यो? ॥३१॥

चालः—

सहिज क्षमा गुण शक्तिथी छेद्यो
क्रोध सुभट्ट । मर्दव भावप्रभा-
वथी भेद्यो मान मरट्ट ॥ माया
आर्जव योगे लोभते निस्पृह भाव ।
मोह महा भट ध्वंसे ध्वंस्यो सर्व
विभाव ॥ ३२ ॥

अर्थः—सहिज क्षमा गुण शक्तिथी छेद्यो
क्रोध सु भट्ट. एटले सहिज क्षमा गुण कहतां
अकृत्रिम भाव रूप जे क्षमा-गुण, अने शक्तिथी

अध्यात्मगीता.

९९

कहतां ए अकृत्रिम भाव रूप शक्तिये करीने,
 छेद्यो क्रोध सुभट्ट. एटले छेद्यो क्रोध सुभट्ट
 कहतां ए मोह राजानो क्रोध रूपी जे सुभट्ट
 तेहने छेद्यो कहतां निकंदन प्रते करच्यो.
 ? मार्व भाव प्रभावथी भेद्यो मान मरट्ट.
 एटले मार्व भाव कहतां मृदुता भाव रूप जे
 नरमास गुण, अने प्रभावथी कहतां तेहने
 प्रभावे करीने भेद्यो मान मरट्ट. एटले मान
 मरट्ट कहतां ए मान रूपी सुभट्ट प्रते भेद्यो
 कहतां छेद्यो, तेहने उनमेली (उखेड़ी) नाख्यो
 अने मरट्ट कहतां एहवी रीते मान रूपी सु-
 भट्टनो मरोड़ प्रते भेट कीधो. २ माया आ-
 र्जव योगे लोभते निस्पृह भाव. एटले माया
 कहतां माया रूप जे कपट, अने आर्जव

१००

अध्यात्मगीता.

कहतां सरल स्वभाव पणो, अने जोगै कहतां तेहने जोगे करीने दूर प्रते करच्यो. ३ लोभते निस्पृह भाव. एटले लोभते निस्पृह भाव कहतां ए निर्लोभ रूप निस्पृही भाव थकी लोभनो नाश प्रतें करच्यो.

४ मोह महा भट्ट ध्वंसे ध्वंस्यो सर्व विभाव. एटले मोह महा कहतां मोह रूप महा भट्ट कहतां जे सुभट, एहवो जे शूरवीर ते सर्वे अवगुणने विषे राजा समान तेहने ध्वंसे कहतां ध्वंसे. एटले हडसेली नाखे. एहवी रीते मोहने दूर करवे करीने ध्वंस्यो सर्व विभाव. एटले ध्वंस्यो सर्व विभाव कहतां एह विभाव दशा रूप जे परस्वभाव; एहवी रीते सर्व अपाय कहतां जे पाप जीवने अनाद्रि

अध्यात्मगीता.

१०१

कालना शत्रुभूत थईने लागा हता, तेहने
 ध्वंस्ये कहतां ध्वंस्यो, एटले नाश प्रते करचो.
 अने एहवी रीते क्रोधादिकनो नाश प्रतें केम
 करचो ? ॥ ३२ ॥

ढाल:—

इम स्वभाविक थयो आत्म वीर ।
 भोगवै आत्म संपद सुधीर ॥ जेह
 उदया गता प्रकृति वलगी ।
 अव्यापक थको खेरवै तेह अलगी
 ॥ ३३ ॥

अर्थ:—एम स्वभाविक थयो आत्म
 वीर. एटले आत्म कहतां जे आत्मा, अने
 वीर कहतां जे शूरवीर महा पराक्रमी अनंत

૧૦૨ અધ્યાત્મગીતા.

બલનો ધણી કર્મ શત્રુનો જીતણહારો. અને
 એમ સ્વભાવિક થયો કહતાં એ પર સ્વભાવ
 રૂપ વિભાવ દશાને વિષે પ્રણમ્યો હતો, તિહાં
 થકી મતિ નિવારીને સ્વભાવિક કહતાં
 પોતાના સ્વભાવને વિષે પ્રણમ્યો. અને એહવી
 રીતે પોતાના સ્વભાવને વિષે પ્રણમ્યો ત્યારે.
 ભોગવે આત્મ સંપદ સુધીર. એટલે આત્મ
 સંપદ કહતાં જ્ઞાનાદિ અનંત ચતુષ્ટય રૂપ
 પોતાની આત્મ સંપદા પ્રતેં ભોગવે કહતાં
 વિલસે. અને સુ કહતાં ભલી તરહ અને ધીર
 કહતાં અધીર પળો ધૂકીને નિર્ભય થકો
 ભોગવે. અને જેહ ઉદયાગતા પ્રકૃતિ વલગી.
 એટલે જે ઉદયાગતા કહતાં ઉદય ભાવને
 જોગે, પ્રકૃતિ વલગી કહતાં જે આત્મ

अध्यात्मगीता.

१०३

प्रदेशे कर्म रूप प्रकृति बलगी कहतां लागी
 छे, ते अव्यापक थको खेरवे तेह अलगी.
 एटले अव्यापक थको कहतां अलिप्त पणे
 न्यारो रही जे कर्म रूप प्रकृति उदय आवे
 ते भोगवीने खेरवे. एणी रीते अलगी कहतां
 दूरे करीने आत्म गुण निरावर्ण प्रते करे.
 त्यारे शिष्य कहे—आत्म गुण केम निरावर्ण
 प्रते करे ? ॥ ३३ ॥

चालः—

धर्म ध्यान इकतानमें ध्यावै अरिहा
 सिद्ध। ते परिणतथी प्रगटी तात्त्विक
 सहज समृद्धि ॥ स्व स्वरूप एकत्वै
 तन्मय गुण पर्याय । ध्यानै ध्याता

१०४

अध्यात्मगीता.

निरमोहीने विकल्प जाय ॥ ३४ ॥

अर्थः—धर्म ध्यान इकतानमें ध्यावे अरिहा सिद्ध. एटले धर्म ध्यान कहतां पोतानो आत्मिक धर्म सत्तागतने विषे अनंतो रह्यो छे, ते धर्मने ओलखी प्रतीत करी तेहना ध्यानने विषे प्रवर्ते. त्यारे शिष्य कहे—एहवी रीते ध्यानने विषे केम प्रवर्ते ? तोके एकतानमे कहतां शुद्ध शुक्ल ध्यान रूपातीत प्रणाम रूप एकत्व पणे, ध्यावे अरिहा सिद्ध. एटले अरिहा सिद्ध कहतां अरिहंत तथा सिद्धने गुणे पोताना आत्माने समतुल्य पणे सरीखो गिणी, अने ध्यावे कहतां एहवी रीते निरागता पणे ओलखीने तेहना ध्यानने विषे प्रवर्ते अने एहवी रीते ध्यानने विषे प्रवर्त्यो

अध्यात्मगीता.

१०५

त्यारे. ते परिणितथी प्रगटी तत्त्विक सहज समृद्ध. एटले ते परिणितथी कहतां एहवी निर्मल शुद्ध आत्मानी प्रणति थकी अने प्रगटी कहतां नीपजी. त्यारे शिष्य कहे—इयूं नीपजी ? तोके, तत्त्विक सहज समृद्ध. एटले तत्त्विक कहतां तद् रूपणे जेहवी सत्ताये हती तेहवी, अने सहज कहतां ए अकृत्रिम भाव रूप संपदा प्रते, अने सम कहतां सम्पूर्ण अने रिद्ध कहतां पोतानी ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी प्रते प्रगटे. अने एहवी रीते पोतानी लक्ष्मी प्रते केम प्रगटे ? तोके, स्व स्वरूप एकत्वे तन्मय गुण पर्याय. एटले स्व स्वरूप कहतां पोताना आत्मिक स्वरूपने विषे, अने एकत्व कहतां तेहने विषे एकत्व

૧૦૬

અધ્યાત્મગીતા.

પણે વર્તે. અને એહવી રીતે એકત્વપણે કેમ વચ્ચો ? તો કે, તન્મય ગુણ પર્યાય. એટલે તન્મય કહતાં તલાલીન રૂપ, અને ગુણ પર્યાય કહતાં એહવી રીતે પોતાના ગુણ પર્યાયના ચિંતનને વિષે; ધ્યાને ધ્યાતા નિર્મોહી ને વિકલ્પ જાય. એટલે ધ્યાને કહતાં તેહના ધ્યાનને વિષે અને ધ્યાતા કહતાં એહવી રીતે એકત્વ પણે વર્તે. અને એહવી રીતે એકત્વ પણે વચ્ચો ત્યારે, નિર્મોહીને વિકલ્પ જાય. એટલે નિર્મોહી કહતાં તે જીવ મોહ રહિત થાય, અને એહવી રીતે મોહ રહિત થાય ત્યારે, સર્વે વિકલ્પ દૂરે જાય. એટલે દૂરે જાય કહતાં તેહનો નાશ પ્રતે પામે. અને એહવી રીતે નાશ પ્રતે કેમ પ્રામે ? ॥ ૩૪ ॥

अध्यात्मगीता.

१०७

हालः—

यदा निर्विकल्पी थयो शुद्ध ब्रह्म ।
 तदा अनुभवै शुद्ध आनंद शर्म ॥
 भेद रत्न त्रयी तीक्ष्णतायै । अभेद
 रत्न त्रयी में समाये ॥ ३५ ॥

अर्थः—एटले यदा निर्विकल्पी थयो
 शुद्ध ब्रह्म. एटले यदा कहतां जिवारे अने
 निर्विकल्पी थयो कहतां एहवी रीते चलाचल
 परणाम रूप विकल्प सुं रहित जीव थावै.
 अने एहवी रीते विकल्प सुं रहित जीव थावे
 त्यारे, शुद्ध ब्रह्म. एटले शुद्ध ब्रह्म कहतां ते
 जीव शुद्ध पूर्ण ब्रह्म रूप निर्मलानन्द एहवो
 पोतानो पद प्रते प्रगट करे, अने एहवी

૨૦૮

અધ્યાત્મગીતા.

રીતે પોતાનો પદ પ્રતે પ્રગટ કરે ત્યારે, તદા
 અનુભવે શુદ્ધ આનન્દ શર્મ. ઇટલે તદા કહતાં
 તિવારે અને અનુભવે કહતાં ભોગવે. ત્યારે
 શિષ્ય કહે—શ્યું ભોગવે ? તોકે, શુદ્ધ આનન્દ
 શર્મ. ઇટલે શુદ્ધ કહતાં નિર્મલ; વિભાવ
 દશા રૂપ ઉપાધિ થકી રહિત, અને આનન્દ
 કહતાં ઇહવી રીતે આનન્દમયા, અને શર્મ
 કહતાં ઇહવો પોતાનો મૂલ ઘર પ્રતે ભોગવે.
 અને ઇહવી રીતે પોતાનો મૂલ ઘર
 પ્રતે કેમ ભોગવે ? ભેદ રત્નત્રયી તીક્ષ્ણતાયે,
 અભેદ રત્નત્રયીમં સમાયે. ઇટલે ભેદ કહતાં
 જુદી ૨ અને રત્નત્રયી કહતાં જ્ઞાન, દર્શન,
 ચારિત્ર રૂપ જે રત્ન ત્રયી, અને તીક્ષ્ણતા
 કહતાં તેક્ષ્ણે ત્રિપે તાત્રતા રૂપ એકાગ્રતાપણે

अध्यात्मगीता.

१०९

उपयोग प्रते वत्ते. अने एहवी रीते तन्मय रूप उपयोग प्रते वत्त्यों त्यारे, अभेद रत्न त्रयीमे समाय. एटले भेद रत्नत्रयी हती ते एक समय एकता रूप अभेदता पणे प्रणमी. अने एहवी रीते अभेद रूप एकता पणे प्रणमी त्यारे जाणवा, देखवा, रमण करवा रूप एक समय उपयोग वत्त्यों ? अने एहवी रीते जाणवा देखवा, रमण करवा रूप एक समय उपयोग कैम वत्त्यों ? ॥ ३५ ॥

चालः—

दर्शन ज्ञान चरण गुण सम्यग्
 एक एकना हेत । स्व स्व हेतु
 थया सम कालै ते अभेदता खेत ॥

૧૧૦

અધ્યાત્મગીતા.

પૂર્ણ સ્વજાતી સમાધિ ઘનઘાતી
 દલ છિન્ન । ક્ષાયક ભાવૈ પ્રગટૈ
 આત્મ ધર્મ વિભિન્ન ॥ ૩૬ ॥

અર્થ:—દર્શન જ્ઞાન ચરણ ગુણ
 સમ્યક્ એક એકના હેતુ. એટલે સમ્યક્ જ્ઞાન,
 કહતાં મહે પ્રકારે—સમ્યક્ જ્ઞાન સમ્યક્ દર્શન
 અને સમ્યક્ ચારિત્ર રૂપ જે ગુણ, અને એક
 એકના હેતુ કહતાં દર્શન છે તે જીવનું સામાન્ય
 ઉપયોગ રૂપ ગુણ છે. અને જ્ઞાન છે તે જીવને
 વિશેષ ઉપયોગ રૂપ ગુણ છે. એટલે દર્શન
 તથા જ્ઞાન એ બે ને વિષે સ્થિરતા રૂપ એકા-
 ગ્રતા પણે ઉપયોગ વર્તે તે ચારિત્ર જાણવો.
 માટે એ ત્રણે પરસ્પર એક- એકના હેતુ કહતાં

अध्यात्मगीता.

१११

माहोमांहि एक बीजाना हेतु रूप कारण जाणवा. एटले माहोमांहि एक बीजाना हेतु रूप कारण केम थया ? तोके स्व स्व हेतु थया सम काले ते अभेदता खेत. एटले स्व स्व हेतु थया कहतां आप आपणा हेतु रूप, अने थया सम काले कहतां एक समयमे ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप जे रत्नत्रयी ते एकता पणे प्रणमे; अने एहवी रीते एकता पणे केम प्रणमे ? तोके तेह अभेदता खेत एटले तेह कहतां तिमज, अने अभेद कहतां एहवी रीते अभेदात्म पणे, अने खेत कहतां स्व क्षेत्रने विषे जाणवा. अने एहवी रीते स्व क्षेत्रने विषे केम प्रणम्या ? तोके पूरण स्वजाति संप्राप्ति घनवाती दल छिन्न. एटले

૧૧૨

અધ્યાત્મગીતા.

ઘનઘર્તા દલ છિન્ન કહતાં ઘર્તા કર્મ રૂપ
 ઘન કહતાં જે સમૂહ તેહનાં દલીયાં આત્મ
 પ્રદેશને વિષે લાગ્યાં હતાં તેહને છિન્ન કહતાં
 છેદી નાચે. અને એહવી રીતે છેદી નાંચ્યાં
 ત્યારે. પૂર્ણ સ્વજાતિ સમાધિ. એટલે પૂર્ણ
 કહતાં સંપૂર્ણ અને સ્વ કહતાં પોતાની, અને
 જાતિ કહતાં જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણ એક રાશિ
 રૂપ જાતિ પ્રતે પ્રગટે, અને સમાધિ કહતાં
 તેહને વિષે સદા કાલ સમાધિ પ્રતે વર્તે. અને
 એહવી રીતે સમાધિ પ્રતે કેમ વર્તે ? તોકે
 ક્ષાયિક ભાવે પ્રગઢ્યા આત્મ ધર્મ વિભિન્ન.
 એટલે આત્મ ધર્મ કહતાં પોતાની સત્તાગતને
 વિષે અનંતો આત્મિક ધર્મ શક્તિ પળે રહ્યો
 હતો તે વ્યક્તિ પળે ક્ષાયિક ભાવે પ્રગઢ્યો.

अध्यात्मगीता.

११३

विभिन्न कहुतां एहवी रीते अभेदात्म पणे
 प्रगट करी लोकालोकना भासकरथका
 विचरे. अने एहवी रीते लोकालोकना
 भासकरथका विचरे त्यारे ॥ ३६ ॥

हालः—

पळे योग रोधियो ते अयोगी ।
 भाव सैलेसता अचल अभंगी ॥
 पंच लघु अक्षरे कार्य कारी ।
 भवोपग्रही कर्म संतति विडारी
 ॥ ३७ ॥

अर्थः— पळे योग रोधि थयो ते
 अयोगी. एटले योग रोधि कहुतां पळे तेरमा

११४

अध्यात्मगीता,

गुणस्थानने छेहले समे योगनो रोध करवा
 मांडचो एटले सूक्ष्म क्रियां अप्रतिपाति शुक्ल
 ध्याननो त्रीजो पायो ध्यावतो ते जीव
 चउदमे गुणस्थान चढे. तिहां प्रथम बादरनो
 मनो योग रोके, पछी बादरनो वचन योग
 रोके, पछी बादरनो काय योग रोके, पछी
 सूक्ष्म मनो योग रोके, पछी सूक्ष्म वचन
 योग रोके, पछी सूक्ष्म काय योग रोके,
 एहवी रीते सूक्ष्म बादर रूप योगनो रोध
 करी थयो ते अयोगी. एटले थयो ते अयोगी
 कहतां ते जीव चउदमे गुणस्थाने अयोगी
 पद प्रते पासे. अने एहवी रीते अयोगी पद
 प्रते केम पास्यो ? तोके भाव सेलेसता अचल
 अभंगी. एटले भाव सेलेसता कहतां भावना

अध्यात्मगीता.

११५

अकंप अडगपणा थकी, अने अचल कहतां चले नहीं एहवो स्थिरता रूप भाव, अने अभंगी कहतां एहवी रीते आव्यो थको ते भावनो भंग प्रते न थाय. अने एहवी रीते ते भावनो भंग प्रते न थाय त्पारे, पंच लघु अक्षरे कार्य कारी. एटले पंच लघु अक्षर कहतां चउदग्रा गुणस्थाने जीव पोहच्यो त्त्यारे; अ इ उ ऋ लृ, ए पंच लघु अक्षर रूप उच्चार करे, एटला कालमां कार्य कारी कहतां, ते जीव पोतानो सर्व कार्य प्रते नीपजावे. अने एहवी रीते सर्व कार्य प्रते केम नीपजावे ? तोके, भवोपग्राही कर्म संतति विडारी, एटले भवोपग्राही कहतां भवने आश्रीने. अने कर्मनी संतति कहतां कर्म रूप

११६

अध्यात्मगीता.

पुद्गलनी संतति वाकी रही हती तेहने
 विडारी कहतां चूरी वालीने क्षय प्रतें करी.
 अने एहवी रीते चूरी वालीने क्षय करी
 त्यारे ॥ ३७ ॥

चालः—

सम श्रेणै एक समयै पुहता जे
 लोकांति । अफुसमाण गति निर्मल
 चेतन भाव महंत ॥ चरम त्रिभाग
 विहीन प्रमाणै जसु अवगाह ।
 आत्म प्रदेश अरूपा खंडा नंद
 अवाह ॥ ३८ ॥

अर्थः—सम श्रेणै एक समयै पुहता

अध्यात्मगीता.

११७

जे लोकांति. एटले समश्रेणै कहेतां पाधरी श्रेणै; अने एक समय कहतां एक समयने विषे पोहता जे लोकांति एटले पोहता जे लोकांति कहतां चउदराज लोकने अंते अजरामर स्थानके सिद्ध क्षेत्र कहतां जे क्षेत्रने विषे अनंता सिद्ध परमात्मा विराजमान थका वर्ते छे, ते क्षेत्रने विषे पोहता एटले शिष्य कहे केम पोहता ? तोके, अफुसमाण गति निर्मल चेतन भाव महंत. एटले अफुसमाण कहतां बीजा प्रदेश अणफरसै एटले जे इहां आकाशरूप क्षेत्रना प्रदेश फरस्या हता तेहीज समश्रेणीना तिहां फरस्या छे. पिंग बीजा प्रदेश अणफरसै. अने गति कहेतां एहवी गतियें वर्तता पांंहच्या अने निर्मल

૧૧૮

અધ્યાત્મગીતા.

કહતાં કર્મ રૂપ મલ થકી રહિત. અને એહવી રીતે કર્મ રૂપ મલથકી રહિત થયા ત્યારે ચેતન માવ મહંત. એટલે ચેતન માવ કહતાં શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ચેતના ગુણ રૂપ ભાવે કરીને સહિત, અને મહંત કહેતાં એહવી મોટી શક્તિના ધણી જાણવા. અને વલી સિદ્ધ પરમાત્મા કેહવા છે ? તોકે, ચર્મ ત્રિભાગ વિહીન પ્રમાણે જસુ અવગાહ. એટલે ચર્મ ત્રિભાગ કહેતાં છેહલા શરીરનો ત્રીજો ભાગ, અને વિહીન કહતાં ઘટ્ટા-ડીને, અને પ્રમાણે કહતાં બે ભાગના શરીર પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશનો ઘનકરી, જસુ અવગાહ એટલે જસુ કહતાં જેહની, અને અવગાહ કહતાં તે પ્રમાણે અવગાહના કરી, સિદ્ધ ક્ષેત્રને વિષે ત્રિરાજમાન થકા વર્તે છે. અને વલી સિદ્ધ કેહવા

अध्यात्मगीता.

११९

छे ? तो के, आत्म प्रदेश अरूपा खंडा नंदा
 बाह. एटले आत्म प्रदेश अरूपा कहतां आ-
 त्मानो स्वरूप असंख्यात प्रदेश रूप अरूपी
 छे. अने अखंडा कहतां कोईनो खंड्यो खंडाय
 नहीं, भेद्यो भेदाय नहीं, छेद्यो छेदाय नहीं,
 सदाकाल शाश्वतो वर्ते छे, अने नंदा कहतां
 आनंदमयी अने अवाह कहतां ए आनंद प्र-
 गट्यो छे. पिण केहवो छे ? तोके, अबाध्य
 एटले बाधा रूप पीड़ाथकी रहित जाणवो. अने
 बली सिद्ध परमात्मा केहवा छे ? ॥ ३८ ॥

ढाल:—

जिहां एक सिद्धात्मा तिहां छे अ-
 नंता । अवन्ना अगंधा नहीं फास-

१२०

अध्यात्मगीता.

मंता ॥ आत्म गुण पूर्णतावंत संता ।
 निराबाध अत्यंत सुखा स्वादवंता
 ॥ ३९ ॥

अर्थः—जिहां एक सिद्धात्मा तिहां छे अनंता. एटले जिहां एक सिद्धात्मा कहतां जेणे क्षेत्रे एक सिद्ध परमात्मा छ, तेणे क्षेत्रे अनंता सिद्ध परमात्मा भेला मिलीने रखा छे. पिण ते सिद्ध केहवा छे ? तोके, अवन्ना अगन्धा नहीं फासमंता. एटले अवन्ना कहतां पांच वरण थकी सिद्ध रहित छे. अने अगंधा बे गंधथकी पिण रहित छे. अने वली सिद्ध केहवा छे ? तोके, नहीं फासमंता एटले नहीं फासमंता कहतां आठ फरस रूप शरीरथकी

અધ્યાત્મગીતા.

૧૨૧

પિણ સિદ્ધ રહિત છે. અને વલી સિદ્ધ કેહવા છે ? તોકે, આત્મ ગુણ પૂર્ણતાવંત સંતા. એટલે આત્મ ગુણ કહતાં પોતાના આત્માના જ્ઞાનાદિ અનંત ગુણ, અને પૂરણ કહતાં એહવી રીતે સમ્પૂર્ણ પણે અને સંતા કહતાં સંતભાવે છતાપણે પ્રગટ્યા છે. અને વલી સિદ્ધ કેહવા છે? તોકે, નિરાવાધ અત્યંત સુખા સ્વાદવંતા. એટલે, નિરાવાધ કહતાં સર્વ પ્રકારે અવાધ્ય એટલે વાધા રૂપ પીડાથકી સિદ્ધ રહિત છે. અને વલી સિદ્ધ કેહવા છે? તોકે, અત્યંત સુખ સ્વાદવંતા. એટલે અત્યંત સુખ કહતાં ચ્યારે નિકાયના દેવતાના ઇંદ્રીય-જનિત પુદ્ગલીક જે સુખ તે ત્રણે કાલના લેઁને ખેલા કરિયે, તેહને અનંત ગુણા વર્ગ વર્ગિત કરિયે; પિણ સિદ્ધ પરમાત્મા અજરામર

१२२

अध्यात्मगीता.

स्थानके आत्मिक सुख अनुभवे छे, ते सुख
 ने तोले एक समय मात्र पिण न आवे. अने
 स्वादवंता कहतां ए विभाविक सुखने अभावे
 स्वभाविक सुखनो आस्वादन प्रते करे छे.
 अने वली सिद्ध परमात्मा केहवा छे ? ॥३९॥

चालः—

कर्ता कारण कार्य निज परिणामिक
 भाव । ज्ञाता ज्ञायक भोग्य भोक्ता
 शुद्ध स्वभाव ॥ ग्राहक, रक्षक,
 व्यापक, तन्मयताये लीन, पूरण
 आत्म धर्म प्रकाश रसै लयलीन
 ॥४०॥

अध्यात्मगीता.

१२३

अर्थः—कर्त्ता कारण कार्य निज परिणामिक भाव. एटले कर्त्ता ते सिद्धनो जीव अने कारण कहतां पोताना ज्ञानादि अनन्त गुण प्रते कारण रूप नीपना छे, अने कार्य कहतां ते गुणम रमण करवा रूप कार्य जाणवो. अने निज परिणामिक भाव. एटले निज कहतां पोतानो, अने परिणामिक भाव कहतां नैगम, संग्रह नयनें मते जीवनी सत्ताये परिणामिक भाव रह्यो हतो तेहवो जे एवंभूत नयनें मते सिद्धि रूप कार्य प्रते नीपनो तेहने विषे वर्त्ते छे. अने वली सिद्ध परमात्मा केहवा छे ? तो के, ज्ञाता ज्ञायक भोग्य भोक्ता शुद्ध स्वभाव. एटले ज्ञाता कहतां ज्ञाने करीने, अने ज्ञायक कहतां अनेक ज्ञेय पदार्थ प्रते

૧૨૪

અધ્યાત્મગીતા.

જાણે છે. અને વલી સિદ્ધ પરમાત્મા કેહવા છે ? તો કે, ભોગ કહતાં પોતાના જ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણ રૂપ પર્યાય પ્રતે, અને ભોક્તા કહતાં તેહના ભોગને વિષય સદાકાલ નિરંતર પળે વર્તે છે. અને વલી સિદ્ધ પરમાત્મા કેહવા છે ? તો કે, શુદ્ધ સ્વભાવ. ઇટલે શુદ્ધ કહતાં નિર્મલ કર્મ રૂપ ઉપાધિ થકી રહિત, અને સ્વભાવ કહતાં એહવો પોતાની સ્વભાવ પ્રતે નીપનો છે. અને વલી સિદ્ધ કેહવા છે ? તો કે, ગ્રાહક, રક્ષક, વ્યાપક, તન્મયતાયે લીન. ઇટલે ગ્રાહક કહતાં એ પર સ્વભાવ રૂપ વિભાવ દશાનો અનાદિ કાલનો ગ્રહણપણો હતો તે નિવારીને પોતાના સ્વરૂપનો ગ્રહણ કર્યો છે. અને વલી સિદ્ધ પરમાત્મા કેહવા છે?

અધ્યાત્મગીતા.

૧૨૫

તો કે, રક્ષક કહતાં પોતાના સ્વરૂપ થકી
 ભિન્ન કહતાં એહવી પુદ્ગલાદિ અનિત્ય વસ્તુ
 તેહના અનાદિકાલના રક્ષક હતા તિહાં થકી
 મતિ નિવારીને પોતાના સ્વભાવ રક્ષક પળે
 પ્રણમ્યા છે. અને વલી સિદ્ધ પરમાત્મા
 કેહવા છે ? તો કે, વ્યાપક કહતાં એ પર
 પરિણતિ રૂપ વિભાવ દશાને વિષે
 અનાદિ કાલનો વ્યાપક પળો હતો, તિહાં
 થકી મતિ નિવારીને પોતાના સ્વભાવ
 વ્યાપક પળે પ્રણમ્યા છે. અને તન્મયતાયે
 લીન. એટલે તન્મયતાયે કહતાં તેહને વિષે
 તન્મય રૂપ એકાગ્રતા પળે લીન થકા વર્તે છે.
 અને વલી સિદ્ધ પરમાત્મા કેહવા છે ? તો કે
 પૂરણ આત્મ ધર્મ પ્રકાશ રસે લયલીન. એટલે

१२६

अध्यात्मगीता.

पूरण कहतां सम्पूर्ण, अने आत्मधर्म कहतां
 पोतानो अनन्त गुण रूप आत्मिक धर्म प्रते
 अने प्रकाश कहतां तेहनो सत्तागतने विषे
 प्रकाश प्रते प्रगळ्यो छे अने रसै लयलीन.
 एटले रसै कहतां तेहना रसनें विषे सदाकाल
 लयलीनपणे वर्त्ते छे एटले हिवे द्रव्य, क्षेत्र,
 काल, भावरूप चार भांगै करी सिद्धनो
 स्वरूप ओलखावे छे ॥ ४० ॥

ढालः—

द्रव्यथी एक चेतन अलेशी ।
 क्षेत्रथी जे असंख्य प्रवेशी ॥ उत्पात
 वली नाश ध्रुवकाल धर्म । शुद्ध
 उपयोग गुणभाव शर्म ॥४१॥

अध्यात्मगीता.

१२७

अर्थः—द्रव्यथी एक चेतन अलेसी. एटले द्रव्यथकी सिद्धने एक चेतन कहिये. एटले चेतन कहतां शुद्ध ज्ञानादि चेतना रूप गुणे करीने सहित माटे चेतन कहिये. अने अलेसी कहतां कृष्णनील कापोतादि छ लेख्याथकी सिद्ध रहित छे माटे अलेशी कहिये. क्षेत्रथी जे असंख्य प्रदेशी. एटले क्षेत्र थकी सिद्धने स्वक्षेत्र रूप असंख्यात प्रदेशी कहिये. उत्पात नाश ध्रुव काल धर्म. एटले काल थकी सिद्धने उत्पात कहतां अभिनव पर्याय ना जाणवा—देखवापणानो समय २ उपजवो थातो जाय अने नाश कहतां पूर्व पर्यायना जाणवा—देखवापणानो समय २ व्यय कहतां नाश थातो जाय. अने ध्रुव कहतां सिद्धने

૧૨૮

અધ્યાત્મગીતા.

જ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણ પ્રગચ્ચા છે; તે સદાકાલ ધ્રુવના ધ્રુવ પળે શાશ્વતા વર્તે છે. અને ધર્મ કહતાં એહવી રીતે સિદ્ધને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આદિ અનન્ત ગુણ રૂપ ધર્મ પ્રગચ્ચા છે; તેહને વિષે સદાકાલ પર્યાયનો ઉત્પાત વ્યય થઈ રહ્યો છે. અને વલી સિદ્ધ કેહવા છે ? તો કે, શુદ્ધ ઉપયોગ ગુણ ભાવ શર્મ. એટલે ભાવ-થકી સિદ્ધ પરમાત્માને ગુણ ભાવ કહતાં પો-તાના જ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણ ભાવ રૂપ પ્રગચ્ચા છે, તેહ રૂપ શર્મ કહતાં જં ઘર, અને શુદ્ધ ઉપયોગ કહતાં તેહ ધરને વિષે સદાકાલ નિરંતરપળે સિદ્ધ પરમાત્મા, શુદ્ધ કહતાં નિર્મલ ઉપયોગવંત થકા વર્તે છે. એની રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવે કરી સિદ્ધ પરમાત્માનો

अध्यात्मगीता.

१२९

स्वरूप जाणवो. अने वली सिद्ध परमात्मा
केहवा छे ? ॥ ४१ ॥

चालः—

सादि अनंत अविनाशी अप्रयासी
परिणाम । उपादान गुण तेहिज
कारण कारय धाम ॥ शुद्ध निक्षेप
चतुष्टय जुत्तो रत्तो पूर्णानंद । केवल
नाणो जाणौ तेहना गुणनो छंद
॥ ४२ ॥

अर्थः—सादि अनन्त अविनाशी अप्र-
यासी परिणाम. एटले वली सिद्ध केहवा छे ?
के, सादि अनन्त. एटले सादि अनन्त कहतां
5

१३०

अध्यात्मगीता.

एक सिद्ध आश्रय जे सिद्धि वर्या तेहनी आदि छे. ते आदि मे सिद्धि वर्या पिण तेहनो पाछो फरि अंत नथी. जे फलाणे दिन सिद्ध पाछां संसार में आवसे (अर्थात् नही आवे) तेहनें सादि अनन्त भांगो कहिये. अने वली सिद्ध केहवा छे ? के, अविनाशी एटले अविनाशी कहतां ए सिद्धि पद निपनो छे, पिण फिरि पाछो विनाश पणो नथी. अने वली सिद्ध केहवा छे ? के अप्रयासी परिणाम. एटले अप्रयासी कहतां सिद्ध प्रयास विना अनंतो आत्मिक सुख प्रते भोगवे छे. अने परिणाम कहतां सिद्ध परमात्मा सदा काल निरंतर पणे पोताना परिणामिक भावनें विषे रह्या वर्त्ते छे. उपादान गुण तेहिज

अध्यात्मगीता.

१३१

कारण कार्य धाम. एटले वली सिद्ध केहवा छे ? के उपादान कहतां पोतानो आत्मा; अने गुण तेहिज कारण कहतां पोताना ज्ञानादि अनन्त गुण कारण रूप प्रगट्या छे. अने कार्य कहतां अनेक ज्ञेय पदार्थ जाणवा-देखवा रूप पर्यायनो उत्पाद व्यय समय २ होय रह्यो छे. अने एहवी रीते धाम कहतां घर, एटले पोताना आत्मस्वरूपने विषे निवास प्रते करच्यो छे; एटले ए त्रणे एक समय एकता पणे प्रणमे छे. शुद्ध निक्षेप चतुष्टय जुत्तो रत्तो पूर्णानन्द. एटले वली सिद्ध केहवा छे ? तोके शुद्ध निक्षेप चतुष्टय जुत्तो रत्तो. एटले शुद्ध कहतां निर्मल, अने निक्षेप चतुष्टय कहेतां चार निक्षेपे करी

૧૩૨

અધ્યાત્મગીતા.

ને, જુત્તો કહતાં જુક્ત પ્રતે વર્તે છે.

ત્યારે શિષ્ય કહે. ચાર નિક્ષેપે કરીને સિદ્ધ નો સ્વરૂપ કેમ જાણિયે ? ત્યારે ગુરુ તદવિત્ (તદ્ વ્યતિરિક્ત) શરીર આશ્રયે ચાર નિક્ષેપા કહે છે. ઇટલે નામ સિદ્ધ કહતાં સિદ્ધ એસો નામ ત્રણે કાલે એક રૂપ શાશ્વતો વર્તે છે ॥ ૧ ॥

અને થાપના સિદ્ધ કહતાં દેહમાન મધ્યેથી ત્રીજો ભાગ ઘટાડીને બે ભાગના શરીર પ્રમાણે આત્મ પ્રદેશનો ઘન કરી થાપના રૂપ ક્ષેત્ર અવગાહી રહ્યા છે. ॥ ૨ ॥

અને દ્રવ્ય સિદ્ધ કહતાં શુદ્ધ નિર્મલ અસંખ્યાત પ્રદેશને વિષે જ્ઞાનાદિ અનન્ત ગુણ રૂપ છતી પર્યાય વસ્તુ રૂપ પ્રગટ્યો છે.

अध्यात्मगीता.

१३३

इति तद्वित शरीर आश्रये द्रव्य जाणघो ॥३॥

अने भावथकी सिद्धनो स्वरूप कहतां
सामर्थ पर्याय प्रवर्तना रूप अनन्तो धर्म
प्रगट्यो छे; तेणे करीने सदा काल नव
मवाज्ञेयनी वर्तना रूप पर्यायनो उत्पात व्यय
समय समय अनन्त अनन्तो होय रस्यो छे,
तेणे करीने सिद्ध परमात्मा अनन्तो सुख भो-
गवे छे ॥ ४ ॥

एणी रीते ए चार निक्षेपे करीने सिद्ध
परमात्मा रत्तो कहतां सदा काल तेहने विषे
रक्त प्रते वर्ते छे. अने पूर्णानंद कहतां एहवी
रीते सम्पूर्ण आत्मिक सुखनो आनंद प्रते
भोगवे छे. केवल नांणी जाणे तेहना गुणनो
छन्द. एटले केवल नांणी कहतां केवली

१३४

अध्यात्मगीता.

भगवान, अने जाणे कहतां एहवी रीते सिद्धनो स्वरूप प्रत्यक्ष पणे जाणे देखे; अने गुणनो छन्द कहतां ए सिद्ध परमात्माने अनंत गुण रूप समूह प्रते प्रगट्यो छे, तेहने विषे अनन्तो सुख भोगवे छे ते केवली भगवाननेज गम्य छे; पण छदमस्त मुनीना जाण्यामां न आवे ॥ ४२ ॥

ढाल:—

एहवी शुद्ध सिद्धता करण ईहा ।
इंद्रिय सुख थकी जे निरीहा ।
पुद्गली भावना जे असंगी । ते
मुनि शुद्ध परमार्थ रंगी ॥ ४३ ॥

अर्थ:—एहवी शुद्ध सिद्धता करण ईहा,

अध्यात्मगीता.

१३५

एटले एहवी कहतां आगल वखाणी तेहवी,
 अने शुद्ध कहतां निर्मल, अने सिद्धता कहतां
 एहवी रीते सिद्ध परमात्मानां सम्पदा प्रते, ते
 करण ईहा. एटले करण ईहा कहतां एहवी
 सिद्धि रूप सम्पदा प्रगट करवाना जे मुनिने
 ईहा (इच्छा) प्रते वर्ते ते मुनि केहवा छे ?
 तो के इंद्रिय सुख कहतां पंचेन्द्रीयना त्रेवीस
 विषय रूप पुद्गलीक जे सुख, अने निरीहा
 कहतां तेहनी इहा रूप वंछा थकी रहित
 थका वर्ते छे. अने वली ए मुनि केहवा छे
 तो के पुद्गलीक भावना जे असंगी. एटले
 पुद्गलीक भाव कहतां पोताना स्वरूप थकी
 भिन्न कहतां जुदो एहवो शुभाशुभ विभाव
 दशा रूप जे पुद्गलीक भाव, अने जे कहतां

૧૩૬

અધ્યાત્મગીતા.

તે મુનિ, અને અસંગી કહતાં તેહની વંછા રૂપ. સંગથકી રહિત ન્યારા પ્રતે વર્તે છે. તે મુનિ શુદ્ધ પરમાર્થ રંગી. એટલે તે મુનિરાજ શુદ્ધ કહેતાં નિર્મલ બુદ્ધિના ધણી, અને પરમાર્થ કહતાં સાધ્ય એક સાધન અનેક, એની રીતે સત્તાગતના ધર્મને સાથે. એહવી રીતે પરમ કહતાં ઉત્કૃષ્ટો અર્થ સાધવાને રંગી કહતાં જેહનો ચિત્ત પ્રતે રંગાણો છે. અને એહવી રીતે ચિત્ત પ્રતે રંગાણો ત્યારે ? ॥ ૪૩ ॥

ચાલઃ—

સ્યાદ્વાદ આત્મસત્તા રુચિ સમકિત
તેહ । આત્મધર્મનો ભાસન નિર્મલ
જ્ઞાની જેહ । આત્મરમણી ચરણી

अध्यात्मगीता.

१३७

ध्यानी आत्मलीन । आत्मधर्म
रम्यो तेणे भव्य सदा सुख पीन
॥ ४४ ॥

अर्थः—स्याद्वाद आत्मसत्ता रुचि सम-
कित तेह. एटले वली ए मुनि केहवा छे ?
तोके स्याद्वाद कहतां अनेकता नयनी अपे-
क्षाये स्याद्वाद रूप नित्य अनित्यादि आठ
पक्षे करीने; आत्मसत्ता रुचि कहतां एहवी
रीते पोतानी आत्मसत्ताने ओलखीने तेहने
प्रगट करवानी रुचि प्रते वते, अने एहवी
रीते आत्मसत्ता प्रगट करवानी रुचि प्रते
वर्ति त्यारे. समकित तेह. एटले तेह कहतां
ते मुनिराज शुद्ध भासन रूप सम्यक्त्व भावे

१३८

अध्यात्मगीता.

करीने सहित जाणवा, अने एहवी रीते सम्यक् भावे करीने सहित होय त्यारे. आत्मधर्मनो भासन निर्मल ज्ञानी जेह. एटले आत्मधर्मनो भासन कहतां शुद्ध निश्चय नये करी जोतांतो पोतानी आत्मसत्ताने विषे ज्ञानादि अनन्त गुण रूप धर्म रत्न छे, तेहनो भासन कहतां प्रतीत प्रते प्रगटे. अने एहवी रीते प्रतीत प्रते प्रगटी त्यारे निर्मल ज्ञानी जेह. एटले जेह कहतां ते मुनि, अने निर्मल ज्ञानी कहतां ज्ञानावर्णादि कर्म रूप आर्कणने अभावै; निर्मल जाणपणा रूप ज्ञान तेहने प्रगटे. अने एहवी रीते निर्मल जाणपणा रूप ज्ञान प्रगट्यो त्यारे, आत्मरमणी चरणी ध्यानी आत्मलीन. एटले आत्मरमणी कहतां

अध्यात्मगीता.

१३९

ते मुनि सदा काल निरंतरपणे पोताना आत्म स्वरूपने विषे रमण प्रते करे. अने एहवी रीते रमण प्रते करचो त्यारे, चरणी. एटले चरणी कहतां ए शुद्ध चारित्रने विषे जे उपयोग तेहनो जाणवो. अने एहवी रीते शुद्ध चारित्रने विषे उपयोग वत्यो त्यारे ध्यानी आत्मलीन. एटले ध्यानी कहतां पोताना आत्म स्वरूपना ध्यानने विषे, अने लीन कहतां तेहने विषे सदा काल तलालीन पणे वर्ते. अने एहवी रीते तलालीन पणे वत्यो त्यारे, आत्मधर्म रम्यो तेणे भव्य सदा सुखपीन. एटले आत्म-धर्म कहतां शुद्ध निश्चय नये पोतानी आत्म-सत्ताने विषे ज्ञानादि अनन्त गुण रूप धर्म रह्यो छे, ते धर्मने ओलखी प्रतीत करी.

१४०

अध्यात्मगीता.

अहो भव्य ! अहो उत्तम ! तेहना ध्यानने
 विषे सदाकाल रम्यो कहतां रमण प्रते कयो
 अने एहवी रीते रमण करतां थकां सदा
 सुखपीन. एटले सदा सुखपीन कहतां ते
 जीवने सदाकाल पीन कहतां पुष्ट सुख प्रते
 जाणवो. त्यारे शिष्य कहे एहवी रीते पुष्ट
 सुखनी प्राप्ति केम नीपजे ? ॥ ४४ ॥

ढालः—

अहो भव्य तुम्हें ओलखो जैन
 धर्म । जिणै पामिये शुद्ध अध्यात्म
 मर्म ॥ अल्प कालै टलै दुष्ट कर्म ।
 पामिये सोय आनन्द शर्म ॥ ४५ ॥

अर्थः—अहो भव्य तुम्हे ओलखो

अध्यात्मगीता.

१४१

जैन धर्म. एटले अहो भव्य ! अहो उत्तम !
 अहो सुलभबोधी जीवो ! तुम्हे ओलखो जैन
 धर्म. जिन कहतां वीतराग, राग द्वेष थकी
 रहित एहवा जे सामान्य केवली तेहने विषे
 राजा समान, एहवा जिनेश्वर देव, त्रिगड़ाने
 विषे बेसीने वस्तुधर्म जेहवो अंतरंग सत्तागते
 रह्यो छे तेहवो जे प्रकाश्यो, ते धर्मने ओलखी
 प्रतीत कर्यो थकी. जेणे पापिये शुद्ध
 अध्यात्म मर्म. एटले शुद्ध कहतां निर्मल विभाव
 दशा रूप उपाधि थकी रहित, एहवो अध्या-
 त्मनो मर्म कहतां अंतरंग जाणपणा रूप ज्ञाने
 करी स्वरूप भासनतारूप मर्म कहतां प्रतीत प्रते
 प्रगटी अने एहवी रीते स्वरूप भासनतारूप प्रतीत
 प्रते. प्रगटी त्यारे. अल्प काले टले दुष्ट कर्म.

૧૪૨

અધ્યાત્મગીતા.

ઇટલે અલ્પ કહતાં થોડા કાલમે, અને દુષ્ટ
 કહતાં આકરા આત્મગુણને યાતના કરણહાર
 ઇહવા જ્ઞાનાવર્ણાદિ જે કર્મ ટલે કહતાં નાશ
 પ્રતેં પામે. અને ઇહવી રીતે કર્મનો નાશ પ્રતેં
 થાય ત્યારે પામિયે સોય આનન્દ શર્મ. ઇટલે
 સ્વ કહતાં પોતાનો આત્મિક સુખનો આનંદ
 કહતાં ઇહવો આનંદ નિત્યાનંદ પરમ સુખ
 પ્રતેં, અને શર્મ કહતાં જેહનો સ્વ સ્થાન પ્રતેં
 જિહાં અનંતા સિદ્ધ પરમાત્મા વસે છે, ઇહવો
 સ્વસ્થાન કહતાં ઘર પ્રતેં પામે. ત્યારે શિષ્ય
 કહે—જિહાં અનંતા સિદ્ધ પરમાત્મા વસે છે તે
 ઘર પ્રતેં કેમ પામિયે ? ॥ ૪૬ ॥

ચાલ:—

નય નિક્ષેપ પ્રમાણે જાણે જીવા-

अध्यात्मगीता.

१४३

जीव । स्व पर विवेचन करतां थाये
 लाभ सदीव ॥ निश्चे ने व्यवहारे
 विचरे जे मुनिराज । भवसागरना
 तारण निर्भय तेह जहाज ॥ ४६ ॥

अर्थ:—नय निक्षेप प्रमाणे जाणे जीवा-
 जीव. एटले नय कहतां नैगमादि सात नये
 करी, अने निक्षेप कहतां नामादि चार
 निक्षेपे करी, जाणे जीवाजीव एटले जाणे
 जीवाजीव कहतां जीव अजीव रूप नव
 तत्व षट् द्रव्यनो स्वरूप प्रते जाणे तेहने
 साधु श्रावकपणो जाणवो. त्यारे शिष्य
 कहे—नैगमादि सात नये करी, अने नामादि
 चार निक्षेपे करी जीव अजीव रूप नव तत्व

१४४

अध्यात्मगीता.

षट्द्रव्यनो स्वरूप किम जाणिये ? त्यारे द्विषे प्रथम गुरु कृपा करि, सात नये नव तत्वनो स्वरूप प्रते ओलखावे छे.

एटले नैगम नयने मते सर्वे तत्व छे, जे कारण सर्वे तत्वने चाहे छे १. त्यारे संग्रह नयना मतवालो सर्वनो संग्रह करी बोल्यो (कहे)—एक तत्व. एटले जेहने मन मान्यो ते तत्व, बीजा सर्वे अतत्व जाणवा २. एटले व्यवहार नयना मतवाले बाह्य स्वरूप देखीने भेद वेंहचवा मांड्या. एटले ए नयना मतवालो दीसता गुण देखे ते माने, माटे बे तत्व—एटले एक जीव तत्व ? अने बीजो अजीव तत्व २. एटले प्रथम जीवना बे भेद—एक सकल कर्म क्षय करी लोकने

अध्यात्मगीता.

१४५

अंते विराजमान ते सिद्ध, अने बाकीना बीजा संसारी. ते संसारीना बे भेद—एक अयोगी अने बाकी बीजा सयोगी. एटले चौदमा गुणस्थानना जीव ते अयोगी, बाकी बीजा सयोगी. ते सयोगीना बे भेद—एक केवली, बाकी बीजा छद्मस्थ. एटले तेरमा गुणस्थानना जीव ते केवली अने बाकी बीजा छद्मस्थ. एटले छद्मस्थना बे भेद—एक क्षीणमोही अने बाकी बीजा उपसंतमोही. एटले वारमा गुणस्थानना जीव ते क्षीणमोही अने बाकी बीजा उपसंतमोही ते उपसंतमोहीना बे भेद—एक अकषाई बीजा सकषाई. एटले अग्यारमा गुणस्थानना जीव ते अकषाई, अने बाकी बीजा सकषाई. ते सकषाईना बे भेद, एक

૧૪૬

અધ્યાત્મગીતા.

સૂક્ષ્મકર્ણાઈ અને બાકી બીજા બાદરકર્ણાઈ. ઇટલે દશમા ગુણસ્થાનના જીવ તે સૂક્ષ્મકર્ણાઈ અને બાકી બીજા બાદરકર્ણાઈ તે. બાદરકર્ણાઈના બે ભેદ એક શ્રેણીપ્રતિપન્ન, અને બીજા શ્રેણીરહિત. ઇટલે આઠમા નવમા ગુણસ્થાનના જીવ તે શ્રેણીપ્રતિપન્ન અને બાકી બીજા શ્રેણી રહિત. તે શ્રેણીરહિતના બે ભેદ એક અપ્રમાદી અને બાકી બીજા સર્વે પ્રમાદી. ઇટલે સાતમા ગુણસ્થાનના જીવ તે અપ્રમાદી, અને બાકી બીજા સર્વે પ્રમાદી. તે પ્રમાદીના બે ભેદ—એક સર્વ વિરતિ અને બીજા દેશવિરતિ. તે દેશવિરતિના બે ભેદ—એક વિતિ પરિણામ અને બીજા અવિત્તિ-પરિણામ. તે અવિત્તિના બે ભેદ—એક અવિત્તિ સમક્તિ અને બીજા મિથ્યાત્વી. તે મિથ્યા-

अध्यात्मगीता.

१४७

त्वीना बे भेद—एक भव्य, बीजा अभव्य. ते भव्यना बे भेद—एक गंठीभेदी अने बीजा जीव गंठी अभेदी. एटले एणी रीते व्यवहार नयना मतवालो जेहवो देखे तेहवा भेद वेंहचे. वली जीवना बे भेद—एकत्रस १ अने बीजा थावर २ एटले थावर कहतां पृथ्वी १ अप २ तैउ ३ वायु ४ अने वनस्पति ५ ते सूक्ष्म अने बादर करतां १० (दश) भेद अने पर्याप्तो अने अपर्याप्तो करतां २० भेद जाणवा. अने प्रत्येक वनस्पति पर्याप्तो अने अपर्याप्तो, एणी रीते एकेन्द्री थावरना २२ भेद जाणवा.

हिवे त्रसनो स्वरूप कहे छे. एटले त्रसना ४ भेद—देवता १ नारकी २ तिर्यच ३

૧૪૮. અધ્યાત્મગીતા.

અને મનુષ્ય. ૪ તે મધ્યે દેવતાના ૯૯ ભેદ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા થઈને ૧૯૮ ભેદ જાણવા. નારકીના સાત પર્યાપ્તા, અપર્યાપ્તા થઈને ૧૪ ભેદ. અને તિર્યચ જીવ, ગર્ભજ, સમુર્ચ્છિમ ણી રીતે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા થઈને ૨૬ ભેદ. * મનુષ્યના ૧૦૧ ભેદ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા થઈને ૨૦૨ અને ૧૦૧ સમુર્ચ્છિમ, ણી રીતે ૩૦૩ ભેદ. ઇમ સર્વે ત્રસ થાવરના થઈને વ્યવહાર નયને મતે

* વેન્દ્રી ૧ તેન્દ્રી ૨ ચૌરિન્દ્રીના ૩ પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા કરને ૬ ભેદ અને પંચદ્વન્દ્રી તિર્યચના ૨૦ ભેદ, જલચર ૧ થલચર ૨ સ્થેચર ૩ ઉરપરિ ૪ ભુજપરિ ૬ ના પર્યાપ્તા અપર્યાપ્તા, ગર્ભજ અને હમુર્ચ્છિમ કરને સર્વ ૨૬ ભેદ જાણવા.

अध्यात्मगीता.

१४६

जीवना ५६३ भेद जाणवा ॥ १ ॥

हिवे अजीवना भेद वेहचे छे. (देखाडे छे) एटले अजीवना २ भेद—एक रूपी अने बीजा अरूपी. एटले अरूपी कहतां धर्मास्तिकाय स्कन्ध (खंध) १ देश २ अने प्रदेश ३. अधर्मास्तिकाय स्कन्ध (खंध) १ देश २ अने प्रदेश ३. आकास्तिकाय स्कन्ध (खंध) १ देश २ अने प्रदेश ३. अने अद्वा कहतां काल, सर्वे थईने १० भेद जाणवा. हवे धर्मास्तिकाय द्रव्यथकी १ क्षेत्रथकी २ कालथकी ३ भावथकी ४ नेगुणथकी ५. एणी रीते अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, तथा काल सर्वे थईने २० भेद जाणवा. अने आगला १० भेद मांही भेलतां अरूपीना सर्वे

१६०

अध्यात्मगीता.

थईने ३० भेद जाणवा ॥ २ ॥

हिवे रूपी अजीवनो स्वरूप कहे छे.
 एटले रूपी कहेतां (स्पर्श) फरसना ८
 गन्धना २ रसना ५ वर्णना ५ संस्थानना ५
 एणी रीते २५ भेद ते मध्ये पांच रसना १००
 पांच वर्णना १०० पांच संस्थानना १००
 अने आठ स्पर्श अने बे गन्ध ए दशना २३०
 एटले सर्वे थईने रूपीना भेद ५३० कहिये.
 एणी रीते व्यवहार नयने मते अजीवना रूपी
 अरूपीना थईने ५६० भेद जाणवा ॥ ३ ॥
 एणी रीते व्यवहार नयने मतवाले जीव
 अजीव रूप बे तत्त्वनी वेहचण करी देखाडी
 वली शिष्य कहे-रिजु सूत्र नयने मते
 करी तत्त्वनो स्वरूप केम जाणिये ? त्यारे

अध्यात्मगीता.

१५१

गुरु कहे—कोई जीव शुभाशुभ परिणामे करी
 पुण्य पाप रूप आश्रवना दलीया बांधे तेहने
 अजीव कहिये. एटले ए चार नय मे ए छ
 तत्त्व जाणवा ॥ ४ ॥

वली शिष्य कहे—शब्द नयने मते करी
 तत्त्वनों स्वरूप किम जाणिये ? त्यारे गुरु
 कहे—शब्द नयने मते चोथे गुणस्थाने सम-
 किती जीव, पांचवे गुणस्थाने देशविरती जीव,
 छठे सातवें गुणस्थाने सर्वविरती जीव, अन्त-
 रंग सत्तागत ना भासन रूप संवर भाव में
 वर्तता समय २ महा निर्जरा मते करे छे ॥५॥

वली शिष्य कहे—समभिरूढ नयने मते
 करी तत्त्वनों स्वरूप किम जाणिये ? त्यारे
 गुरु कहे—जे ए नयना मतवालो श्रेणी भावने

૧૬૨

અધ્યાત્મગીતા.

ગ્રહે છે, માટે નવમા દશમા ગુણસ્થાનથી માંડી
 યાવત્ તેરમાં ચૌદમા ગુણસ્થાન પર્યંત કેવલી
 ભગવાન પિણ સંવરભાવમે વર્તતા મહાનિર્જરા
 પ્રતે કરે છે ૮ તેહને ભવ શરીર આશ્રયે દ્રવ્ય
 મોક્ષ પદ કહિયે ॥ ૬ ॥ ૧ ॥

અને એવંભૂત નયને મતે સકલ કર્મ
 ક્ષયકરી લોકને અંતે| વિરાજમાન સાદિઅનં-
 તમે ભાગે વર્તતા એહવા સિદ્ધ પરમાત્મા તેહને
 ભાવ મોક્ષ પદ કહિયે ॥ ૭ ॥ ૧ ॥ એની રીતે
 સાતે નયે કરી તત્વનો સ્વરૂપ જાણવો.

હિવે નામાદિ ૪ નિક્ષેપે કરી ૫૬ દ્રવ્યનો
 સ્વરૂપ ઓલસવાવે છે. એટલે નામજીવ કહતાં
 નૈગમ નયને મતે ગયે કાલે જીવતો હતો
 આગામી કાલે જીવસે અને વર્તમાન કાલે

अध्यात्मगीता.

१५३

पिण जीवे छे. एहवी रीते त्रणे काल एक
रूप शाश्वतो वर्त्ते तेहने नामजीव कहिये ॥१॥

अने स्थापनाजीव कहतां जीव एहवा
अक्षर लिखीने थापवा, ते संग्रह नयने मते
असद्भाव स्थापना रूप जीव जाणवो. अने
मांचा नीवाणमां जीव ते संग्रह नयने मते
सद्भाव स्थापना रूप जीव जाणवो. ॥ २ ॥

अने द्रव्यजीव कहतां रिजु व्यवहार
नयने मते एकेद्री थकी पंचेद्री पर्यंत पहिले
गुणस्थाने अनाउपयोगे मिथ्यात्व भावे वर्त्ते
तेहने द्रव्यजीव कहिये. (अणुवओगो ह्वं)
ए अनुयोग द्वार सूत्रनो वचन छे ॥ ३ ॥

अने भावजीव कहतां शब्द नयने मते
चौथा गुणस्थान सं मांडी, यावत् छठा सातमा

૧૬૪

અધ્યાત્મગીતા.

ગુણસ્થાન પર્યંત જીવ અજીવની ઓલ-
 ટ્વાણ, સ્વ પરની વેહચળ કરી જીવ સ્વરૂપના
 ઉપયોગમાં સમક્રિત ભાવે વર્તે તેહને ભાવ-
 જીવ કહિયે. (ઉવઓગોભાવં) એ અનુયોગ
 દ્વારની સાચ છે ॥૪॥ એની રીતે ચાર નિક્ષે-
 પામે પાંચે નયે કરી જીવનો સ્વરૂપ જાણવો.

હિવે નામથકી ધર્માસ્તિકાય એસો નામ
 ૧. અને સ્થાપના થકી ધર્માસ્તિકાય એસા
 અક્ષર લિખવા, તે સ્થાપના રૂપ ધર્માસ્તિકાય
 જાણવો ૨. અને દ્રવ્યથકી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય
 અસંખ્યાત પ્રદેસી ૩. અને ભાવથકી ધર્મા-
 સ્તિકાય દ્રવ્ય ચલણ સહાય રૂપ જાણવો ૪.

હિવે નામથકી અધર્માસ્તિકાય એસો
 નામ ૧. અને સ્થાપના થકી અધર્માસ્તિકાય

अध्यात्मगीता.

१५५

ऐसा अक्षर लिखवा, ते स्थापना रूप अधर्मास्तिकाय जाणवो २. अने द्रव्य थकी अधर्मास्तिकाय द्रव्य असंख्यात प्रदेसी ३. अने भावथकी अधर्मास्तिकाय द्रव्य स्थिर सहाय रूप जाणवो ४.

हिवे नाम थकी आकास्तिकाय एसो नाम १. अने स्थापना थकी आकास्तिकाय सेसा अक्षर लिखवा, ते स्थापना रूप आकास्तिकाय जाणवो २. अने द्रव्य थकी आकास्तिकाय द्रव्य अनन्न प्रदेसी ३. अने भावथकी आकास्तिकाय द्रव्य अवगाहना रूप जाणवो ४.

हिवे नामथकी कालद्रव्य एसो नाम १. अने स्थापना थकी कालद्रव्य एसो अक्षर

१५६

अध्यात्मगीता.

लिखवा, ते स्थापना रूप काल जाणवोर. अने द्रव्य थकी कालनो एक समय लोकमे सदा काल शाश्वतो वर्ते छे ३. अने भाव थकी काल द्रव्य नवां पुराणा वर्तना रूप जाणवो ४.

हिवे भावथकी पुद्गलास्तिकाय ऐसो नाम १. अने स्थापना थकी पुद्गलास्तिकाय ऐसा अक्षर लिखवा, ते स्थापना रूप पुद्गलास्तिकाय जाणवो २. अने द्रव्यथकी पुद्गल द्रव्यना अनन्ता परमाणुंवा लोकमे सदा काल शाश्वता वर्ते छे ३. अने भाव थकी पुद्गल द्रव्य गलण पूरण मिलण विखरण रूप जाणवो ४. ॥ ६ ॥

एणी रीते जीव अजीव रूप षट् द्रव्य मे चार चार निक्षेपा जाणवा.

अध्यात्मगीता.

१५७

हिवे नव तत्त्व नो स्वरूप नय रूप चार निक्षेपे करी ओलखावे छे. तिहां प्रथम जीव अजीव रूप पट् द्रव्य नो स्वरूप कह्यो.

हिवे उदय भाव रूप पुण्य में निक्षेपा उतारे छे. एटले नाम पुण्य कहतां नैगम नयने मते गये काले पुण्य एहवो नाम वर्ततो हतो अने आवते काले पिण पुण्य एहवो नाम वर्त्तस्यै. अने वर्तमान काले पिण ते नाम वर्त्ते छे. एहवी रीते नैगम नयने मते त्रणे काल एक रूप साश्वतो वर्त्ते, तेहने नाम पुण्य कहिये ? अने स्थापना पुण्य कहतां पुण्य ऐसा अक्षर लिखीने थापवा ते संग्रह नयने मते असदभाव स्थापना रूप पुण्य जाणवो; अने कर्म सत्ताना प्रकृति रूप दलीया जीवनी

૧૫૮

અધ્યાત્મગીતા.

સત્તાયે લાગા છે, તે સંગ્રહ નયને મતે સદ્ભાવ
સ્થાપના રૂપ પુણ્ય જાણવો ૨ અને દ્રવ્યપુણ્ય
કહતાં ઉદય ભાવ ને જોગે વ્યવહાર નયને
મતે તે દલીયાનો ઉદય થયો તે ભવ શરીર
આશ્રય ઉદય ભાવ રૂપ દ્રવ્ય પુણ્ય જાણવો
॥ ૩ ॥

અને ભાવ પુણ્ય કહતાં રિજુ સૂત્ર નયને
મતે મન, વચન, કાયાયે કરી વ્યવહાર નયને
મતે ડપર થકી પુણ્ય રૂપ દલીયાનો ભોગ-
વણો તે ભાવ રૂપ પુણ્ય જાણવો.

હિવે પુણ્ય રૂપ કરણીનો કરવો, તે
ડપર નિક્ષેપા લગાવે છે. ઇટલે નામ પુણ્ય
કહતાં પુણ્ય ઇહવો નામ તે નૈગમ નયને મતે
ત્રણેકાલ એક રૂપ પળે વર્તે છે ૧. અને

अध्यात्मगीता.

१५९

स्थापना पुण्य कहतां पुण्य ऐसा अक्षर लिखीनें थापवा, ते संग्रह नयनें मते असद्भाव स्थापना रूप पुण्य जाणवो. अने कोई जीव पुण्य रूप करणी करे छे एहवी मूर्ति स्थापवी, ते सद्भाव स्थापना रूप पुण्य जाणवो २. अने द्रव्यपुण्य कहतां ऊपर थकी अरुचि भावे अणा उपयोगे व्यवहार नयने मते पुण्य रूप करणीनो करवो, ते सर्वे तद्वित् शरीर आश्रय द्रव्य पुण्य जाणवो ३. अने भाव पुण्य कहतां रिजु सूत्र नयने मते मन, वचन, कायाये करी एक चित्ते व्यवहार नयने मते ऊपर थकी पुण्य रूप करणीनो करवो ते सर्वे भाव पुण्य जाणवो ४.

हिषे उदय भाव रूप पापमां निक्षेपा

૧૬૦

અધ્યાત્મગીતા.

લગાવે છે. ઇટલે નામ થકી પાપ કહતાં પાપ
 એસો નામ તે નેગમ નયને મતે ત્રગે કાલ એક
 રૂપ પળે વર્તે છે ૧. અને સ્થાપના પાપ કહતાં
 પાપ અક્ષર લિખીને સ્થાપના તે સંગ્રહ નયને
 મતે અસદ્ ભાવ સ્થાપના પાપ જાણવો. અને
 કર્મ સત્તાના પ્રકૃતિ રૂપ દલીયાં જીવની
 સત્તાયે લાગા છે તે સંગ્રહ નયને મતે સદ્ભાવ
 સ્થાપના રૂપ પાપ જાણવો ૨. અને દ્રવ્ય
 પાપ કહતાં ઉદય ભાવને જોગે વ્યવહાર નયને
 મતે તે દલીયાંનો ઉદય થયો તે સર્વે ભવ શરીર
 આશ્રય ઉદય ભાવ રૂવ દ્રવ્ય પાપ જાણવો ૩
 અને ભાવ પાપ કહતાં રિજુ સૂત્ર નયને મતે મન,
 વચન કાયાયે કરી વ્યવહાર નયને મતે ઊપર
 થકી પાપ રૂપ દલીયાંનો ભોગવળો તે સર્વે ભાવ

अध्यात्मगीता.

१६१

रूप पाप जाणवो ४.

हिवे पाप रूप करणीनो करवो ते ऊपर निक्षेपा लगावे छे एटले नाम पाप कहतां पाप ऐसो नाम, ते नैगम नयने मते त्रणे काल एक रूप पणे वर्त्ते छे. १. अने स्थापना पाप कहतां पाप एहवा अक्षर लिखीने थापवा, ते संग्रह नयने मते असद्भाव स्थापना रूप पाप जाणवो. अने कोई जीव पाप रूप करणी करे छे एहवी मूर्ति स्थापवी ते सद्भाव स्थापना रूप पाप जाणवो २ अने द्रव्य पाप कहतां ऊपर थकी अरुचिभावे अणाउपयोगे व्यवहार नयने मते पाप रूप करणीनो करवो, ते सर्वे तद्वित (तद्व्यतिरिक्त) शरीर आश्रय द्रव्य पाप जाणवो

6

१६२

अध्यात्मगीता.

३. अने भावपाप कहतां रिजु सूत्र नयने मते मन, वचन रूप, कायाये करी एकचिते व्यवहार नयने मते उपरथकी पाप रूप करणीनो करवो, ते सर्वे भावपाप जाणवो ४.

हिवे आश्रव मे निक्षेपा लगावे छे. एटले नामआश्रव कहतां आश्रव ऐसो नाम, ते नैगम नयने मते त्रणे काल एक रूप पणे वर्ते छे १. अने स्थापनाआश्रव कहतां आश्रव एहवा अक्षर लिखीने स्थापवा, ते संग्रह नयने मते असद्भाव स्थापना रूप आश्रव जाणवो, अने आश्रव रूप मूर्ति स्थापवाने संग्रह नयने मते सद्भाव स्थापना रूप आश्रव जाणवो २. अने द्रव्यआश्रव कहतां बेतालीस प्रकार रूप

अध्यात्मगीता.

१६३

आश्रव नें घड़नाले करी व्यवहार नयने मते शुभाशुभ आश्रव रूप दलीयानो ग्रहण करवो ते सर्वे तद्वित् शरीर आश्रय, द्रव्यआश्रव कहिये ३. अने भावआश्रव कहतां रिजु व्यवहार नयने मते मन, वचन, कायाये करी उदयभावने जोगे ते दलियानो भोगवणो, तेहनें उदयभाव रूपभाव आश्रव कहिये ४.

हिवे संवर मे निक्षेपा उतारे छे. एटले नामसंवर कहतां जे संवर ऐसो नाम, ते नैगम नयने मते त्रणे काल एक रूप जाणवो १. अने स्थापनासंवर कहतां जे संवर ऐसा अक्षर लिखीने स्थापवा, ते संग्रह नयने मते असदूभाव स्थानना रूप संवर जाणवो. अने संवर रूप मूर्ति स्थापवी, ते संग्रह नयने मते

१६४

अध्यात्मगीता.

सद्भाव स्थापना रूप संवर जाणवो २. अने द्रव्यसंवर कहतां जे व्यवहार नयने मते उपरथकी अरुचि भावे लोक देखाडवा रूप पोषापडिकमणा सामायक आदे अनेक प्रकारे संवरनी करणी करवी, ते सर्वे तदवित् शरीर-आश्रय द्रव्यसंवर वृथा रूप जाणवो ३. अने भावसंवर कहतां जे रिजु सूत्र नयने मते मन, वचन, कायाये करी यथाप्रवृत्ति रूप करणना परिणामे पोसा पडिकमणां व्रत पचक्खाण आदे व्यवहार नयने मते उपरथकी संवर रूप करणानां करवो ४.

एट्ठे ए च्यार नयना च्यार निक्षेपा यथाप्रवृत्ति करण रूप संवर जाणवो.

वलि नाम थकी संवर कहतां जे संवर

अध्यात्मगीता.

१६५

ऐसो नाम, ते नैगम नययें मते जाणवो १.
 अने स्थापना थकी संवर कहतां जे संवर
 ऐसा अक्षर लिखीनें स्थापवा, ते संग्रह नयने
 मते असद्भाव स्थापना रूप संवर जाणवो.
 अने संवर रूप मूर्ति स्थापवी, ते संग्रह नयने
 मते सद्भाव स्थापना रूप संवर जाणवो २.
 अने द्रव्यसंवर कहतां जे रिजु सूत्र नयने
 मते मन, वचन, कायाये करी व्रत पचक्खाण
 रूप उपरथकी व्यवहार नयने मते संवर रूप
 करणीनो करवो, ते सर्वे तद्वित शरीर
 आश्रय द्रव्य संवर जाणवो ३. अने भाव
 संवर कहतां जे शब्द नयने मते जीव अजीव
 रूप, स्वसत्ता पर सत्तानी वेहचण करी
 स्थिरता रूप परिणामे आगळ द्रव्य निक्षेपा

१६६

अध्यात्मगीता.

मध्ये रिजु व्यवहार नये संवर रूप करणी कही, ते करतां थकां महा निर्जरा प्रते करे ते सर्वे भाव संवर जाणवो. एणी रीते संवर में पांच नय में चार निक्षेपा जाणवा ४.

हिवे निर्जराभे निक्षेपा उतारे छे. एटले नाम थकी निर्जरा कहतां जे निर्जरा ऐसो नाम, ते नैगम नयने मते त्रणे काल एक रूप पणे जाणवो १. अने स्थापना थकी निर्जरा कहतां जे निर्जरा एसा अक्षर लिखवा, ते संग्रह नयने मते स्थापना रूप निर्जरा जाणवी २. अने द्रव्यनिर्जरा कहतां जे व्यवहार नयने मते रिजु सूत्रना उपयोग सहित मिथ्यात्व भावे अकाम निर्जरा करवी, ते सर्वे तद्वित् शरीर आश्रय द्रव्यनिजरा जाणवी ३. अने

अध्यात्मगीता.

१६७

भावनिर्जरा कहतां जे शब्द नयने मते जीव
अजीव रूप घट्ट द्रव्य नव तत्वो जाणपणो
प्रतीत करी, रिजुना उपयोग सहित ऊपर
थकी व्यवहार नयने मते वारे भेदे तपस्या
रूप करणीनो करवो, ते भावनिजरा जाणवी
४. एणी रीते पांच नयमां चार निक्षेपा
निर्जरा रूप जाणवा.

हिवे बंधमे निक्षेपा उतारे छे. एटले नाम
थकी बंध कहतां जे बंध एसो नाम, ते नैगम
नयने मते जाणवो १. अने स्थापना थकी
बंध कहतां जे बंध ऐसा अक्षर लिखीने
स्थापवा, ते स्थापना रूप बंध जाणवो २.
अने द्रव्य थकी बंध कहतां जे प्रकृतिबंध,
स्थिति बंध, रसबंध, प्रदेशबंध; एणी रीते

१६८

अध्यात्मगीता.

चार प्रकार बंध रूप दलीयां जीवनी सत्ताये बांध्यां छे; ते संग्रह नयने मते कर्मसत्ता रूप भव शरीर आश्रय द्रव्यबंध जाणवो ३. अने भावबंध कहतां जे व्यवहार नयने मते ते दलीयानो उदय थयो, ते उदय भाव रूप भाव बंध जाणवो ४. एणी रीते उदय भाव रूप बंधमें त्रण नयमां ए च्यार निक्षेपा जाणवा.

बली नामथकी बंध कहतां जे बंध ऐसो नाम, ते नैगम नयने मते जाणवो १. अने स्थापना थकी बंध कहतां जे बंध ऐसा अक्षर लिखवा अथवा बंध रूप मूर्ति स्थापवी, ते स्थापना रूप बंध जाणवो २. अने द्रव्यबंध कहतां जे आगल चार प्रकारे बंध रूप

अध्यात्मगीता.

१६९

दलीया संग्रह नयने मते जीवनी सत्ताये रखा छे, तेहनो स्थिति पाके व्यवहार नयने मते उदय थयो, ते सर्वे तद्वित् शरीर आश्रय द्रव्यबंध जाणवो ३. अने भाव थकी बंध कहतां जे रिजु सूत्र नयने मते मिथ्यात्व अवृत्त कषाय योग रूप सत्तावन ५७ बंध हेतु प्रमुख जीवना परिणाम, एटले तेहनी चिकासे, वली पाछो कर्म रूप दलीयानो बंध पाड़े माटे रिजु सूत्र नयने मते तेहने भावबंध कहिये ४. एणी रीते बंधमें चार नयमां चार निक्षेपा जाणवा.

हिवे मोक्षनीःकर्म अवस्थामे निपेक्षा उतारे छे. एटले नाम थकी मोक्ष कहतां जे मोक्ष ऐसो नाम १. स्थापना थकी

૧૭૦

અધ્યાત્મગીતા.

મોક્ષ કહતાં જે મોક્ષ રૂપ મૂર્તિ સ્થાપવી અથવા મોક્ષ એસા અક્ષર લિખવા ૨. અને દ્રવ્યમોક્ષ કહતાં જે સમભિરૂઢ નયને મતે શુદ્ધ શુક્રધ્યાન રૂપાતીત પરિણામ રૂપ ક્ષપક શ્રેણીયે અજ્ઞાન રૂપ રાગ દ્વેષને મોહની કર્મનો કરચો ક્ષય વારમે ગુણસ્થાને, અને કેવલ જ્ઞાન પામ્યાં, એહવા કેવલી ભગવાનને ભવ શરીર આશ્રય દ્રવ્યમોક્ષ પદ કહિયે ૩. અને ભાવમોક્ષ કહતાં જે એવંભૂત નયને મતે અષ્ટ કર્મને ક્ષયે, અષ્ટ ગુણ સમ્પન્ન લોકને અંતે વિરાજમાન એહવા સિદ્ધ પરાત્માને ભાવમોક્ષ પદ જાણવો ૪.

એળી રીતે જીવ અર્જીવ રૂપ પદ દ્રવ્ય, નવ તત્ત્વમે નય સંયુક્ત નિક્ષેપા જાળવા.

અને પ્રમાણે કહતાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ

अध्यात्मगीता.

१७१

ए वे प्रमाणे करीने जेणे नव तत्व, षट् द्रव्यनो स्वरूप प्रते जाण्यो छे. अने एहवी रीते जीव अजीव रूप नव तत्व षट् द्रव्यनो स्वरूप नय निक्षेप प्रमाणे करीने जाण्यो त्यारे. स्व पर विवेचन करतां थाये लाभ सदैव. एटले स्व पर विवेचन करतां कहतां जीव अजीवनो स्वरूप भिन्न २ प्रकारे जाणीने वेहचे.

त्यारे शिष्य कहे—जीव अजीवनो स्वरूप भिन्न २ प्रकारे करी किम जाणे ? त्यारे गुरु कहे—जीव छे ते ज्ञानादि चेतनारूप गुण करीने सहित निश्चय नये करीने सत्ताये सिद्धसमान सदा काल शाश्वतो वर्ते छे. अने व्यवहार नये करी जीवने पुण्य पाप रूप

१७२

अध्यात्मगीता.

शुभाशुभ फलनो भोक्ता जाणवो; अने अजीव
 कहतां पांचद्रव्य + चेतनारहित अजीवरूप
 जड़स्वभाव (ते) न जाणे सुखने, न जाणे
 दुःखने. त्यारे शिष्य कहे—ए तो सामान्य
 प्रकारे अर्थ कह्यो पिण विशेष रीते स्वपरनी
 वेहचणरूप जीवनो स्वरूप किम जाणिये ?

त्यारे गुरू कहे—एगोहं. एटले एगोहं
 कहतां हूं एक छूं, म्हारो कोई नथा ?

सासियो अप्पा. एटले सासियो अप्पा
 कहतां म्हारो जीव शाश्वतो छे २.

नाण दंशण संयुक्तो. एटले नाण दंशण
 संयुक्तो कहतां हूं ज्ञान दर्शणे करीने सहित
 छूं ३.

+ धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २
 आकाशास्तिकाय ३ पुद्गलास्तिकाय ४ ओर काल ५.

अध्यात्मगीता.

१७३

सो सविवाहिरा भावा, ते सर्वे संयोग लक्षणा. एटले सो सविवाहिरा भावा कहतां जे म्हारा स्वरूप थकी बाह्य वस्तु कहतां जे अलगी ते सर्वे संयोगे मिली छे; अने वियोगे जाशे, तेहमां म्हारे श्यो विगाड़ थाशे ? ४.

अने संयोग मूला जीवाणं. एटले संयोग मूला जीवाणं कहतां ए संयोगी वस्तुने विषे जीव भुंझाणो. एटले पत्ता दुःखं परम्परा. एटले पत्ता दुःखं कहतां ते जीव दुःखनी परम्परा प्रते पामे ५.

माटे, तमहं संयोग संबन्ध. एटले तमहं संयोग सम्बन्ध कहतां ए संयोगी वस्तु म्हारा स्वरूप थकी भिन्न कहतां जुदी छे—ए शरीरादि पुत्र कलत्र परिवार प्रमुख ६.

૧૭૪.

અધ્યાત્મગીતા.

સવંતિવિદેહ વોસરે. ઇટલે સવંતિવિદેહ
કહતાં હું મન, વચન, કાયાયે કરીને વોસ-
રાવું છું ૭.

હું ચેતન છું, ઇ પુદ્ગલનો સ્વભાવ તે
અચેતન છે ૮.

હું અરૂપી છું, ઇ પુદ્ગલ રૂપી છે. મ્હારો
જ્ઞાનાદિ ચેતના લક્ષણ સ્વભાવ છે, આ પુદ્ગ-
લનો જડ સ્વભાવ છે ૯.

હું અમૂર્તિ છું, આ પુદ્ગલ મૂર્તિ છે ૧૦.

હું સ્વભાવિક છું, આ પુદ્ગલ વિભા-
વિક છે ૧૧.

હું શુચિ કહતાં પવિત્ર છું, આ પુદ્ગલ
અપવિત્ર છે ૧૨.

મ્હારો શાશ્વતો સ્વભાવ છે, આ પુદ્ગલિક

अध्यात्मगीता.

१७५

वस्तु मने मली छे, ते सर्वे अशाश्वती छे ? ३.

म्हारो ज्ञानादि रूप छे, आपुदगलनो
पुरण गलण रूप छे. १४.

म्हारो अचलित स्वभाव छे. एटले
किवारे स्वरूपथकी चलूं नहीं, अने पुद्गलनो
चलित स्वभाव छे ? ५.

म्हारो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मयी स्वरूप
छे, आपुदगलनो वर्णगंधादि रूप छे, हुं
वर्णगंधादिक सुं रहित छूं ? ६.

सुधोहं. एटले सुधोहं कहतां हुं शुद्ध
निर्मल छूं ? ७.

बुधोहं. एटले बुधोहं कहतां हुं ज्ञानानंद-
छूं ? ८.

निर्विकल्पोऽहं. एटले निर्विकल्पोहं कहतां

१७६

अध्यात्मगीता.

हं सर्वे विकल्प सुं रहित छुं म्हारो स्वरूप
न्यारो छे १९.

देहातीतोऽहं. एटले देहातीतोऽहं कहतां
आ देह रूप जे शरीर तेह थकी हं रहित
छुं. २०.

अने अज्ञान राग द्वेष रूप जे आश्रव
ते म्हारो स्वरूप नहीं, हं एण सो न्यारो
छुं. २१.

अनंत ज्ञानमयी, अनंत दर्शनमयी,
अनंत चारित्रमयी, अनंत वीर्यमयी ए म्हारो
स्वरूप छे. २२.

शुद्ध. एटले शुद्ध कहतां हं कर्म रूप मलसुं
रहित छुं २३.

बुद्ध. एटले बुद्ध कहतां हं ज्ञानस्वरूपी
छुं. २४.

अध्यात्मगीता,

१७७

अविनाशी एटले अविनाशी कहतां म्हारो
कोई काले नाशपणो नथी २५.

अजरा. एटले अजरा कहतां हूं जरा
सूं रहित छूं २६.

अनादि. एटले अनादि कहतां म्हारी
आदि नथी २७.

अनंत. एटले अनंत कहतां म्हारो कोई
काले अंत कहतां छेडो पिण नथी २८.

अक्षय. एटले अक्षय कहतां म्हारो कोई
काले क्षय नथी २९.

अक्षर. एटले अक्षर कहतां हूं कोई
काले खरूं नहीं ३०.

अचल. एटले अचल कहतां हूं कोई
काले स्वरूप सूं चलूं नहीं ३१.

१७८

अध्यात्मगीता.

अकल. एटले अकल कहतां म्हारो
स्वरूप केग सूं कल्यो जाय नहीं ३२.

अमल. एटले अमल कहतां हूं कर्म रूप
मलसूं रहित न्यारो छूं ३३.

अगम. एटले अगम कहतां म्हारी
क्रोयने गम नहीं ३४.

अनामी. एटले अनामी कहतां हूं नाम
सूं रहित न्यारो छूं ३५.

अरूपी. एटले अरूपी कहतां हूं ए
विभाव दशाना रूप सुं रहित छूं ३६.

अकर्मी. एटले अकर्मी कहतां हूं कर्म
रूप उपाधि सुं रहित छूं ३७.

अबंधक. एटले अबंधक कहतां हूं कर्म

अध्यात्मगीता.

१७९

रूप बंधन सुं रहित, म्हारो खेल न्यारो
छे ३८.

अणुदीय. एटले अणुदीय कहतां हुं
उदय भाव सुं रहित छुं ३९.

अयोगी. एटले अयोगी कहतां हुं मन,
वचन, कायाना योग सुं न्यारो छुं ४०.

अभोगी. एटले अभोगी कहतां हुं शुभा-
शुभ रूपविभाव दशाना भोग सुं रहितछुं ४१.

अरोगी. एटले अरोगी कहतां हुं कर्म
रूप रोग सुं न्यारो छुं ४२.

अभेदी. एटले अभेदी कहतां हुं कोईनो
भेद्यो भेदाऊ नहीं ४३.

अवेदी. एटले अवेदी कहतां हुं त्रण वेद
सुं न्यारो छुं ४४.

१८०

अध्यात्मगीता.

अछेदी. एटले अछेदी कहतां हुं कोईनो छेदयो छेदाजं नहीं ४५.

अखेदी. एटले अखेदी कहतां हुं स्वरूप रमण मे खेद पासुं नहीं ४६.

असखाई. एटले असखाई कहतां म्हारे कोई सखाई भूत (साक्षीभूत) नथी. हुं म्हारे पराक्रमे करी सहित छुं पिण म्हारा अवला (उलटा) परिणमन थकी बंधाणो छुं ४७.

अने हुं सबलो (सुलटो) प्रणमीस त्यारे छुटीश. पिण मने कोई बांधवा छोटवा सामर्थवान् नथी ४८.

अलेशी. एटले अलेशी कहतां हुं छ द् लेश्याथी रहित न्यारां छुं अने लेश्यारूप ते

अध्यात्मगीता.

१८१

पुद्गल छे, अने म्हारो रूप ते ज्ञानानंद छे ४९.

अशरीरी. एटले अशरीरी कहतां हुं
शरीर रूप जड़ सुं रहित शुद्ध, चिदानंद,
पूर्ण ब्रह्म छुं ५०.

अभाषी. एटले अभाषी कहतां हुं भाषा
रूप पुद्गल सुं रहित पूरण देव छुं. ए भाषा
रूप ते पुद्गल छे ५१.

अनाहारी. एटले अनाहारी कहतां हुं
च्यार* आहार रूप पुद्गलना भोग सें
रहित, अने पर्याय रूप भोगना विलासी
छुं ५२.

अव्यावाध. एटले अव्यावाध कहतां हुं

*असणं १ पाणं २ खादिम् ३ स्वादिम् ४

१८२

अध्यात्मगीता.

बाधापिडा रूप दुःख सुं रहित-अनंत सुख विलासी छुं ५३.

अनअवगाही. एटले अनअवगाही कहतां म्हारो स्वरूप कोई द्रव्य अवगाहि सके नहीं ५४.

अगुरुलघु. एटले अगुरु कहतां मोटो नहीं. अने अलघु कहतां छोटो पण नथी. वली भारे नहीं, हलवो नहीं ५५.

अपरिणामी. एटले अपरिणामी कहतां हुं मन रूप परिणाम सुं रहित छुं ५६.

अनेन्द्री. एटले अनेन्द्री कहतां हुं इंद्री रूप विकार सुं रहित-न्यारो, इच्छायोगी छुं ५७.

अप्राणी एटले अप्राणी कहतां हुं दश

अध्यात्मगीता.

१८३

प्राण रूप पुद्गल सुं रहित. म्हारो खेल न्यारो छे ५८.

अयोनी. एटले अयोनी कहतां हुं चो-
रासी लाख जीवायोनी रूप परिभ्रमणपणा
सुं रहित, निश्चय देव छुं ५९.

असंसारी. एटले असंसारी कहतां हुं
चार गति रूप संसार सुं रहित; पूरण आत्माराम
छुं ६०.

अमर. एटले अमर कहतां हुं. जन्म,
जरा, मरण रूप दुःख सुं रहित छुं ६१.

अपर. एटले अपर कहतां हुं सर्व
परम्परा सुं रहित, म्हारो खेल न्यारो छे ६२.

अव्यापी. एटले अव्यापी कहतां ए
विभाव रूप जड़पणा सुं रहित, हुं म्हारा

१८४

अध्यात्मगीता.

स्वरूप में सदाकाल व्यापी रह्यो छुं ६३.

अनास्ति. एटले अनास्ति कहतां म्हारो कोई काले नास्तिपणो नथी. हुं म्हारा स्व-द्रव्यादिके करीने सदाकाल अस्तिपणेज वर्तुं छुं ६४.

अकंप. एटले अकंप कहतां हुं कोईनो कंपायो कंपूं नहीं. एम अनंतवीर्य रूप शक्तिनो धणी छुं ६५.

अविरोध. एटले अविरोध कहतां हुं कर्म रूप शत्रुनो रोध्यो रुंधाऊं नहीं, सदा काल निर्लेप कर्म रूप मल सुं रहित न्यारो, हुं म्हारे परिणामिक भावे रह्यो वर्तुं छुं ६६.

अनाश्रव. एटले अनाश्रव कहतां हुं शुभाशुभ विभाव दशा रूप आश्रव सुं रहित

अध्यात्मगीता.

१८५

सदा काल न्यारो वर्तू छुं. जेम डंकने संयोगे स्फटिकने कलंक लागे पिण मूल स्वभावे जोतांतो स्फटिक शुद्ध निर्मलो छे, तेम हुं म्हारे स्वभावे निर्लेप रह्यो वर्तू छुं ६७.

अलख. एटले अलख कहतां म्हारो स्वरूप छद्मस्तने लख्या मे न आवे ६८.

अशोक. एटले अशोक कहतां हुं जन्म, जरा, मरण भय रूप शोक संताप सुं रहित सदा काल निरोगी, अमर रूप वर्तू छुं ६९.

अलोक. एटले अलोक कहतां हुं लौकिक मार्ग सुं रहित, म्हारो खेल न्यारो वर्ते छे ७०.

लोकालोकज्ञायक. एटले लोकालोकज्ञायक कहतां हुं ज्ञाने करीने लोकालोकनो स्वरूप एक समयमे जाणवा सामर्थवान् छुं ७१.

१८६

अध्यात्मगीता.

शुद्ध एटले निर्मल, कर्मरूप मलसुं
रहित छुं ७२. चिदानंद एटले चिद् कहतां
ज्ञान अने नंद कहतां आनंद चारित्र रूप
तेणे करीने हुं सहित वर्तुं छुं एहवो म्हारो
स्वरूप सदा काल शाश्वतो छे. ७३.

एहवी रीते, एम वेहचण करतां थाये लाभ
सदैव. एटले—थाये लाभ सदैव कहतां एहवी
रीते अंतरंग भासन रूप वेहचण करतां थकां
ते जीवनें सदैव कहतां सदा काल निरंतरपणे
लाभ प्रते नीपजे. एटले एहवी रीते सदा
काल लाभ प्रते केम नीपजे ? तोके निश्चने
व्यवहारे विचरे जे मुनिराय. एटले निश्चने
व्यवहारे कहतां जीव अजीव रूप पट् द्रव्य
नव तत्वनो स्वरूप निश्चय व्यवहार नये

अध्यात्मगीता.

१८७

जाणपणा रूप अंतरंग प्रतीत करवी, ते थकी लाभ प्रते नीपजे.

त्यारे शिष्य कहे—निश्चय व्यवहार नये जीव अजीव रूप षट् द्रव्य नव तत्त्वनो स्वरूप किम जाणिये ? त्यारे गुरु कहे—निश्चय नय करी सर्व जीव सत्ताये एक रूप सरीखा सिद्धसमान शाश्वता छे; अने व्यवहार नये करी जीवनी अनेक भांति देवता, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य रूप जाणवी अने कोई जीव शुभ परिणामे करी पुण्य रूप आश्रवना दळीया बांधे तेहने अजीव कहिये ५. ते निश्चय नये करी छोड्वा योग्य अने व्यवहार नये करी आदरवा योग्य.

बली कोई जीव अशुभ परिणामे करी

૧૮૮

અધ્યાત્મગીતા.

પાપ આશ્રવના દલીયા બાંધે તેહને અજીબ
કહિયે તે નિશ્ચય નયે કરી છાંડવા યોગ્ય
અને વ્યવહાર નયે કરી છાંડવા યોગ્ય.

હિવે સંવરનો સ્વરૂપ કહે છે. ઇટલે
વ્યવહાર નયે કરી સંવરનો સ્થરૂપ કહતાં
નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિ રૂપ ચારિત્ર જાણવો. અને
નિશ્ચય નયે કરી સંવર કહતાં જે પોતાના
સ્વરૂપમે રમણ કરવો.

હિવે નિર્જરાનો સ્વરૂપ કહે છે. ઇટલે
વ્યવહાર નયે કરી નિર્જરાના બાર
ભેદ જાણવા. અને નિશ્ચય નયે નિર્જરાનો
સ્વરૂપ કહતાં સર્વ પ્રકારે ઇચ્છાનો રોધ કરિ
પોતાના સ્વરૂપમે સમતા ભાવ વર્તેવો.

अध्यात्मगीता.

१८९

हिवे मोक्षनीःकर्मावस्थानो स्वरूप कहे छे. एटले व्यवहार नये करी मोक्ष तेरमे चवदवे गुणस्थानें केवलीनं कहिये. अने निश्चय नये मोक्षपद कहतां जे सकल कर्म क्षयकरी लोकने अंते विराजमान एहवा सिद्ध परमात्माने जाणवो एणी रीते नवतत्वनो स्वरूप निश्चय व्यवहार करी धारवो.

हिवे पट द्रव्यनो स्वरूप निश्चय व्यवहार नय रूप ओलखावे छे. तिहां प्रथम जीवनो स्वरूप आगल कहाो ते प्रमाणे जाणवो १. हिवे धर्मास्तिकाय २. अधर्मास्तिकायनो स्वरूप कहे छे. एटले निश्चय नयथकी धर्म अधर्म लोकव्यापी खंध असंख्यात प्रदेश रूप शाश्वतो छे; अने व्यवहार नयकरी देश

૧૯૦

અધ્યાત્મગીતા.

પ્રદેશ અને અગુરુ લઘુ જાણવો ૩. હિવે આકાસ્તિકાપનો સ્વરૂપ કહે છે. ઇટલે નિશ્ચયથી આકાસ્તિકાપનો સ્વંધ લોકાલોકવ્યાપી અનન્ત પ્રદેશી શાશ્વતાં છે, અને વ્યવહાર નય કરી દેશ પ્રદેશ અને અગુરુલઘુ જાણવા ૪. હિવે કાલનો સ્વરૂપ કહે છે. ઇટલે નિશ્ચય થકી કાલનો એક સમય લોકમે સદાકાલ શાશ્વતો વર્તે છે. અને વ્યવહાર નય કરી કાલ ઉત્પાંત, વ્યય રૂપ પલટણ સ્વભાવે જાણવા ૫.

હિવે પુદ્ગલનો સ્વરૂપ કહે છે. ઇટલે નિશ્ચય નયે કરી પુદ્ગલના અનંતા પરમાણુ લોક મેં સદાકાલ શાશ્વતા વર્તે છે. અને વ્યવહાર નયે કરી પુદ્ગલના સ્વંધ સર્વે

अध्यात्मगीता.

१९१

अशाश्वता जाणवा ६.

एणी रीते निश्चय व्यवहारथकी षटद्रव्य नव तत्व नो स्वरूप जाणवो. ए परमार्थ. अने एहवी रीते निश्चय व्यवहार रूप जाण पणे करी साध्यरूप निश्चय दृष्टि अन्तर ने विषे राखी; अने निवृत्ति प्रवृत्ति आदि बाह्य व्यवहार रूप क्रिया करतां थकां अने विचरे जे मुनिराज; एटले विचरे कहतां रीते स्याद् वाद् रूप जाणपणे करी भव्य प्राणीने हेत उपदेश करतां थका विचरे, जे कहतां ते मुनिराज. अने वली ते मुनि केहवा छे ? भवसागरना तारण निर्भय तेहि जहाज एटले भवसागर कहतां संसार रूप सागर कहतां जे समुद्र तेहने विषे भमता भमता अनंता

૧૧૨

અધ્યાત્મગીતા.

કાલચક્ર વહી ગયા પિણ હજી જીવ કાંઠા પ્રતેં ન પામ્યો, એહવો અપાગવાર જે સમુદ્ર તેહને વિષેથી તારવાનેં એ મુનિ કેહવા છે ? નિર્ભય જહાજ એટલે નિર્ભય જહાજ કહતાં એહવા મુનીની સેવા ભક્તિ રૂપ આસના વાસના જે જીવ કરે છે, તે જીવ સંસાર સમુદ્ર મે ભ્રમતા, નિર્ભય કહતાં ભવ ભ્રમણ રૂપ ભય ટાલવાને નિર્ભય જહાજ પ્રતે પામ્યો. એટલે જહાજ હોય તો પોતે તરે અને જહાજને આશ્રય તેહને પિણ તારે. માટે એહવા જહાજરૂપ મુનિ-રાજ સંસાર રૂપ સમુદ્ર પોતે તરે, અને ભવ્ય પ્રાણીને પિણ તારે. અને વલી એ મુનિ કેહવા છે ? ॥ ૪૬ ॥

अध्यात्मगीता.

१९३

ढालः—

वस्तु तत्वै रम्या ते निग्रंथ । तत्व
अभ्यास तिहां साधु पंथ ॥ तिणै
गीतार्थ चरणे रहीजे । शुद्ध सि-
द्धांत रस तो लहोजे ॥ ४७ ॥

अर्थः—वस्तु तत्व रम्या ते निग्रंथ.
एटले वस्तु तत्व कहतां पोताना आत्मानो
वस्तु धर्म सत्तागतने विषे अनन्तो रह्यो छे,
ते धर्मने ओलखी, प्रतीत करी, अने रम्या
कहतां तेहना ध्यानने विषे प्रवर्त्या. अने वली
ए मुनि केहवा छे ? तो के निग्रंथ. एटले
निग्रंथ कहतां, चौदह अभ्यंतर, नव विध
बाह्यनी गंडो तजे मुनिराज. एटले चौदह

१९४

अध्यात्मगीता.

अभ्यंतर कहतां त्रण वेद, अने हासादिक षट्, एक मिथ्यात्व ए दश, अने क्रोधादिक चार कषाय, ए चौदह प्रकारे अभ्यन्तर; अने धन, धान्य, क्षेत्र, वधु, रूपुं, सावन, दुपय, चउपय, कुवय ए नव प्रकार बाह्य परिग्रहना. अने आगले चौदह प्रकार कख्यां ते अभ्यंतर परिग्रह जाणवो. एणी रीते बाह्य अभ्यंतर थइने त्रवीश प्रकारे परिग्रह रूप गंठीने भेदे कहतां लेदे तेहने साधु मुनि-राज कहिये. अने वली साधु कोने कहिये ? तो के, तत्व अभ्यासे तिहां साधु पंथ एटले तत्व कहतां पोताना आत्मतत्वने निपजाववो, अने अभ्यासे कहतां तेहनां अभ्यासने विषे सदाकाल निरंतर पणे जेहनो उपयोग प्रते

अध्यात्मगीता.

१९५

बत्ते तिहां साधुपंथ जाणवां. तेणे गीतार्थ
 चरणं रहींजे. एटले तेणे कहतां ते कारण
 माटे गीतार्थ मुनि के चरणे रहिजे. अने एहवा
 गीतार्थ मुनिना चरण कमण सेवा थकी श्युं
 नापजे ? तो के शुद्ध सिद्धान्त रस तो लहिजे
 एटले शुद्ध कहतां निर्मल यथार्थ निःसंदेह
 पणे सिद्धान्त कहतां एहवा आगम संबंधी या
 ज्ञान रस प्रते चाखीजे. अने वली एं मुनि
 केहवा छे ? ॥ ४७ ॥

श्रुत अभ्यासी चोमासी वासी
 लींवडी ठाम । शासनरागी सौ-
 भागी श्रावकना बहु धाम ॥ खर-
 तर गच्छ पाठक श्री दीपचंद सुप-

१९६

अध्यात्मगीता.

साय । देवचंद्र निज हर्षे गायो
आत्मराय ॥ ४८ ॥

अर्थः—एटले श्रुतअभ्यासी कहतां श्रुत ज्ञानने अभ्यासे करीने यथार्थ स्वसत्ता, परसत्ताना भासन रूप उपदेश करतां; अने चौमासी वासी लींबड़ी ठाम. एटले लींबड़ी ग्रामने विषे चौमासो प्रते वसीने ए ग्रंथनी रचना प्रते करी. एटले लींबड़ी ग्राम केहवो छे ? तोके, शासनरागी सोभागी श्रावकना बहु धाम. एटले शासनरागी कहतां जिन-शासन ना रागी, जिनशासनना उद्योत ना करणहार, जिनशासननी उन्नति कहतां महि-माना वधारणहार, एहवा सोभागी सिरदार,

अध्यात्मगीता.

१९७

यथार्थ भासन रूप आत्मउपयोगी व्यवहार
 क्रिया रूप आचारना प्रतिपालक, जिनशासन
 दीपावक, देव गुरु भक्तिकारक, एहवा
 श्रावक पुण्य प्रभावक, ज्ञानचर्चारक
 एहवा श्रावकना बहु कहतां घणा, अने धाम
 कहतां वसवाना घर प्रते जाणवा. श्री खरतर-
 गच्छ पाठक श्रीदीपचंद सुपसाय. एटले
 खरतर गच्छ मध्ये उपाध्याय श्रीदीपचंद
 गुरुने पसाय कहतां प्रसादे करीने; देवचंद्र
 निज हर्षे गायो आत्मराय. एटले तेहनो शिष्य
 देवचन्द्र मुनीये, निज कहतां पोताने हर्षे
 करीने, गायो कहतां संस्तव्यो, अने आत्मराय
 कहतां आत्मराजानो यथार्थ पणे आत्मिक
 स्वरूप प्रते वखाण्यो ॥ ४८ ॥

१९८

अध्यात्मगीता.

हालः—

आत्म गुण रमण करवा अभ्यासै ।
 शुद्ध सत्तारसीने उल्लासै । देवचंद्रै
 रची अध्यात्म--गीता । आत्म--रमणी
 मुणी सु प्रतीता ॥ ४९ ॥

अर्थः—आत्मगुण रमण करवा अभ्यास
 एटले आत्मगुण कहतां आत्माना ज्ञानादि
 अनंत गुणने विषे भव्य जावने रमण करवा
 अभ्यासे, एटले तेहने विषे रमण करवा रूप
 अभ्यासने अर्थे; अने शुद्ध सत्तारसीने उल्लासे
 एटले शुद्ध कहतां निर्मल अने सत्तारसी कहतां
 आत्मसत्ताना रसिया, एहवा साधु मुनिराज
 तेहने उल्लासे देवचंद्रै रची आत्मगीता. एटले

अध्यात्मगीता.

१९९

देवचंद्र गणा गीतार्थ मुनीये आत्मगीता कहतां
 आत्मगीत रूप शिझाय प्रते, रचि कहतां रचना
 प्रते करी. ते रचना केहने अर्थे करी ? तोके,
 आत्मरमणी मुनि सु प्रतीता. एटले आत्मरमणी
 कहतां जेणे पांताना आत्मस्वरूपने विषे रमण
 प्रते करयां छे, एहवा मुणी कहतां जे मुनि
 अने मुकहतां भली तरह, प्रतीता कहतां तेहने
 स्वरूपना परतीत करवाने वास्ते.

श्री मारवाड़ मध्ये श्री पाली नगरे
 श्राविका घाई लाङ्गने सीखवाने अर्थे हेतु उप-
 देशने माटे संवत् १८८२ ना अषाढ वदी २
 गुरुवारि ए ग्रंथनी बालावबोध रूप रचना प्रते
 करी ॥ ४९ ॥

संवेगीमां जे सरदार । तेहना गुण कहतां

२००

अध्यात्मगीता.

नहिं पार ॥ समरचां संकट दूरे टले । से-
 व्यांथी शिव सम्पद् मिले ॥ १ ॥ जिन
 उत्तम पद पंकज रूप । तेहनें सेवे सुर नर
 भूप ॥ अर्मा कुंअर कहे निज रूप । ए
 अध्यात्म गीतानो स्वरूप ॥ २ ॥ अल्पबुद्धि
 में रचना करी । शुद्ध करो पंडित जन मिली ॥
 भणे गुणे वलि जे सांभले । तिस घर लक्ष्मी
 लीला करे ॥ ३ ॥



